



जिन्दगी के थपेड़े

श्री विष्णु प्रभाकर की लेखनी का पूरा जोहर आपको इस कहानी-संग्रह में मिलेगा। उनकी कहानियों में सामाजिक जीवन का जो कम है, अन्तर्द्वंद्वों का जो सजीव आकलन है, उस सब को पढ़ कर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ही हृदय को किसी ने उघाड़ कर रख दिया है। नये तरुण के मानस का जो समस्यायें आज भकभोर रही है, उसका आर्थिक और सामाजिक जीवन जिस प्रकार विपन्न है, उसी सबका यथातथ्य चित्रण आपको इस पुस्तक के शब्द-प्रतिशब्द में मिलेगा। ये कहानियाँ आपकी कहानी और उपग्राम --- दोनों का ही स्वाद एक साथ देंगी।

जिन्दगी के थपेड़े

विष्णु प्रभाकर



तीन रुपया

प्रकाशक :
आलोक प्रकाशन
वीकानेर

मूल्य ३)

मुद्रक :
भारतीय मुद्रण मन्दिर
वीकानेर

विष्णु

सूची

१.	दफ्तर में	५
२.	जीवन : एक कहानी	१८
३.	बहानों लेखक	२५
४.	अन्तर्वेदनः	३३
५.	सहस्य	४८
६.	अपरिचित	६०
७.	छाती के भीतर	७१
८.	पण्डितजी	८२
९.	परिवर्तन ✓	९२
१०.	निशिकान्त	१०१
११.	किनना भूठ	११७
१२.	निशिकान्त का स्वप्न	१२६
१३.	मुक्ति	१४१
१४.	बढ़ रास्ता ✓	१५३
१५.	क्रान्तिकारी	१७२
१६.	यह क्रम	१८५
१७.	असुपोदय	१९१



बन्धुवर चन्द्रगुप्त विद्यालंकार
को
१६३४ के एक पत्र
की
याद में

जिन्दगी के थपड़े

‘जिन्दगी के थपड़े’ ऊपर से ऐसा दिखाई देने पर भी निश्चय ही कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि १७ भागों में एक बड़ी कहानी है, एक व्यक्ति की कहानी। निशिकान्त उस व्यक्ति का नाम है पर वह निशिकान्त व्यक्तिवाचक होकर भी कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। वह एक पूरे समाज का प्रतिनिधि है। बीसवीं सदी के पृथार्थ का वह एक साधारण मानव है। उसकी विशेषता यहाँ है कि वह युग की प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक है और उनसे जूझने को उत्सुक।

ये कहानियाँ जान-बूझ कर किसी क्रम से या किसी उद्देश्य से नहीं लिखी गईं, पर फिर भी इनका एक क्रम है। यद्यपि उस क्रम की कुछ कहानियों में कथा के समय और लिखने के समय में अन्तर है। दूसरी (जीवन:एक कहानी) और छठी (अपरिचित) कहानियाँ अपेक्षाकृत पुरानी हैं तथा तीसरी (कहानी लेखक) चौथी (अन्तर्वेदना) और पाँचवीं (रहस्य) बहुत बाद में लिखी गई हैं। यदि लेखक भूलता नहीं तो लेखन क्रम से इस संग्रह की सबसे पहली कहानी सन् १९३८ तथा सबसे अन्तिम कहानी सन् १९४७ में लिखी गई पर कथा-क्रम की दृष्टि से ये सन् १९३५-३६ से लेकर १९४५-४६ तक के भारत की कहानियाँ हैं। उस समय की अनेक प्रसिद्ध घटनाओं की झलक इनमें है। ‘परिवर्तन’ और ‘वह रास्ता’ हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर प्रकाश डालती हैं। ‘भुक्ति’ बंगाल के अकाल का परिचय देती है। ‘निशिकान्त का खम’ द्वितीय महायुद्ध से सम्बन्ध रखती है। ‘पण्डितजी’ और ‘क्रान्तिकारी’ पर तत्कालीन राजनीतिक वातावरण की छाया है। लेखक का यह दावा नहीं है कि उसका दृष्टिकोण समूचे देश का दृष्टिकोण है, पर फिर भी इतना दावा वह जरूर करता है कि घटनाओं के प्रति पूरी ईमानदारी बरती गई है।

शेष कहानियों में कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएँ हैं। ‘जीवन:एक कहानी’ में एक वर्ग की आर्थिक दुर्दशा, ‘अन्तर्वेदना’ में नारी और विवाह, ‘यह क्रम’ में बाल और अपराध मनोविज्ञान, तथा ‘दफ़तर’ और ‘अरूणोदय’ में सरकारी दफ़तरों

की राजनीति के जो चित्र प्रस्तुत किये गये हैं वे हमें सोचने को विवश करते हैं। कहानी-लेखक, रक्षक, अपरिचित, छाती के भीतर, निशिकान्त और कितना झूठ, में केवल व्यक्ति विशेष की समस्याएँ हों सो बात भी नहीं है। ये मानव-चरित्र की कहानियाँ हैं; एक विशेष समाज में निर्मित हुये मानव-चरित्र की। यद्यपि ऊपर से देखने पर वह समाज हास की ओर जा रहा है, परन्तु उसका प्रभाव अभी देर तक रहने वाला है।

यह तो हुई सामाजिक-पहलू की बात, पर वही सब कुछ नहीं है। लेखक को विश्वास है कि इसके अलावा भी ये कहानियाँ पढ़ी जाने वाली हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है ये केवल कहानियाँ नहीं हैं, एक व्यक्ति का अध्ययन है और उसके द्वारा एक विशेष समाज और एक विशेष युग का अध्ययन। इस अध्ययन में कहानी की सक्षिप्तता, उपन्यास का विकास-क्रम, और इतिहास की ईमानदारी है। प्रत्येक कहानी अपने में पूर्ण है और समूची पुस्तक का कथा-सूत्र सम्बद्ध है। बिना किसी योजना के लिखी गई 'जिन्दगी के थपेड़े' की कहानी सम्पूर्ण जीवन की न सही, जीवन के एक भाग की सम्पूर्ण कहानी है।

लेखक को इतना ही कहना है, शेष पाठक पढ़े और जाने।

नववर्षारम्भ
चैत्र शुक्ल १, २००६
दिल्ली

}

४०/१०/१०

२६-३-५२

दफ्तर में



अभी उस दिन कान्त के नथने फड़कने लगे थे और परचा लिखता-लिखता वह थर-थर कांप उठा था, लेकिन आज जैसे उसे हँसी आगई। अपने साथी से बोला “कितनी वेवकूफी की बातें हैं !”

साथी गेंदुये रंग का लम्बा सा नवयुवक था। वह नया भरती हुआ था। इसी बात पर उसने एक दिन कहा था—मेरा जी कहता है उसके गले पर अँगूठा रखकर जोर से दबा दूँ !

आज भी उसने यही कहा।

यह ठाँक है, लेकिन तुम इसके परिणाम के लिये तैयार हो ?

परिणाम की मुझे चिन्ता नहीं है। मेरे बदन में आग लगी हुई है छोटे बाबू हमारी तरफ किरानी है। क्या हुआ उसका वेतन कुछ अधिक है। उसे आदमी को भिड़कने का अधिकार नहीं है। यह सरकारी काम है।

वह आगे कुछ कहता कि बड़े बाबू हाँफते-हाँफते वहाँ आगये। बोले—“आज की डाक से यह केस जाना है। जल्दी तैयार कर दो !”

लाल फ़ाने में बंधे हुये बहुत से कागज़ लेकर निशिकान्त का साथी अपनी सीट पर चला गया। बड़े बाबू कान्त से बोले—“तुम ज़रा छोटे बाबू के पास चले जाओ। मुझे प्राइवेट लिफ़ाफ़ों की ज़रूरत है।”

तब कान्त ने अपने सामने बड़े बड़े रजिस्ट्रों को समेटते हुये जवाब दिया... “जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।”

“क्यों ?”

“क्योंकि वह आदमी से कुत्ते की तरह बोलता है।”

“कुत्ते की तरह !”—आनकन्य कर बड़े शान् बोलें।

“जी हाँ ! अब से उसके पंरो बड़े हैं, वह आदमी को आदमी नहीं

समझता । गाली देता है । ऐसे कमाने आदमी से हम कोई वास्ता नहीं रखना चाहते !”

“उसे ऐसा नहीं चाहिये ।” — बड़े बाबू ने कहा ।

“वेशक चाहिये तो नहीं, परन्तु मेरा विश्वास है जब तक उसके गाल पर तमाचा नहीं लगता वह ऐसा ही चाहता रहेगा ।” — कान्त कहते कहते क्रोध से भर उठा । उसकी मुट्ठी मिच गई । आँखें लाल हो आईं ।

बड़े बाबू ने अचरज से उसे देखा और कहा — “मैं समझा दूँगा; अच्छा ।”

× × ×

दफ्तर में घुसते ही बाँयी ओर के कमरे में बैठे हुये छोटे बाबू को कोई नहीं भूल सकता । वह नाटा आदमी है । उसका रंग साँवला है । उसका शरीर सुडौल है और हर एक पोशाक उस पर फव्वती है । कोट पैंट वा पाजामा अथवा सिलवार कुल्छी भी वह पहिन ले उसे बुरी नहीं लगती । वह अपनी सीट पर बैठ कर जब सिगरेट का लम्बा कश खींचता है तो पीड़ा उसकी आँखों से झलक पड़ती है । उसके पतले मुख पर उस्तरे की रगड़ से ज़रूरत से ज्यादा कालापन उभर आया है और हर वक्त की झुँझलाहट के कारण वह बड़ा चिड़-चिड़ा हो गया है । कभी-कभी लम्बे और टेढ़े केसों पर विद्वता-पूर्ण टिप्पणियाँ करने करते उसकी छोटी आँखें चमक उठती हैं । वह बहुत चतुर और चलता किरानी है, पर दफ्तर के दूसरे बाबुओं को उसकी विद्वत्ता पर ज़रा भी गर्व नहीं है । यही बात उसे खटकती है । किसी उलझे हुये केस को सुलभाने के बाद जब वह अँगड़ाई लेकर उँगली चटखाने लगता है, तो उसकी सूरत देखने योग्य होती है । वह चारों ओर नज़र डालकर अपने साथी से कहता — “मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा !”

उसका साथी भारी बदन का आदमी है । उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा है । लेज़र लिखते-लिखते वह छोटे बाबू की तरफ देख लेता है और मुसकरा कर अपने काम में लग जाता है । मानो कहता है — “गुन डाल ही जा

भक्तों हो । सरकारी काम क्या अटक रहेगा ? तुम नहीं तो कोई तुम्हारा भाई आ करेगा !”

और यही बात अपने साथी की सुसकराहट में पढ़ कर छोटा बाबू ऊपर से नीचे तक जल जाता है । ये लोग मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करते जब कि साहब मेरी तारीफ़ करते करते नहीं थकता । सचमुच साहब समझता है कि दफ़तर में से छोटे बाबू को निकाल दिया जाय तो कुछ नहीं रहता । यह बात उसने कई बार साफ़ कह दी है । गोरे अफसर का मुँह कौन पकड़े ? और यही बात दूसरे बाबुओं को खटकती है । अपना अपना काम सभी करते हैं । इस बाबू में फिर कौन-सी विशेषता है ? और ऐसे वक्ता यदि कमखरती का मारा चपरासी उसके कमरे में चला जाय तो समझिये ख़ैर नहीं । दिल की सारी भङ्गास वह उस पर निकालता है ।

“उल्लू का पट्टा ! सुअर ! चला जा यहाँ से !”

चपरासी कहता —“बाबू जी...!”

“हरामज़ादे बेईमान !...”

“गाली मत दीजिये बाबू जी...”

छोटे बाबू का पारा और भी तेज़ होता है—“सुअर का बच्चा ! क्या कहता है ? गाली न दो ! तुम नवान्न के बच्चे हो न ? मैं कहता हूँ चले जाओ, नहीं तो पीट दूँगा । ज़रा भी काम नहीं करने देते कमखरती !”

चपरासी लौट जाता है । कभी वह तेज़ हो जाता है तो खूब ठन जाती है और चेचक के दागों वाले बाबू को बीच-बचाव करना पड़ता है । लेकिन अक्सर ऐसा उसी वक़्त होता है जब साहब ग़ैरहाज़िर होता है । एक दिन सुना, ऐसी ही बात पर दफ़तरी में छोटे बाबू के रूल खींच मारा था । यह बातें पुरानी हैं और कहते हैं बहुत दिनों तक छोटे बाबू सन से हँस हँस कर उसकी बातें करते रहे थे ।

(२)

और इन्हीं छोटे बाबू से निशिकान्त का भगड़ा हो गया । वैसे तो बहुत दिनों में उनका मन-मटाव चला आता था । पिछली ६ जनवरी को एक केस में किसी बहुत पुरानी फाइल की ज़रूरत थी । बड़े बाबू ने कहा— “छोटे बाबू को पता होगा । उसने यह काम किया था ।”

लेकिन जैसे ही निशिकान्त ने छोटे बाबू के कमरे में प्रवेश करके उनसे कहा— “क्या कृपा करके आप—”

तो छोटे बाबू चीख पड़े— “चलो जाओ यहाँ से ! मैं कुछ नहीं जानता !” निशिकान्त क्षण भर के लिये स्तम्भित-चकित से रह गये । क्रोध उमड़ आया, लेकिन न जाने क्या सोचकर अपने को संभाल लिया । कहा— “तुमने तो कमाल कर दिया !” और वह लौट आया । उसने बड़े बाबू से बिना कुछ कहे केस उनकी मेज़ पर पटक दिया ।

उसी दिन से दोनों की बोल-चाल बन्द थी । दोनों एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते थे और मज़ेदार बात यह थी कि रोज़ सुबह सबसे पहले वे दोनों ही दफ़्तर आते थे । वे गून-मथून से एक दूसरे की तरफ़ देखकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते और काम करने लगते, क्योंकि उन दोनों के अतिरिक्त उस वक़्त दफ़्तर में कोई नहीं होता । उनके हृदय अन्दर ही अन्दर जल भुनकर खाक होते रहते । वे कभी साँस लेने के वहाने भाँक-भाँक कर एक दूसरे को देख लेते और अँगुलियों मीचने का अभिनय कर खुरसी की पीठ पर झुक जाते । और जब भी ताँसरा आदमी उन दोनों में से किसी के कमरे में आता तो वे एक ही प्रश्न पर वाद-विवाद करने लगते ।

छोटे बाबू के कमरे में बातें होती थी—

“क्यों जी ! कान्त ने आज कृपा कहा ?”

“कहेंगे क्या ? मेरी बुराई करने होंगे कि मैं बदमाज़ हूँ, नालायक हूँ ।”

“सच !”

“और क्या ? अरे ! उसने बड़े बाबू से मेरी शिकायत की, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मेरा दिमाग ठीक नहीं हो सकता । वह अपने को समझता क्या है ?”

“वेशक”—एक बाबू ने कहा ।

“और तुमने मुझ ? उसने साहब के पास जाकर अपनी सदाचार पत्रिका में कितने अच्छे रिमार्क लिये । शानदार !”

खजांची ने अच्छकचा कर पूछा—“वह साहब के पास गया था ?”

“गया ही होगा ! नहीं तो क्या साहब इतना भला मानस है कि उस जैसे आदमी के लिये लिखे ‘शानदार’ काम ?”

“हो सकता है—” उसके साथी ने टिप्पणी की ।

“जाना अब मुझसे बातें नहीं करते हैं । काम होता है तो परचा लिखकर भेजते हैं जैसे ये ही साहब हैं !”

उसका साथी बीच ही में धोल उठा । इसीलिये छोटे बाबू को रुकना पड़ा—“तुम जब आदमी को कुत्ते की तरह भिड़कते हो तो वह क्या करें ?”

“मैं...!”—छोटे बाबू फिर कुछ कहते कि चपरासी ने एक परचा लाकर दिया और बोला—“कान्त बाबू ने यह किताब जल्दी माँगी है !”

छोटे बाबू अन्दर ही अन्दर जल रहे थे । परचा देख कर आग बचूला हो गये । परचे को सुट्टी में मसोस कर परे फेंक दिया और कहा—“जाओ, कह दो मेरे पास परचा भेजने की जरूरत नहीं !”

चपरासी हँस पड़ा और परचा उठा कर उसने कान्त बाबू को जा कर दे दिया । कान्त बाबू क्रोध से पागल हो उठा । उसके नथने फड़कने लगे । उसने उसी चिट पर लिखा:—

‘छोटे बाबू !

तुम्हारे पास आदमी जाता है तो तुम कुत्ते की तरह भिड़कते हो । परचा लिखते हैं तो तुम भिड़कते हो । आखिर तम चाहते क्या हो ? सरकारी

काम तुम्हारी वजह से रुक नहीं सकते और अगर तुम समझते हो कि काम करने का हक तुम्हें ही है तो साहब से कहकर सारे दफ्तर का चार्ज ले लो । हम अपना रान्ता देखेंगे । नहीं तो तुम्हें आदमी की तरह चरताव करना चाहिये । समझे ! सबके पास दिमाग है और सब के पास हृदय । न जाने क्या हो जाने !'

भवदीय—

कान्त

अपरामी के हाथ यह परचा उसने छोटे बाबू के पास भेज दिया और दो मिनिट में ही उसका जवाब भी आगया । छोटे बाबू ने लिखा था :—

—'तुमने मुझे गलत समझा होगा । मैं कभी किसी से बुरा चरताव नहीं करता । तुम हमेशा अपने आदमी को मेरे पास भेज दिया करो । जो तुम चाहोगे वही कितना या केस मैं भेज दूँगा ।'

कान्त ने यह पढ़ा तां उसे और भी क्रोध आगया; उसने फिर लिखा:—

छोटे बाबू !

तुम सरासर झूठ बोल रहे हो । तुम सदा आदमी को भिड़कते हो और गाली देते हो । अगर तुम इतने भोले और नम्र व्यवहार करने वाले हो तो क्यों सब लोग तुम्हारे पास जाने से मना करते हैं ? तुम शेर नहीं हो, जो फाड़ खाओगे । इस बात का तुम्हारे पास क्या जवाब है ?

तुम हमारा भी लिहाज नहीं करते । हम लोग तुम्हारे साथी हैं और बर्षों से तुम्हारे साथ काम करते रहे हैं । तब तुम्हारा क्या एतबार ? आज यह मामला साहब के सामने पेश होना चाहिये । हम लोगों ने अपने इस्तीफे लिख लिये हैं । तुम हमें निकालना ही चाहते हो तो हम तैयार हैं, लेकिन खूब दिल की निकाल कर निकलेंगे ।'

भवदीय—

कान्त

कान्त लिख रहा था तो उस का हाथ फिसला पड़ता था और अक्षर तिरछे-टेढ़े बन रहे थे। वह थर थर काँप रहा था। लेकिन अक्षरज, उस चिट पर छोटे बाबू ने लिखा:—‘मैंने आपके दिल को ठेस पहुँचाई, इसके लिये क्षमा माँगता हूँ। मुझे सदा अपना सेवक समझे।’

कान्त ने एक बार, दो बार उस चिट को पढ़ा और उसकी कँपकँपी सहसा थम गई। उसने मन ही मन कहा—‘कैसा चालाक आदमी है!’ लेकिन उसका मन खिल उठा था और वह समझ रहा था वह विजय मेरी है।

उसने फिर उस चिट पर जवाब लिखा :—

‘छोटे बाबू !

माफ़ वही कर सकता है जो सज़ा दे सकता है। मुझ से माफ़ी माँगना सरासर धोखेबाज़ी है। दफ्तर के काम होने चाहिये, वस यही मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ऐसे आदमी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दफ्तर से बाहर मेरा तुम्हारा संबंध ही क्या है ? मैं समझता हूँ तुम्हें ये शब्द लिखते हुए कितना कष्ट हुआ होगा। कृपा कर आप अपने शब्द लौटा लें।

भवटीय—

कान्त

कान्त ने यह लिख तो दिया पर भेजा नहीं। लिखा भी कई बार था। यह चिट कहीं चौथी बार जा कर ठीक ठीक बनी थी, फिर भी उसने उसे जेब में डाल लिया। वह नहीं चाहता था यह माफ़ीनामा व्यर्थ जावे। इस माफ़ीनामे के बूते पर वह छोटे बाबू को नीचा दिखा सकता है और उसने अपने साथी को बुलाकर सबमुच वह परचा दिखा भी दिया।

साथी ने अक्षरज से पढ़कर कहा—“छोटे बाबू ने माफ़ी माँगी; बिल्कुल झूठ !”

“तुम देख सकते हो, उसने ही लिखा है ...”

“कमाल किया है !”

“लेकिन मैं इस परचे को सँभाल कर रखूँगा ।”

“रखना ही चाहिये” कान्त के साथी ने कहा—“और तुम्हें पता है, उसने बड़े बाबू को क्या जवाब दिया है ?”

“क्या दिया है ?”

“वही कि मैं कान्त से मज़ाक किया करता हूँ, वह बुरा मान गया होगा ।

“मज़ाक ?”

“हाँ !”

कान्त हँस पड़ा—“बड़ा अजीब आदमी है ! कितना होशियार, कितना धूर्त और कितना कायर !”

(३)

निशिकान्त ने समझा—चलो भगड़ा यही खतम होगया, लेकिन चार दिन बाद ही उसकी आशा काफ़ूर होगई । उसने जो कुछ सुना उस पर उसे हँसी आये बिना न रही । उसने अपने साथी से कहा—“कितनी बेचक़री की बात है ?”

साथी ने कहा—“वह तुम्हारे खिलाफ़ खूब प्रोपेगैण्डा कर रहा है । मुझसे कहता था, तुम्हारे अफसर साहब का मिज़ाज गरमा गया है ।”

“सच ।”

“हाँ, और अभी उसने कल टाइपिस्ट से कहा—कान्त बाबू बड़ा बदमिज़ाज है, उसे ठीक करना चाहिए ।”

लेकिन सबसे बड़कर विचित्र बात तो वह थी, जो खज़ांची ने बताई । उसने कहा कि—“छोटे बाबू कल बड़े क्रोध में थे और कहते थे—“कान्त मुझे निकालने पर तुला है ।”

“मैं !”—अचकचाकर कान्त ने कहा ।

“और कहता था कि—उसने अब साहब से साठ-गॉठ लगाई है !”

कान्त हँस पड़ा—“मैं तो साहब की सूरत देखना भी न चाहूँगा ! उसका

प्रेम-पात्र बनना तो स्वप्न में भी दूर है !”

प्रत्येक किरानी ने उसे कुछ ऐसी ही बातें बताईं । आश्चर्य, उसे तनिक भी क्रोध नहीं आया । उसे छोटे बाबू से जो घृणा हो चली थी, वह नष्ट हो गई । उसके स्थान पर दया उमड़ आई और वह मन हो मन बहुत हँसा—“यह किरानी भी विचित्र जानवर है !” और उसने निश्चय किया— आज वह उसे अवश्य पराजित कर देगा । ऐसा पछाड़ेगा कि वह बोलने का नाम भी न लेगा ।

उसने अपने साथी से कहा—“आज मैं उससे अकेले में बातें करूँगा ।”

साथी चौंककर बोला—“मगर उसने कुछ ऐसा-वैसा कहा तो तुम्हें गुस्सा आ जायेगा और फिर हाथा-पाई का डर है । वह बदन-मिजाज आदमी है !”

कान्त ने कहा—“मैं उसके लिये काफ़ी हूँ, पर तुमसे कहता हूँ; उसमें हिम्मत ज़रा भी नहीं है !”

“हो सकता है”—साथी ने कहा—“फिर भी साहब उसके हाथ में है, उसके मुँह लगना ठीक नहीं । माना कि बड़े बाबू की तुमसे नातेदारी है, पर बड़े बाबू उससे काँपते हैं, काँपते !”

कान्त ने कहा—“देखते रहिये, क्या होता है !”

× × ×

और उसी सन्ध्या को जब सब किरानी चले गये थे, वह दफ्तर में बैठा रहा । दिन टल चुका था और दफ्तर के पश्चिमी द्वार से होकर सूरज की अन्तिम किरण दरख्तों के भुरसुट पर पड़ कर गायब हो गई थी । कान्त अपनी कुरसी छोड़कर स्टोर-क्रीपर की कुरसी पर आ बैठा ताकि छोटे बाबू को देखता रहे । उसने आँखें बन्द कर लीं । कभी नज़र चुराकर उधर देख लेता था । वह ध्यान-मग्न होता जा रहा था; पर शरीर न जाने क्यों काँप कप उठता था । विचारों का चक्कर उसे रह-रह कर भाकभोर डालता था ।

‘मैं उससे कह दूँगा, तुम किस विरले पर इतना क्रुद्ध हो ? तुम्हारे कुछ

पैसे जो बह गये ! छिः छिः, तुम इतने कमीन हो कि जरा-सी तरक्की पर अपने सब साधियों को आदमी भी नहीं समझते !' छोटा बाबू खिसियाना-खा होकर कहेगा कि...लेकिन उसे छोटे बाबू का कहना याद ही नहीं आता था, वह तो अपनी ही बात सोचता चला जा रहा था कि वह कहेगा—'इस दुनिया में है ही क्या, प्रेम और मोहब्बत ! तुम किसी से प्रेम भरे दो शब्द कहोगे, कोई तुम्हें भी कहेगा ! तुम एक चार षंटेगो तो दुनियां तुमसे लाख चार षंटेगी !

'और क्या तुम समझते हो कि तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारे विरोधी दबू और आश्रयहीन हैं ! कहता हूँ, दुश्मन आटे का भी बुरा होता है ! न जाने कब आ दबावे ! हम तुमसे दफ्तर में नहीं जीत सकते तो हमारा हाथ किसने पकड़ा है ? किसी दिन गले पर अँगूठा रख देंगे ! निराश आदमी परिणाम का विचार नहीं करता !

"तुम होशियार हो यह तो हम मानते हैं, पर हृदयहीन बुद्धि पतन की शोर ले जाने वाली है ! जिस आदमी में आदमियत ही नहीं है, उस की सुन्दरता पर दुनियां धूकती है".....और ऐसे ही सोचने-सोचते उसे रूपकी सी आ गई और उसने देखा— कोई चुपके-चुपके उसके पिछे से आ रहा है ! वह पद-चाप सुन रहा है, पर बोल नहीं सकता ! आगन्तुक ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और उसके गले को दबोच लिया !

अरे, यह तो छोटे बाबू !....

वह तड़फड़ा उठा ! उसने चीख मारनी चाही पर आंख खुल गई ! चौंक कर उसने देखा, वह सपना था ! उसका दिल धक् धक् कर रहा था, पर उसे हँसी आ गई ! उसी समय उसने देखा— छोटे बाबू खट खट करके पैड़ियाँ उतर गये हैं ! वह भयभीत और कांपता कांपता बोला—“में भी आ रहा हूँ !”

छोटे बाबू हठात् रुक गये ! कान्त की अवस्था उस समय अद्भुत थी ! वह थर थर काँप रहा था और उसके मुँह से उखड़े-उखड़े शब्द निकल रहे थे !

वह कई महीने के बाद छोटे बाबू से बोला था। उसने कहा—“आपकी सलाह क्या है ?”

छोटे बाबू मुस्करा उठे—“आपका मतलब ?”

“मतलब ! आपने मेरे विरुद्ध जो प्रोपेगैण्डा फैलाया है और जो कुछ आप कल कह रहे...!”

छोटे बाबू बीच ही में बोल उठे— “ओह ! यह बात है, अरे हमारा आपका क्या भगड़ा ! मैंने जानबूझ कर ऐसा किया था !”

“जानबूझ कर !”—कान्त की आवाज़ तेज़ थी।

“हाँ; कि तुमहें क्रोध आवे, लेकिन छोड़ो भी इन बातों को। गलती मेरी थी। मैं ६ जनवरी वाली घटना से बड़ा लज्जित हूँ। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं कर दोगे ?”

कान्त इसके लिये तैयार नहीं था। उसका दिल बातों से भरा हुआ था। उसने कहा—“लेकिन तुम ने टाइपिस्ट से कहा.....”

छोटे बाबू बीच में ही बोल उठे। उसे रुकना पड़ा। उसकी कँप-कँपी दूर हो गई थी और वह मुस्करा उठा था। छोटे बाबू ने कहा—“मैं मानता हूँ मैंने ज़हर उगला; पर आप मुझे माफ़ कर दें। वस्तुतः मुझे चढ़ गई थी। मैं समझ ही नहीं रहा था कि तुम से कैसे क्षमा माँगूँ ...”

कान्त हँस पड़े—“और यह न जानकर कि कैसे माँगूँ, मुझे उसटी गाली सुनाते चले गये !”

छोटे बाबू खिसिया गये—“पत्त पड़ गया था, पर आपने मुझे क्षमा माँगने का अवसर दिया, इसके लिये कृतज्ञ हूँ। हम अब कभी भी न भगड़ेंगे, पर आपने भी मुझे कैसे लिखा कि मैं आपको निकालने पर तुला हूँ। आप कैसे ऐसा सोच सके ?”

कान्त ने कहा—“मैं तो बहुत सोच चुका हूँ। यह मेरी गलती हो सकती है, लेकिन पहले आपकी तरफ़ से हुई, मैं क्या करता। आपने तो

कमाल कर दिया ।”

“मैं लज्जित हूँ,” उन्होंने कहा—“पर मैं क्या करूँ ? मेरे पास इतना पेचीदा काम है कि मैं पागल हो जाता हूँ । मैं मानता हूँ किसी को भिड़कने का मुझे क्या अधिकार है और मैं अपने स्वभाव को सुधारने का उद्योग करूँगा । देखो न, मैं कितना भुरता जा रहा हूँ ?”

“वेशक ! इस तरह तो आप बहुत जल्दी ही मर जायेंगे । आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिये । आखिर यह किस-विल जीवन के लिये ही तो है !”

“हाँ हाँ !”—छोटे बाबू ने कहा—“मैं कल साहब से कहूँगा—मैं इतना काम नहीं कर सकता । मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है । और देखो न ! लोग मेरे इतने विरुद्ध होते जा रहे हैं कि मुझे डर है मैं अपनी जान न खो बैठूँ, ज़रा सी देर में दो पैसे का आदमी मेरी इज्जत उतार ले सकता है । कान्त ! मैं आपका जन्म-जन्म आभारी रहूँगा—आपने मुझे क्षमा मांगने का अवसर देकर गिरने से बचा लिया !”

कान्त अपनी सारी बातें भूल गया । उसने भरे हृदय से कहा—“कोई बात नहीं जी ! गलत-फहमी भी दूर हो गई । यह अच्छा हुआ । दुनियाँ ही क्या—प्रेम और मोहब्बत से बोलना ही है ! अच्छा तो मैं चलूँ ?”

छोटे बाबू बोले—“कल सन्ध्या का भोजन मेरे घर करना, अच्छा !”

“अच्छा, अच्छा ! मीठी डिशेंज़ तैयार करवाना !”

“ज़र-ज़र ! अच्छा नमस्ते !”

“नमस्ते !”

कान्त लौट चला । बातें करते-करते वे बहुत दूर चले गये थे । अंधेर काफ़ी गहरी हो चुका था और सड़क बिजली की रोशनी से जगमग कर रही थी । उसने पास से निकलते हुये आदमियों को गर्व से देखा । उसका हृदय कह रहा था—“दिखा, शेर को उसके घर में कैसा पड़ाड़ा !”

हालाँ कि कान्त के दिल की बात दिल ही में रह गई थी, पर उसे अब कुछ भी याद नहीं था। केवल आने वाली कल की धुँधली स्मृति उसके मस्तक में मँडरा रही थी। चारी-चारी सब किरानी कह रहे थे—‘कान्त विजयी हुआ !’ ‘हम सब कान्त के कृतज्ञ हैं !’

और वह सहसा चौंक पड़ा। अपने मांहल्ले में घुसते-घुसते वह अपने पड़ोसी से टकरा गया था। उसने कहा—‘मैं क्षमा चाहता हूँ !’



जीवन : एक कहानी....



इस साल विवाली का त्यौहार कुछ देर से आया। अक्टूबर चुप-चाप ध्वला गया था। निशिकान्त ने जेब से एक परचा निकाला और सोचने लगा— कहीं इस महीने का खर्च आमदनी से बढ़ तो नहीं जायगा।

निशिकान्त गरीब नहीं है, लेकिन धनवान होने का दावा भी नहीं कर सकता; उसके बाप-दादा ने उसके लिये कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी है, केवल एक रिश्तेदार की मेहरबानी से ५०) की नौकरी अवश्य मिल गई है। दुनियां कहती है—आज के संसार में ५०) कमाने वाला अमीर होता है। होगा, वह भी हो सकता है, फिर भी दावा नहीं किया जा सकता। कोई करता भी नहीं। हाँ, उनका मूल्य अवश्य आस्मान के चाँद की तरह, घटता बढ़ता रहता है। आज अगर ५०) की कमात ५००) में आंकी जा रही है, तो कल केवल पाँच भी रह सकती है।

लेख, उसने वह परचा देखा तो खर्च का जोड़ ५६) के लगभग था और आमदनी वही पचास। अब यहाँ से सोचना शुरू हुआ। तखमीने लड़खे भये, तितलियों की तरह रंग-बिरंगी कल्पनाएँ आ-आकर भाग गईं, बजट बन-बन कर बिगड़ गये। उस समय उसकी हालत भारत सरकार के अर्थ-सदस्य से भी घुरी थी। वह बेचारा सरकारी बजट में बचत दिखा कर भी असेम्बली के मैसेजों को जवाब देते देते काँप उठता है, जैसे चमड़े का ढोल डंके की चोट पड़ने पर काँप उठता है; लेकिन उसका क्या होगा? वह अपने विरोधी-सदस्य मन को क्या जवाब देगा?

न जाने बहुत देर तक उसका मन क्यों नहीं बोला। जो हो, वह भी धूपनी और से आप लाचार हो रहा है। भाग्य खोटा है, नहीं तो बड़े साहज की आयु भी उसके जितनी है। वह अँगरेजी का एक अक्षर भी ठीक नहीं

लिख सकता; लेकिन प्रति मास १०००) जेब में डाल कर सरकारी कोठी में ऐश के साथ रहता है। सरकारी—पेशगी पर मोटर रखी हुई है और सरकारी खर्च पर ही सात समन्दर पार तक की खबर ले आता है।

उसकी आँखें बरसात के कवि की तरह बरस पड़ीं और हारी हुई सरकार के युद्ध-मन्त्रों की तरह उसने एक लम्बी सांस लेकर कहा—‘तकदी-ईर।’

और इस तकदीर के साथ-साथ सावन-भादों की काली-काली डरावनी घटा की तरह कल्पना फिर मस्तिष्क में घुस आई। अब मन की चारी थी। उसने कुछ गम्भीर होकर कहा—क्यों जी, यह जो तुम ने तीन रुपये आठ आने किसी अखबार के चन्दे के लिये लिखे हैं क्या बहुत जरूरी हैं ?

बड़ा कम्बख्त है। बरसों के बाद एक अखबार मँगाने को जी किया था; लेकिन अब नहीं आ सकता।

निश्चिन्त ने न जाने कैसे कह दिया—नहीं, बहुत जरूरी तो नहीं है।

बिना राय लिये ही कटौती का पहला प्रस्ताव पास हो गया। वे फिर बोले—यह डेढ़ रुपया जो तुमने चिट्ठी-चपाती और जेब खर्च के लिये लिखा है, यह भी कम हो सकता है ?

इस बार कान्त चुप नहीं रह सका। उसने कहा—श्रीमानजी, हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर जो मेरे मित्र और सम्बन्धी हैं वे एक महीने तक मेरे विषय में कुछ भी न जानें यह कैसे हो सकता है। नहीं ! यह नहीं हो सकता, एक दम नहीं हो सकता।

पर वह पीछे नहीं हटा, बोला—सुनो जी, परमात्मा की दया से तुम स्वस्थ हो। इसलिये खत-पत्र लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्तों के पास जब कोई लिखने योग्य बात होगी तो आप लिख देंगे।

कान्त अप्रतिम हुआ। बाजी मन के हाथ रही। इसी तरह चूहे-चौके के चूर्ण पर कुल्हाड़ा चला। रोबाना के अखबार की कुछ प्रतियां कम हुईं और तब कहीं (४६॥) का वज्र पास हुआ।

अब कान्त की ओर देखकर मन हस पड़ा मानो कहना चाहता है—
कुछ समझ में आया, मैं कितना गम्भीर हूँ !

वह कुछ नहीं समझा; लेकिन मनको शान्त ही करना था, कह दिया—हाँ,
हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। आज से मैं तुम्हारा कहना मानूँगा।

कान्त ने परचे को जेब में रख दिया और तब पता लगा—दफ्तर से घर
तक का एक फ्लाईङ्ग का रास्ता समाप्त हो चुका है और वह घर की देहरी पर
खड़ा है।

(२)

उसने कोट को खूँटी पर लटका कर माँ से कहा—माँ, इस बार दिवाली
पर दो बड़ी-बड़ी तसवीर खरीदने की इच्छा है।

माँ बोली—तो खरीद लाना, भइया। इस दिन के लिये ही तो ये
चीजें बनी हैं।

वह बड़ा खुश हुआ। मेज पर बैठकर 'ग्रास्कर वाइल्ड' की एक किताब
के पन्ने उलटने लगा। उसने एक स्थान पर लिखा है—“जहाँ दुख है, वहीं
पवित्रता है। मनुष्य एक दिन इस बात को समझेगा।” परन्तु उसके समझ
में कुछ नहीं आया और वह समझने की चेष्टा-सी करने लगा।

तभी माँ ने आकर कहा—भइया, तेरी भाभी कल अपनी बहन के घर
जावेगी। उसके बच्चों के कोट के लिये कपड़ा तो लादेना।

प्राण जहाँ थे वहीं रुक गये। वह हठात् उसकी ओर देखने लगा।
उसने फिर कहा—देर करने से बाजार बन्द हो जायगा, वेटा।

वह ऐसे विश्वास से जोल रही थी मानों दुकान अपने घर की है। वहाँ
तक जाना है और कपड़ा उठा लाना है। उनकी एक दुकान है, परन्तु वह
बहुत दूर उत्तर-पश्चिम के एक गांव में है, जहाँ कान्त का बूढ़ा बाप सवेरे से
सांभ तक आहूँकों से भँभँ करके रात को खाली पेट ही सो रहता है।

वह भी बचकाना होकर देखता रहा; लज्जा जानो, यह उस पर बज्रपात था।

माँ ने उसे चुप देखकर कहा— सुना, मैं क्या कहती हूँ ?

उसने माँ को भरसक समझाने की कोशिश की कि उसके जेब में पैसे नहीं हैं; उधार कोई देता नहीं, लेकिन मां की तो एक ही दलील थी—भइया, यह तो लाना ही पड़ेगा। कब-कब उसके जाना होता है, बहुत करे सस्ता ले आना।

“सस्ता ! हूँ, अच्छा मैं अभी जाता हूँ।” यह कहकर वह उठा और बाजार चला गया। जब लौटा तो शरीर की थकान मिट रही थी। किसी प्रकार की चिन्ता भी नहीं थी।

माँ ने कपड़ा देखकर कहा— यह तो बढ़िया मालूम होता है ! कितने का लाया रे ?

“तीन रुपये का।” उसने कहा और फिर ‘आस्क वाइल्ड’ की उसी पंक्ति का अर्थ समझने की चेष्टा करने लगा.....यह क्या ?.....कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है—“मि० निशिकान्त” नीचे से किसी ने पुकारा।

उसने कहा—हां जी।

और इसी जी-जी के बीच उसने झाँक कर देखा—एक बड़ासा गट्टर था। कोई मनुष्य जाति का जीव नीचे खड़ा था। उसने ‘नमस्ते’ कही। उन्होंने हाथ जोड़े और थोड़े-से मुस्कराये भा। यदि कान्त चितेरा होता तो इस कहानी के साथ उनकी तस्वीर भी खींचता।

खैर, वे ऊपर आये। कान्त ने कुरसी सरका कर कहा—चैठिये और वे बैठ गये।

कान्तने कहा—कहिये, कहां से आना हुआ ?

अब वे बोले—मैं देहली के.....नामक पुस्तक-प्रकाशक का एजेन्ट हूँ। पुस्तकों का गट्टर देखकर ही दिल धराने लगा था। अब तो वह हाहाकार कर उठा; पर मांस की कोठरी के बीच छिपा रहने के कारण वे महाशय हाहाकार को सुन नहीं सके। वे कहते रहे—आज सबेरे वहां आया था; लेकिन किसी ने एक पुस्तक नहीं खरीदी।

कान्त ने कहा—हाँ, इस बात में यह ज़िला बहुत पीछे है ।

वे बोले— जी हां, ऐसा ही मालूम होता है; लेकिन सचने यही कहा कि यहाँ पर तो 'श्री निशिकान्त ही पुस्तकों के प्रेमी हैं । कान्त जैसे कुछ कहते कहते रुक गया । अन्दर ही अन्दर कोई बोला—सुनते रहो जी । और बाहर से वह केवल इतना ही कह सका—मैं हो...हो...श्री ।

विक्रेता महाशय पुस्तकों का गट्टर खोल कर बोले—जी हां, सचने आपका ही नाम लिया है ।

इस बार कान्त हँस पड़ा और एक पुस्तक हाथ में उठाली । वे बोले—मैंने तो उनसे कहा भी, पुस्तक पढ़ने के प्रेमी तो सभी होते हैं । क्या श्री निशिकान्त पुस्तक संग्रह भी करते हैं ।

कान्त उनकी ओर देखने लगा । मन ने कहा—कितना सीधा और सच्चा है यह एजेन्ट ।

कान्तने कहा—मैं तो कहूँगा बड़ा शरारती और बदमाश है । गहक पटा रहा है । लेकिन...यह गुदगुदी-सी कैसी हो रही है ?...

हाँ, वे कह रहे हैं—तब उत्तर दिया “उनकी अपनी लाइब्रेरी बड़ी सुन्दर है । सैकड़ों पुस्तकें उसके पास जमा हैं ।”

कान्त रोकने पर भी बोला—सो तो ठीक है । आप देखते हैं मेज पर कितनी पुस्तकें पड़ी हैं । उधर अलमारी भरी हुई है; लेकिन.....

एजेन्ट बोले—तो आप पुस्तक देखिये न, परिद्धत जी ।

यहाँ एक बात और साफ करनी उचित है । कान्त परिद्धत-बन्धित कुछ नहीं है । जन्म का बनिया है । स्कूली ज़माने में 'गुप्ता' लिखने पर भी लोग परिद्धत कहते थे । न जाने उसके फूले हुए गालों में कितने श्राद्धों का झाल भरा हुआ है—ऐसी कई सहपाठियों का अटल धारणा थी । बाद में अर्थ-जमाज में अच्छा प्रार्थना करा देने पर गा कभी कभी लोकन्तर दे देने पर वह कर्षा परिद्धत आक्ति बन गया था । तब समाजियों ने कहा—हन जन्म से जात-

पाँत नहीं मानते । तुम विद्वान हो, इस लिये परिडित हो । वस बिना माँगे हुए इस खिताब को खिर पर लाद कर वह प्रसन्न तो नहीं हुआ, परन्तु फेंक भी नहीं सका ।

... हाँ तो एजेन्ट महोदय ने कहा—मुझे तो यहाँ आने का किगया भी जेब से देना पड़ेगा । आप पुस्तक देखें तो सही । सच आप ही की प्रशंसा करते हैं ।

वह चुपचाप पुस्तक टटोलने लगा और बोला—परन्तु आज कल मेरी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है । पहले तो मैं कई मासिक पत्र भी मँगाता था ।

“जी हाँ, आर्थिक अवस्था तो सारे देश ही की चिगड़ रही है, तभी तो परिडित जवाहरलाल जी आर्थिक-स्वराज्य के हामी हैं ।”

उसने कहा—तब मैं क्या करूँ ? आप आये हैं कष्ट उठा कर.....

लेकिन वे नहीं बोले । आराम से कुर्सी पर पैर फैला कर अखबार पढ़ते रहे, मानों पुस्तक मेरे हाथों सौंप कर निश्चिन्त हैं । कान्त फिर उनकी पुस्तक टटोलने लगा । दो तीन पुस्तकें लेबर बोला, —क्यों जी ! इनकी क्या कीमत होगी ?

वे बिना मेरी आर देखे बोले—आप छाँट लीजिये । कीमत फिर तै हो सकती है ।

कान्त ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया—श्रीमान् जी, मेरी अवस्था ठीक नहीं है । मैं अधिक पुस्तक नहीं खरीद सकता ।

अब वे बोले—अच्छा इनका मूल्य २॥) रुपया होता है, आप १॥॥) दे दें । आप जानते हैं, इन किताबों पर हमें २५ कां सदी कमीशन मिलता है ।

.....हाँ, आपने यह पुस्तक देखी है ?

कान्त ने पूछा—कौनसी ?

“सुनीता ।”

“सुनीता-आ ।”

“जी हाँ, हिन्दी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास । लेखक हैं श्री जैनेन्द्रकुमार ।”

“क्यों जी, क्या कीमत है इसकी ?”

“यही तीन है; पर आपसे दो ही लेंगे ।”

कान्त बड़ा खुश हुआ, उसने कहा—क्यों जी, आपको कितना कमीशन मिलता है ?

वे बोले यही—पच्चीस, तीस, चालीस, पचास, जैसी पुस्तक हो ।

कान्त ने मन ही मन उनकी गिनती पूरी की—साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सौ और कहा—अच्छा तो आपके तीन रुपये चौदह आने हुए । लीजिये ।

रुपयों को टेंट में बाँधते हुए वे बोले—मानों इस कृतज्ञता का बोझ वे संभाल नहीं सकते—आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ! आपकी जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसे ही निकले ।

कान्तने भी दाँत निपोड़ कर कहा—मैं किस योग्य हूँ । आर्थिक अवस्थाआदि ।

वे चले गये । जाते समय बोले—आप देहली आते रहते हैं । कभी गरीबखाने पर भी पधारिये । वहाँ बहुत पुस्तकें हैं । और पुस्तकों के लिये ही क्यों, आप तो हमारे मित्र हुए न !

कान्त हँस पड़ा—अच्छा, नमस्ते ।

“ नमस्ते ।”

वे चले गये, और कान्त फिर मेज पर झुका । इस बार ‘आस्कर वाइल्ड’ नहीं, बल्कि परचा हाथ में था । तीन जमा, चार जमा, ४६।।।)।।, कुल हुए छप्पन रुपये साढ़े बारह आने । हूँ...

खैर, अब तो उसे नींद आरही है, इन प्रश्नों को फिर कभी शान्ति से बैठ कर सुलभवेगा । माता जी दूध पीने के लिये बुला रही हैं और चाहर गली में बूढ़ी दादी अपने पोते को कहानी सुना रही हैं—एक कहानी पौदा रानी । आदि कान्त भी सोचता एक कहानी.....आगे आप जोड़ें ।

कहानी-लेखक



कई दिनों से उमड़ धुमड़ कर जो विचार कान्त के मस्तिष्क में बेचैनी पैदा कर रहे थे आज उन्होंने ठोस रूप धारण कर लिया । उसने कापी-कलम उठा कर निश्चय किया— “आज मैं कहानी लिखूंगा ।” उसने कलम उठाई उसका हाथ कांपा, दिल धड़का, पर फिर भी उसने लिखा— “एक आदमी था । उसका नाम था कल्लू.....।”

कलम रुक गई—था त ।, पर.....

कान्त ने मुँह कोहनी पर टिका लिया । आँखें शून्य में तानने लगीं । मस्तिष्क में विचार आये और गये, घटनायें उठीं और मिटीं, लेकिन रुकना कुछ नहीं । सारी प्रसव-पीड़ा व्यर्थ चली गई, केवल वेदना शेष रह गई । उसे लेकर वह क्या करे ? उसने तो उसे केवल भुङ्गलाइट से भर दिया । उसके भीतर से किसी ने कहा— “छोड़ इस जंजाल को ! तू लेखक नहीं बन सकता !”

“वाह ! मैं बनूंगा !” अपनी ही अन्तर्वाणी का विरोध करते हुए उसने मन-ही-मन कहा ।

“देखेंगे !” उसके अन्तर्वासी ने चुनौती दी ।

उसने अपने ही मन की चुनौती स्वीकार कर ली । वह उठा और एक पुस्तक ले आया । उसके पन्ने पलटने लगा । देख जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है— “आज सात दिन हो गये, पीने की कौन कड़े छुआ तक नहीं । आज सातवाँ दिन है सरकार ।”

“ठीक है !” कहानी पढ़ने के बाद कान्त ने मन ही मन कहा । उसे एक ‘आइडिया’ और ‘प्लान’ भी मिल गया । वह उत्साहित हो उठा ।

कहानी चल निकली— “कल्लू शराब पीता था.....”

उसके बाद, आर्थ-समाज में शराब की निन्दा में जो कुछ सुना था या जो कुछ पढ़ा था, वह सब उसने लिख दिया । आगे.....

कलम में तिनका आ गया । दिमाग भुंभला उठा....पत्रिका के पन्ने फिर पलटे । कहानी आगे से पढ़ी—“अब क्यों रोता है रे, छोकरे ?” “मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया ।”

“छी-छी ! मैं कहानी की नकल करता हूँ !” यह सोचकर कांत ने एक-दम पुस्तक बन्द कर दी और लिखने लगा—“पर शराबी होकर भी कल्लू दयालु था । सदा दूसरों के दुख-दर्द में साझी होकर रहता था । एक दिन उसने एक लड़के को देखा.....”

उसके बाद कांत की प्रेरणा जैसे छलांगें भरने लगी । वह पृष्ठ पर पृष्ठ भरता चला गया । उसका दिल उछलने लगा । साथ ही ससार में अंधेरा बढ़ने लगा ।

अन्दर से माँ आई और बोली—“रोटी खा ले मैया !”

“अभी आया, माँ ! अभी ! बस जरा सा और लिखना है ।”

माँ लौट गई, परन्तु कहानी आगे न बढ़ी ।

“बस तनिक और । फिर अन्त कर दूँगा । कल्लू को शराब छोड़ देनी होगी । हाँ ‘शराब का त्याग’ यही कहानी का शीर्षक होगा ।” यह सोच कर उसने फिर पुस्तक उठाई और एक बार पूरी कहानी पढ़ डाली । पढ़ चुका तो जैसे दिल का बोझ उतर गया । मस्तिष्क में सहसा एक अछूता विचार आ गया था । उसको व्यक्त करते करते कहानी का अन्त आ गया । लड़का लावारिस था, उसे कल्लू ने अपने पास रख लिया । रख क्या लिया उसका जीवन सुधर गया । लड़के के मोह ने उसे ऐसा जकड़ा कि शराब पीछे रह गयी... आदि-आदि ।

कांत ने कापी बन्द कर दी और उठ कर अगड़ाई लेने लगा । उसके दिमाग से एक भारी बोझ उतर गया था, उसकी प्रसव-वेदना पूरी तरह फलवती

साचित हुई थी। वह हँस पड़ा—“मैंने कहानी लिखी है ! मैं एक दिन उपन्यास लिखूँगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा !”

पुरस्कार कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं कौन जाने ? लेकिन पुरस्कार पाने का जो सुख होता है वह कान्त को अभी मिल गया था। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक विशेष अभिलाषा होती है। उसके चरितार्थ होने पर वह अपना जीवन सफल मानने लगता है—कम से-कम तत्काल के लिये। कान्त ने चाहा था वह कहानी-लेखक बने और वह बन गया था ! आज वह तृप्त था, सुक्त—स्थितप्रज्ञ !

साहित्य-सृजन का कारण है आत्माभिव्यक्ति और जिज्ञासा। कान्त की कहानी उसी आत्माभिव्यक्ति और जिज्ञासा का परिणाम थी। परन्तु जिज्ञासा का एक और रूप है—अपनी बात किसी से कहना। इसीलिये कान्त व्यग्र हो उठा उसकी बात जो कहानी के रूप में प्रकट हुई है उसे कोई सुने ! कौन सुने ! माँ ? हैं ! वह क्या जाने साहित्य क्या होता है ? उस लिये वह बन्दर की तरह अदरक का स्वाद है।

“तो चन्द्र को सुनाऊँ ? हाँ वही ठीक रहेगा।” उसने मन-ही-मन कहा। वह उसका सहपाठी रहा है। समझदार है।

बस कान्त ने उसी रात को चन्द्र को पकड़ा। बोला—“चन्द्र, तुम से एक काम है।”

“क्या ?”

“है, आओ !”

“पहले बताओ ?”

कान्त ऐसे झिझका जैसे कोई नवयौवना विवाह की बातें करते झिझकती है, यद्यपि उसके शरीर का रोम-रोम एक अज्ञात अनुपम मादकता से सिहरता होता है। उसने धीरे से कहा—“मैंने कहानी लिखी है।”

अचरज से चन्द्र बोला—“तुमने ?”

“हां मैंने !”

“देखू.....”

कान्त तन्मय होकर कहानी पढ़ने लगा और चन्द्र उसी व्यग्रता से सुनने लगा । एक पृष्ठ ! दो पृष्ठ ! चन्द्र ने गर्दन हिलायी !

“क्या है ?”—उत्सुक कान्त ने पूछा ।

“पढ़ो-पढ़ो !”

तीन, चार, पांच, छः पृष्ठ ! चन्द्र से नहीं रहा गया, बोला— “बस सुन ली तुम्हारी कहानी ! तुमने लिखी है ?”

कांत सहसा कांप उठा— “हां, मैंने लिखी है, क्यों ?”

“भूट बोलते हो ! यह तो जयशंकर प्रसाद की “मधुआ” कहानी की नकल है !”

सुन कर कांत का चेहरा तमतमा उठा । धरती फटे तो वह समा जावे । अस्फुट स्वर में बोला—

“नहीं !”

“नहीं क्या, मिला लो !”

“नहीं है !”

“है !”

“मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता । यह कहानी मैंने लिखी है, यह मेरी है !” चन्द्र अब बड़े जोर से खिल्ली उड़ा कर हंस पड़ा । बोला— “कहानी नकल करते हैं और फिर अकड़ते हैं, चाँट्टे कहीं के !”

“मैं चोर ?”

“जी हाँ, चोर और सीनाचोर !”

वात आगे बढ़ी । कांत क्रोध से कांप उठा । चिल्ला कर बोला— “मैं आज से तुमसे नहीं बोलूंगा !”

इतना कह कर कान्त तेजी से घर में घुस गया । कहानी हाथ में थी ।

उसको चीर कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और आग में फेंक दिये । केवल वही नहीं जो कुछ भी उसके सामने आया उसकी उसने वही दुर्गति की । लेकिन क्रस्त और पीड़ित होकर जब वह रात को अपने बिस्तर पर लेटा तो उसका अन्तर्भन बड़ी तेजी से टीसने लगा । वह देर तक छुटपटाता रहा, फिर रोने लगा । रोते रोते उसने अपने मन में कहा— “चन्द्र ठीक कहता है ! मैंने नकल की है । मैं लेखक नहीं बन सकता । नहीं बन सकता !”

लेकिन हिंदी सेवा की प्रतिज्ञा ?

स्वीकारोक्ति से दिल का जो बोझ उतरा था, वह प्रतिज्ञा-भंग के डर से फिर उभर आया ।

×

×

×

कांत निराश होकर भी हतोत्साह नहीं हुआ । उसने प्रतिज्ञा की थी और प्रतिज्ञा का भूत उसके कमजोर दिल पर बुरी तरह हावी था । इसलिये एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे लेखक बनने का एक और तरीका उसे सूझ गया । वह उल्लुल पड़ा और उसने निश्चय किया— “मैं आज ही घर जाकर इस तरीके का उपयोग करूंगा ।”

सन्ध्या को घर लौटा तो सीधा अपनी मेज के पास पहुँचा और दराज में से वे सत्र कागज हूँद निकाले जिन पर समाज-मंदिर में व्याख्यान देने के लिये वह नोट लिख लिया करता था । बहुत देर तक उन्हें छांटता रहा और फिर रात को उन्हीं की मदद से उसने स्वामी दयानन्द सरस्वती पर एक लेख लिख डाला । यद्यपि लिखते समय उसे कई बार काट-छांट करनी पड़ी थी, कई बार उठ कर वह कमरे में टहला था—क्योंकि उसे एक प्रसिद्ध नेता के कुछ शब्द याद नहीं आ रहे थे— फिर भी उसने निश्चय किया था, वह किसी भी पत्रिका या किसी भी पुस्तक की जरा भी मदद नहीं लेगा । उसने अपने इस व्रत का पूरा पालन किया । परिणाम यह हुआ कि लेख लम्बा नहीं बन सका, परन्तु, उसे संतोष था । वह लेख उसका अपना था, भले ही वह सुन्दर न हो ।

उसने एक वत और की । उस लेख को लिख कर किसी को नहीं दिखाया ।
सीधे एक पत्र के सम्पादक के पास भेज दिया ।

एक-दो-पांच ! पूरे सात दिन बीत गये । वह रोज डाक देखता था,
परन्तु उसे सम्पादक की चिट्ठी नहीं मिलती थी । वह बार बार पोस्टमैन से
पूछता—

“कोई पत्र और भी है ?”

उत्तर मिलता— “जी नहीं !”

दिन फिर बीते— आठ, नौ, दस, पन्द्रह.....

पोस्टमैन ने उसे ठीक पन्द्रहवें दिन एक पत्र दिया, जो दूध के समान
सफेद और घी के समान चिकना था । उसने अचरज से उसे देखा—“यह तो
सम्पादक का पत्र है !” वह चौंक कर बोल उठा ।

“सम्पादक का पत्र ! सम्पादक का पत्र !! कान्त तुम्हारे नाम सम्पादक
का पत्र !

धुन्ध उमड़ी और आंखों में छा गई । पत्र एक बार में पढ़ा नहीं गया ।
फिर कोशिश की, लिखा था—

“प्रिय महोदय !

“आपका लेख मिला । हम चाहते हैं उसमें कुछ संशोधन करके रजत-
जयन्ती के अवसर पर निकलने वाले अपने विशेषांक में छापें । विलम्ब तो
होगा, पर लेख उसी अवसर के योग्य है ।

भवदीय

सम्पादक”

“छापना चाहते हैं ! रजत-जयन्ती के अवसर पर...! मेरा लेख रजत-
जयन्ती अंक में छुपेगा !” उसे जैसे विश्वास नहीं हो रहा था । वह तब दफ्तर
में अपनी कुर्सी पर बैठा था । उसके चारों ओर शोर मचा हुआ था, क्योंकि
वह वेतन बांटने का दिन था । लोग एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे

और नाटा एकाउन्टेन्ट उन्हें बुरी तरह डपट रहा था। कान्त शीघ्रता से उठा और उसके पास पहुँचा—“लाइये ! मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ ?”

एकाउन्टेन्ट गर्गड़ हुआ—“ओह शुक्रिया ! मिस्टर कान्त ! तुम बड़े अच्छे हो !”

कान्त ने मन में कहा—“अच्छा तो हूँ ही। मेरा लेख जो पत्रिका में छपेगा ! वह भी विशेषांक में !”

एकाउन्टेन्ट कह रहा था—“देखो तो इन लोगों को ! जरा सब नहीं है। पैसे का मामला है। कम हो गये तो इनके बाप का क्या जायेगा ?”

कान्त ने कहा—“आप पैसे संभालिये, मैं थ्रॉगूठे लगवाता हूँ !”

“हाँ, हाँ ! यह ठीक है। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ !”

कान्त ने रजिस्टर उठाया और धुकाया—“रमजान, बुद्धू, लाला, मगँलू गोपी, चलो ! एक एक करके चलो, हाँ.....।”

वे लोग नाम सुन कर ऐसे दूटे जैसे बरसात में टिड्डे बल्य पर दूटते हैं।

× × ×

घर लौटा। मन खुशी से भर रहा था। सामने चन्द्र आ गया। और दिन दोनों एक दूसरे से कच्ची काट कर निकल जाते थे, पर आज कान्त हँस पड़ा। चन्द्र ने उसे देखा, वह मुस्कराया। बोला—“कच्ची हँसी आती है !”

कान्त सहसा नम्र हुआ—“चन्द्र !”

“कहो !”

“उस दिन के लिये लज्जित हूँ !”

चन्द्र मुस्कराया—“तुम भी बड़े वैसे निकले ! जरा सी बात का बुरा भान गये !”

कान्त बोला—“तुमने कहा ही ऐसे था। अब देखो वह पत्र !”

चन्द्र ने पत्र ले लिये। पढ़ा और नम्र स्वर में बोला—“मैं जानता हूँ, कान्त ! तुम एक दिन बड़े आदमी होगे। वह तो मझाक की बात थी !”

“नहीं चन्द्र ! उस दिन वास्तव में तुम्हारी बात में बहुत कुछ सचाई थी । यद्यपि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था और जान बूझ कर किया भी नहीं था, फिर भी वह कहानी मेरी नहीं थी ।”

चन्द्र ने शान्त स्वर में कहा—“कान्त ! शुरू में ऐसा ही होता है । माँ के घेठ से सीख कर कौन निकलता है ? तुम मेहनती हो, प्रतिभाशाली हो । आज नहीं तो कल ! एक दिन चमकोगे । तब हम भी कह सकेंगे—हमाग्य भी एक साथी है, जिसकी दुनिया पूजा करती है.....।”

कहते कहते चन्द्र के मुख पर स्निग्धता उभर आई । उसने कान्त को प्रेम भरी दृष्टि से देखा कान्त का मन खुशी से भर उठा । यद्यपि ऊपर से वह लजा गया था, परन्तु अन्दर उसे बहुत सुख पहुँचा और ढाढ़स भी, जो भविष्य की भादक कल्पनाओं से भरपूर था ।



अन्तर्वदन



अचानक जिस दिन सहस्रधारा जाने का प्रोग्राम था उसी दिन शैलेन्द्र को ज्वर आ गया। कान्त बोला— कल चलेगें। लेकिन कई कल आए और गए, पर शैलेन्द्र का ज्वर नहीं उतरा। जब उतरा तो उसमें जाने की शक्ति नहीं रह गई थी। कान्त की प्रफुल्लता फिर विपाद में पलटने लगी। यही देख कर एक दिन बुआ बोली— नौकर को लेकर तुम हो आओ बेटा। इसे तो अभी कई दिन लगेंगे।

शैलेन्द्र ने समर्थन किया— हां। यह ठीक रहेगा, भइया। हो सका तो मसूरी से लौट कर एक बार फिर साथ साथ चलेगें।

कान्त यही चाहता था। उसे लग रहा था कि उसे एकान्त चाहिये। मन ही मन प्रसन्न होकर उसने कहा— अच्छा बुआ जी। हम कल जायेंगे।

और अगले दिन बहुत सवेरे ही तैयार होकर वह अपनी यात्रा पर चला पड़ा। नौकर ने कुछ कपड़े, बिस्तरा और खाने का सामान ले लिया था।

चलते समय उसने शैलेन्द्र से कहा— शैलेन्द्र, अगर मैं रात को न लौट सका तो चिन्ता मत करना। मैं वहां टहरना चाहता हूँ।

शैलेन्द्र अचकचाया— पर भइया.....।

कोई चिन्ता नहीं। हाँ अभी बुआ जी से मत कहना। समझे।

और मोटर में बैठ कर राजपुर आये। वहां से पैदल रास्ता जाता था। यद्यपि आसमान हल्के बादलों से आच्छादित था तो भी सूरज धरती को प्रकाश से भरता हुआ शान्त गति से आगे बढ़ रहा था। कान्त नीचे उतरने लगा। उसने देखा— चारों ओर पहाड़ है, ऊँचे-नीचे, हरे और मटमैले। कहीं दरखतों की घनी छाया है, कहीं छोटा-सा सुन्दर मैदान, जिसके किनारे बने हुये

एक दो मकान उसे दुनियां की थाद दिला देते हैं। उसके पास से कई टट्टू खड़ खड़ करने हुये निकल गये। वह कांप उठा— यदि पैर फिसला तो...। तो नीचे मृत्यु की समाधि है, जो जीवन से तनिक भी सम्बन्ध नहीं रखती। वह आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। फिर सहसा न जाने क्या हुआ, वह तेजी से दोड़ा और नीचे के मोड़ पर जाकर दम लिया।

नीचे बाठी में पहाड़ी नदी का विशाल पाठ था। पर आज वह एक पतली धारा के रूप में पत्थरों से टकराती हुई चह रही थी। उसमें पानी भरती हुई युवतियां मुड़ कर उसे देखने लगीं। उन्हें देख कर उसने सोचा— दिल्ली की दुनियां उनसे कितनी दूर है ?

वह और आगे बढ़ा, प्रकृति और सुन्दर रूप में सामने आई। एक संकरे मार्ग पर, जो दोनों ओर खुशबूदार पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, उसकी आत्मा एक गहरी मिटास से भर उठी। उसने फिर छोटे छोटे पहाड़ी खेतों को देखा, जो दूर से पहाड़ियों की तरह मालूम दे रहे थे। वह फिर चढ़ा और उतरा और उन दूकानों के पास जा निकला, जो बड़े बड़े ताजे खीरों और दूसरी खाने पीने की चीजों से भरी हुई थीं। वह अन्न मंजिल पर आ पहुँचा था। उसने सुख की सांस ली और उसका हृदय खुशी से भर उठा। उसके सामने कल कल, छल छल करती हुई पहाड़ी नदी थी, जिसका जल पत्थरों से टकराता, धोर मचाता और नाचता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस नदी के एक किनारे पर धर्मशाला थी। उसी के ठीक सामने पुल पार करके सहस्रधारा की काली गुफा दिखाई दे रही थी, जिसकी छाती को चौर कर पानी की असंख्य बूँदें टपक रही थीं मानों कोई शापग्रस्त वरुण वहाँ आ बसा है और वज्र के समान अपनी प्रियतमा के विरह में मौन रुदन कर रहा है ! यह विधाता का वैचित्र्य है कि देवता का रुदन आदमी के रुदन का शान्त परता है। और यही नहीं, अनजाने ही उन अनन्त वर्षों में शाप-ग्रस्त देवता के आंसुओं ने उन बेजान पत्थरों को कला के अनेक रूपों में पलट दिया था।

कान्त धर्मशाला की ओर न जाकर पहिले पुल पर मुड़ गया । एक छोटा बच्चा शान्त मन नदी की ओर देख रहा था । कान्त को देख कर बोला— तुम कहां जा रहे हो ?

उधर ।

हम भी चलेंगे ।

न जाने किसका बच्चा था, प्यारा और सुन्दर । बच्चे सभी सुन्दर लगते हैं— उसने सोचा और मुस्करा कर आगे बढ़ गया । गुफा में जल भरा था । फर्श पर काई जम गई थी और शरीर ठण्ड के कारण कांप-कांप उठता था, पर मन ! वह कहता था— स्वर्ग, यही है !

नीचे से गहरी आवाज उठती थी— कल कल, छल छल...।

दूर कहीं से बादल उठते थे और परछाईं फेंकते हुए निकल जाते थे और यात्री खुशी से चिल्ला कर प्रतिध्वनि पैदा करते थे । निशिकान्त देर तक सुग्ध-मन से उन बादलों को निहारता रहा, पर जब शरीर का कम्पन मन में उलभन पैदा करने लगा तो लौट चला । वह बच्चा अभी वहीं खड़ा था । उसे कांपते देख कर हँस पड़ा । वह भी हँसा और धर्मशाला में आकर कपड़े बदलने लगा । उसके आस-पास कांपी यात्री विखरे पड़े थे, कुछ स्नान करके लौट रहे थे, कुछ खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे थे और कुछ खेल रहे थे ताश या कैरम । उनमें युवक थे, युवतियां थीं, कुछ बालक और वृद्ध भी थे ।

उसके पास ही नीचे एक परिवार भोजन बनाने की व्यवस्था कर रहा था । एक युवती, जिसकी मांग में सिन्दूर था, आटा रूंध रही थी और दूसरी आग जलाने में व्यस्त थी । कान्त ने देखा— वह युवती अपने में सिकुड़ी हुई नहीं है परन्तु उसका रंग बेहद काला है और नाक कुछ छोटी है । आंखें...तभी सहसा निरीक्षण रोक देना पड़ा । युवती ने मुड़ कर आशंकित स्वर में पूछा—

भाभी ! राजेश कहां है ?

राजेश ! यहीं तो था ।

अब तो नहीं है ।

वह शीघ्रता से उठी । नदी की ओर जाकर जोर से पुकारा— राजेश,
श्री राजेश !

कोई नहीं बोला । घबरा कर वह दूसरी ओर मुड़ी । तभी सहसा
कान्त को कुछ याद आगया ।

पुल की ओर दिखा कर बोला— वह तो नहीं है ।

जी हाँ.....।

बैठिये ! मैं ले आता हूँ ।

कहकर वह शीघ्रता से आगे बढ़ गया और पांच मिनट में बच्चे को
लेकर लौट भी आया । फिर जैसे कुछ नहीं हुआ, गन्धक के सोते की ओर
चला गया । वह सोता कहां से निकलता है, कोई नहीं जानता परन्तु प्रति दिन
अनेक नर-नारी दूर दूर से उसका पानी पीने आते हैं और वह छोटी सी नाली के
रूप में बहता हुआ अब तक न जाने कितने लक्ष-लक्ष नर नारियों की प्यास बुझा
चुका है.....।

कान्त उसी के पास बैठकर देर तक नहाता और पानी पीता रहा ।
जब थक गया तो ऊपर लौट आया । नौकर आ गया था और सामान ठीक
कर रहा था । उसने देखा— उसी के पास बैठा हुआ एक नवयुवक अखबार
पढ़ रहा है । उसे देख कर वह बोला— अखबार आपका है ?

जी ।

पढ़ सकता हूँ ?

बड़े शौक से ।

धन्यवाद । कई दिन से कोई समाचार पत्र नहीं मिला था ।

वही नहीं, उसके पास वह श्यामवर्ण युवती 'वीणा' और 'हंस' आदि
मासिक पत्रिकायें खोले बड़े ध्यान से पढ़ रही थी और राजेश कह रहा था—
हम तसबीर देखेंगे ।

युवती ने धीरे से कहा— उनके हैं, मारेंगे ।

राजेश ने कान्त को देखा और बोला— तुम हमें मारोगे ?

कान्त मुस्कराया— कभी नहीं ।

राजेश फिर बुआ की ओर मुड़ा । कान्त खाने का प्रबन्ध करने लगा । तभी उस युवती ने युवक से कुछ कहा । सुन कर युवक बोला— देखिये भोजन बन रहा है ।

कान्त मुस्कराया— धन्यवाद । मेरे साथ है ।

तो क्या चिन्ता है वह भी खाया जावेगा ।

जी ।

युवक ने युवती की ओर देखा और कहा— चन्द्रा ! आपका भोजन खे लो ।

और फिर कान्त को सम्बोधित करके पूछा— आप देहरादून रहते हैं ? जी नहीं । मैं दिल्ली रहता हूँ ।

धूमने आये हैं ?

जी हाँ, और आप ?

जी समझिये धूमने ही आये हैं । वैसे माता जी के हाथों में एंक्विजिटा है । बताया था— गन्धक के पानी में नहाने से ठीक हो जाता है ।

जी हाँ, सुना तो है, गन्धक का पानी बड़ा कीमती होता है । यूरोप आदि देशों में तो ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े स्वास्थ्य-गृह बन गये हैं, पर हमारा देश है....।

जी हाँ । इस देश की बदकिस्मती कहिये ।

तभी कान्त ने पूछा— आपकी माता जी कहाँ हैं ?

वे पिता जी के साथ राजपुर गई हैं । सामान लेकर कल लौटेंगी ।

तो आप कई दिन ठहरेंगे ?

जी हाँ, और आप ?

मैं तो आज ही लौट जाना चाहता हूँ, बहुत हुआ तो कल तक रुक जाऊंगा। खुश होकर युवक बोला— तो रुकिये न! एक दिन, दो दिन, जैसा आप चाहें। मन में कान्त को बड़ी खुशी हुई, सोचा— दुनियां में आदमियों की भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं।

और फिर भोजन विश्राम आदि के बाद दिन का अख्यान आ पहुँचा। पहाड़ की चोटियां रंग पलटने लगीं। धीरे धीरे वे गुलाबी, लाल, दूधिया और भटमैली होती गईं। अन्त में काले-काले बादल उन पर छा गये, परन्तु सूरज की अन्तिम किरण उन्हें छेद कर अभी भी एक चोटी पर चमक रही थी। वियोग और व्यथा की यह अरुणिमा कान्त को बड़ी प्यारी लगी। वह मुग्ध मन उसे देखता रहा। धीरे धीरे यह दृश्य भी ओभक्त हो गया और प्रकृति ने काली चादर तान ली। देखा— यात्री सब चले गये हैं और नीचे का मैदान कुहरे में छिपता जा रहा है। उसी को चीर नदी का शोर ऊपर उठ आया है।

सर्दी बढ़ने लगी। वे सब उठ कर अन्दर चले गये, परन्तु कान्त वहीं खड़ा रहा। उसने चादर डाल ली थी और तन्मय होकर कुहरे और बादलों में आच्छादित इस नई दुनियां को देख रहा था। उसी समय पीछे से आकर चन्द्रा बोली— दृश्य देख रहे हैं ?

वह मुस्कराया— जी हाँ! मैं प्रकृति रानी को देख रहा हूँ।

सुन्दर है न ?

मनोरम !

चन्द्रा मुस्कराई— और डरावनी भी।

कान्त ने धीरे से कहा— डर तो आपने अन्दर है, बाहर कहीं नहीं।

चन्द्रा भिन्नकी नहीं, बोली— बाहर तो कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ अन्दर है, परन्तु फिर भी दुनियां बाहर को देख कर ही निर्णय करती है।

तभी तो वह आल-जाल में फँसी है।

और निकलने का कोई रास्ता नहीं।

कान्त मुड़ा । उसने चन्द्रा को ध्यान से देखा । उसके काले मुख पर एक गहरी छाया उभर रही थी । वह छाया विषाद की थी या भय की या वेदना की, यह वह उस अन्धकार में ठीक ठीक समझ न पाया, पर उसका दिल कुछ धक-धक करने लगा था । हड़ होकर उसने कहा— रास्ता क्यों नहीं है ?

क्या है, बताइये ?

उस निर्णय के आगे झुकने से इन्कार कर देना ।

चन्द्रा ठिठकी, बोली— वह तो विद्रोह का रास्ता है और विद्रोह में विनाश है ।

कान्त ने उसी क्षण उसी तरह कहा— और विनाश में जीवन ।

और फिर अपने उस वाक्य को समझता हुआ बोला— जीवन सदा विनाश के उस पार रहता है । बिना विनाश के हम उसे नहीं पा सकते, यह भ्रुव सत्य है ।

युवती जैसे कांपी । तभी दूर, कोई जोर से बोल उठा, एक गूँज पैदा हुई और मिट गई । ऊँचे पहाड़ पर प्रकाश की किरण-रेखा चमक उठी । आकाश के एक कोने से चन्द्रमा ने पृथ्वी की ओर भाँका । अन्धकार धुंधला पड़ने लगा । चन्द्रा बोली— सर्दी बढ़ रही है, अन्दर आ जाओ ।

वह चली गई । कान्त को लगा उसकी वाणी भीग रही थी । उसका मन भी भीगने लगा । सोचा— क्या चन्द्रा दुखी है ?

हां, दुखी तो है ही । देखते नहीं वह काली है और..... ।

वह कांपा । उसने जोर से गरदन को झटक दिया और किसी गीत की एक कड़ी गुनगुनाता हुआ अन्दर चला गया । भोजन तैयार था । वे सब खाने के लिये बैठ गये । खा चुके तो कान्त दूसरी बत्ती जला कर पढ़ने लगा । युवक भी आ बैठा और विस्तरा लगा कर चन्द्रा ने भी पत्रिका उठा ली । उसकी भाभी मनोज को लेकर लौट गई थी और नौकर सामान ठीक कर रहा था । बाहर सलाटा था और किवानों की दरजों में होकर चन्द्रमा का हल्का हल्का प्रकाश

वहां बिखर गया था ।.....पढ़ते पढ़ते कान्त को लगा— उसके सिर में धीरे धीरे दर्द उठ रहा है । वह पढ़ता रहा पर दर्द नहीं रुका । उसने एक दो बार हाथ से माथे को दबाया पर शान्ति नहीं पड़ी । अखिर पत्रिका बन्द करके वह लेट गया ।

युवक ने देखा तो पूछा— सोने लगे ?

हां ! कुछ सिर में दर्द है ।

सिर में दर्द है तो एस्प्री की गोली खा लो ।

और चन्द्रा से कहा— चन्द्रा ! एक गोली लाना ।

चन्द्रा उठी । बक्स में से गोली निकाली और कान्त को दे दी । उसे खाकर कान्त ने आँखें मींच ली । वह सो जाना चाहता था पर नींद नहीं आई, उल्टा वह विचारों के गहरे भँवर में जा पँसा । उससे निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझा । वह झुंझला उठा, परन्तु उससे क्या हो सकता था ? तब धबरा कर उसने आँखें खोल दीं । देखा— गहन अन्धकार है और सब सोये पड़े हैं ।

पर चन्द्रमा !

उसे किसी काले बादल ने ढँक लिया है ।

तभी यह विचार मन में उठा— जैसे चन्द्रा को.....।

अपने इस विचार पर वह स्वयं खीझ उठा, लेकिन चन्द्रा उसके मस्तिष्क से नहीं हटी । वह युवती है, पर कुरूपा है और इसीलिये कुँआरी भी ।

तभी दूसरा विचार पैदा हो गया— विवाह का सम्बन्ध नारीत्व से है या रूप से ?

उत्तर मिला— नारीत्व से ।

फिर ।

फिर क्या ? विवाह का सम्बन्ध नारी से है, परन्तु नारी का संबंध रूप से है । मनुष्य सौन्दर्य-प्रेमी है । यह नहीं चाहता— कुरूपा नारी के संसर्ग से भावी

विश्व कुरूप बने। सृष्टि से असुन्दरता का मूलोच्छेदन करना उसका एक लक्ष्य है।

तब असुन्दर नारी के नारोत्व की तृप्ति कैसे हो ?

इस प्रश्न का एक अजीब हल उसे सूझ पड़ा। उसे सोच कर वह स्वयं कांपने लगा। हल था प्रत्येक असुन्दर नारी को सन्तान उत्पत्ति के अयोग्य बना देना चाहिये।

लेकिन सन्तान स्त्री का जीवन है, सन्तान का छीनना स्त्री की हत्या करना है।

है, परन्तु सृष्टि की उन्नति के लिये ऐसे बलिदान आवश्यक हैं ?

अपने इस अद्भुत प्रश्नोत्तर पर उसे फिर भुंभुलाहट आने लगी। एक बार तो वह अस्फुट स्वर में बड़बड़ाया भी और तभी उसे लगा— एक भीनी भीनी गन्ध उसके पास आ रही है। वह चौंका.....। एक मादक स्पर्श उसके मस्तक में से होकर सारे शरीर को कपाता हुआ चला गया। वह थर्रा उठा— कोई धीरे धीरे उसका माथा सहला रहा था.....। कौन.....?

स्पर्श में मादकता थी। सिहरन थी.....।

चन्द्रा.....।

उसका हृदय तीव्र गति से धक धक करने लगा। उसका मस्तिष्क तेजी से घूमा। उसने चाहा वह उस हाथ को झटक कर दूर कर दे, पर हिल नहीं सका। उसी तरह चुपचाप लेटा रहा और चन्द्रा मस्तक दबाती रही, दबाती रही.....।

वह रस का सागर था, पर उसे लगा— वह रस खौलते हुये पानी की तरह जल रहा है और उसकी आत्मा झुलस उठी है.....।

पर चन्द्रा नारी है और वह पुरुष.....।

पर.....।

उसे लगा उसी तरह का एक और स्पर्श उसके दिल से उठता हुआ

मस्तिष्क की ओर जा रहा है। क्षण भर में आंखों में जीवन लौटा। टपटा टपटा स्पर्श.....।

चन्द्रा दोनों हाथों से माथा दबाने लगी थी। उसका दर्द कम हो रहा था। उसे सुख पहुँच रहा था.....।

पर यह तो पाप है, लेकिन सुख क्या है? पाप सुख क्यों है..... ?

गन्ध और पास आने लगी। नारी की गन्ध, वासना की गन्ध। सहसा वह तिलमिला कर उठा। उसका लिहाफ उतार कर फेंक दिया और उठ कर बैठ गया। वह वेहद कांप रहा था। उसके चारों ओर गहन अन्धकार था और.....।

और उसकी गोदी में आ पड़ी थी चन्द्रा कांपती और सिसकती हुई। वह क्या करे? क्या करे अब.....? क्या वह इस वेदना को सह सकेगा। उसका हृदय फट रहा है। उसकी आत्मा मुलस रही है। वह सकपकाया, घबराया, एकदम खड़ा हो गया। तभी धम्म से एक हल्की आवाज हुई। तभी किसी ने पुकारा— कौन ?

उसके काटो तो खून नहीं। वह सांस रोक कर जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। कमरे में बिलकुल शब्द नहीं था। बाहर नदी पत्थरों से टकराती हुई बह रही थी। वह लेट गया और उसने शीघ्रता से अपने आप को लिहाफ में छिपा लिया जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है। उसे फिर पता नहीं लगा चन्द्रा का क्या हुआ।

×

×

×

निशिकान्त जब सवेरे उठा तो प्रकाश फैल चुका था और सारा वातावरण कोहरे से ढँका हुआ था। ऐसा लगता था— सभ संसार धुंधलक है, न कहीं जल है, न थल, न मार्ग, न मंजिल! यद्यपि वह रात भर नहीं सो सका था, उसका मस्तिष्क और उसका हृदय दोनों बुरी तरह त्रस्त थे। फिर भी वह वातावरण की शान्ति से अतृप्त नहीं रहा। वह रात की बात भूलने की चेष्टा

करने लगा, पर तभी उसने देखा— सामने चन्द्रा है । वह सदा की तरह काम में ध्यस्त है पर उसकी वेदना से भरी दृष्टि, उसकी थकी हुई गति.....। वह कांप उठा और उसने उस युवक से कहा— मैं अब जाना चाहता हूँ ।

अभी ?

जी ।

उसकी पत्नी बोली— अभी क्या ? एक-दो दिन और ठहरिये ।

वह बोला— जी तो चाहता था कि कई दिन रहूँ पर पीछे भाई को बीमार छोड़ आया हूँ । इसीलिए जाना ही होगा ।

इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया । भाई बीमार है तो जाना ही ठीक है । उसने नौकर को सामान बांधने के लिये कहा और स्वयं घूमने चल पड़ा । युवक साथ था और वे दोनों धीरे धीरे पत्थरों पर पैर रखते हुये पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे । साथ ही साथ वे तेजी से बातें करते जाते थे जिनका विषय प्रकृति की सुन्दरता से लेकर कांग्रेस की वर्तमान गतिविधि तक था । वह अब सात प्रान्तों में शासन चला रही थी और देश में एक नयी चेतना का जन्म हो रहा था । युवक ने कहा— ठीक है । अब हमारे दिन लौटे हैं । हमने उनके लिये कम बलिदान नहीं किये थे ।

कान्त बोला— जी हाँ । बलिदान से आजादी मिलती है । आप लोगों ने.....।

बात काट कर वह बोला— हम लोगों का क्या है ? असल में तो हम लोगों की नारियों ने अपना जीवन देकर आजादी जीती है ।

और फिर निशिकान्त की ओर मुड़ कर कहा— चन्द्रा दो बार जेल हो आई है । कान्त चौंका— जी ।

जी हाँ, दो बार हो आई है । सन् तीस में और फिर सन् बत्तीस में । यड़ा सुन्दर भाषण देती है ।

शादी नहीं का अभी ?

जी शादी ! क्या बताऊँ लड़का नहीं मिलता । इतनी योग्य लड़की है पर फिर सहसा निशिकान्त को देख कर कहा— आप ही उधर कोई लड़का बता सकें तो बड़ी कृपा होगी ।

कान्त मुस्कराया— मैं.....!

जी हाँ । आप देखते हैं— लड़की पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित और सच्चरित्र है । जेल हो आई है, पर क्या मजाल कोई उंगली उठा सके । सभी कहते हैं बा० श्यामोहन की लड़की चन्द्रा, देवी है ।

कान्त के दिल में दर्द उठा । उसने धीरे से कहा— देखिये, कोशिश करूँगा ।

जी हाँ । जरूर करिये, हम लोग वैश्य हैं और देखिये पैसा हमारे पास बहुत तो नहीं है, पर कंगाल भी नहीं है । छोटी मोटी सेवा कर ही सकते हैं । और फिर धर्मशाला की ओर मुड़ते मुड़ते कहा— आपकी शादी हो गई ?

मेरी ?

जी !

नहीं ।

नहीं ! क्या कहते हैं ? आप युवक हैं, सुन्दर हैं, सुशिक्षित हैं और कमाते हैं । आपका सुन्दर विचार, आपका विशाल हृदय..... ।

बात काट कर कान्त हँसते हुये बोला— जाँ बात यह है मैंने अभी विवाह करने का विचार ही नहीं किया ।

युवक भी हँसा— मैं जानता हूँ, लड़की पसन्द नहीं आई है । वास्तव में लड़की चुनना बड़ा कठिन है । चन्द्रा को ही लीजिये ऊपर से..... ।

कान्त की छुती के भीतर धक से दुआ और बात को आगे बढ़ने से रोकने की इच्छा से वह तेजी से पत्थर पर दौड़ता हुआ एक विशाल प्रगट खण्ड पर जा चढ़ा । वह ठीक धर्मशाला के सामने था और वहाँ से वह चन्द्रा, उसकी भाभी और मनोज को साथ साथ देख सकता था । चन्द्रा मनोज को

उछाल रही थी और भाभी स्वेटर बुन रही थीं। साथ ही साथ वे बातें करती और हँसती जाती थी। कान्त ने देखा और सोचा— रात की बात.....।

उसका मन फिर विषाद से भर उठा। उसने शीघ्रता से कहा— मुझे जरूरी करनी चाहिये। दोपहर तक घर पहुँच जाना ठीक होगा।

और उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि युवक को उसका साथ देने में कष्ट होने लगा।

× × ×

नौकर ने सामान उठा लिया और चल पड़ा। कान्त अपने साथियों से विदा लेने के लिये पीछे रह गया। युवक से हाथ मिला कर उसने कहा— आप की कृपा मैं सदा याद रखूँगा।

युवक मुस्कराया— कृपा क्या है, आप.....।

उत्तर बिना सुने वह भाभी की ओर मुड़ा; बोला— नमस्ते भाभी जी, जा रहा हूँ। भाग्य ने मिलाया तो फिर कभी आपके हाथ की रोटीयाँ खाने आऊँगा। फिर मनोज को गोदी में उठा लिया। जेबों में जितनी मेवा भरी थी सब उसकी भोली में उड़ेल दी। दो तीन बार नीचे ऊपर उछाला और फिर कहा— हमें भूलोगे तो नहीं मनोज। दिल्ली आओगे।

मनोज ने गम्भीरता से गरदन हिला कर कहा— आर्येणो।

और फिर मेवा सम्भालने में व्यस्त हो गया। कान्त ने उसे चन्द्रा को दे दिया। बोला— नमस्ते।

तभी लगा वह चन्द्रा से बहुत कुछ कहना चाहता है, पर वह कुछ कह न सका। एक बार फिर हाथ जोड़ कर नमस्ते किया और शीघ्रता से आगे बढ़ गया। तभी युवक ने पीछे से पुकार कर कहा— अरे ठहरिये।

वह टिठका— जी।

आपकी पत्रिकाएँ रह गईं।

तो रहने दीजिये।

जी, लेंते जाइये न !

अजी रहने दीजिये, आप पहिचयेगा ।

और मुड़ कर वह चबूतरे से नीचे उतर गया । युवक पत्रिकायें लिये खड़ा ही रह गया । उधर कान्त जैसे ही ऊपर से आते हुए भरनों को पार करता हुआ पहले मोड़ पर आया उसने बच्चे की खिलखिलाहट सुनी । वह चौंका । उसने आंख उठा कर देखा— दाहिनी ओर भरने के पास एक शिला-खण्ड पर चन्द्रा खड़ी है । उसकी गोदी में मनोज है और वह हाथ फैला कर उसके पास आना चाहता है ।

कान्त मुस्कराया— आओगे !

चन्द्रा मुस्कराई— जाओ ।

सहसा कान्त ने चन्द्रा को आंखों भर देखा । वह सिहर उठा । उस संसकाम के पीछे वेदना का गहरा सागर छलछला रहा था । उसका दिन टीसने लगा । क्या वह इस लड़की के लिये कुछ नहीं कर सकता । कुछ भी नहीं...)

इस टीस के आवजूद भी वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, परन्तु आंखें फिर पीछे लौटीं । देखा— चन्द्रा इंगित से मनोज को उसी की ओर दिखा रही है । उसकी आंखें आसुओं से पूर्ण हैं, जो उसके कान्ते गालों से होकर नीचे भरने में टपक रहे हैं । मनोज हँस रहा है... ..।

कान्त के आगे नाला था । वह तेजी से कूदा और लपक कर दूकानों की ओर मुड़ गया ।

यहीं चबूतरे पर उसका नौकर सामान लिये बैठा था । उसके पास बैठ कर उसने थैले से कागज निकाला और लिखने लगा । तब उसका शरीर कांप रहा था और हाथ तेजी से शब्दों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था । उसने लिखा—

“मानता हूँ कि नारी का अस्तित्व नारीत्व के कारण है, पर रात जो कुछ हुआ वह कायरता थी । मेरी और तुम्हारी दोनों की । कायरता पाप है । जो

चाहती हो खुल कर मांगो ! नहीं मिलता, उसके लिये लड़ो । लड़ते लड़ने प्राप्त करो या नष्ट हो जाओ । दोनों स्थिति एक दूसरे से बढ़ कर हैं, पर किसी भी हालत में अपने को मारना बुरा है, इसीलिये पाप है.....।

—कान्त

लिख चुका तो नौकर से कहा— नाले के उस पार मनोज को लिये चन्द्रा खड़ी है, उसे यह पत्र दे आओ ।

रहस्य



धीरे धीरे कान्त ने आँखें खोली । यद्यपि उसका वदन अभी तक दर्द कर रहा था तो भी उसका मन बहुत शान्त था । वह महसूस कर रहा था जैसे उसका जीवन लौट आया है और उसे मरने का कोई डर नहीं है । शान्त क्षणों में कान्त मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता । वह मानता है, जीवन से बढ़ कर मौत मनुष्य की शुभचिन्तिका है, परन्तु अशान्ति में बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं, जो शान्त क्षणों की मान्यता पर विश्वास रख पाते हैं । कान्त भी नहीं रख पाया, परन्तु उसके हक में एक बात थी और वह बात काफी वजन रखती थी । वह बीमार था ऐसा कि क्षण-क्षण में मौत की डरावनी सूरत उसके सामने नाचने लगती थी और उस वक्त उसके पास सहानुभूति के दो शब्द कहनेवाला भी कोई नहीं था । केवल उसका छोटा भाई था जो उससे भी अधिक डरा हुआ था और सच तो यह है उसका डर ही कान्त का एक मात्र ढाढ़स था । अगर वह न होता तो वह एक बार दिल खोल कर खूब रोता, उसके बाद फिर चाहे कुछ हुआ होता ; चाहे उसके प्राण तक चले गये होते । पर छोटा भाई है, उसे विकल देख कर बहुत दुखी होगा— यही एक बात उसके दिमाग से नहीं निकली थी ।

वैसे पड़ोस में सब जानते थे, कान्त बीमार है । कुछ आकर हाल-चाल पूछ जाते हैं । एक प्रेमी सज्जन कभी-कभी बाजार का काम करने को भी तैयार थे, परन्तु काम कैसे कराया जाता है कान्त ने यह नहीं सीखा । वस्तुतः वह लोगों से बहुत कम मिलता था और इसीलिये, जैसा होता है, वे लोग भी उसके पास बहुत कम आते थे । जो आते थे वे दूर के थे और उनके पास आने का कोई न कोई कारण होता था, परन्तु आज जैसे ही उसने आँखें खोली, उसने देखा— उसके मकान के सामने रहने वाली बूढ़ा उसके सामने खड़ी है ।

उसे जागते देख वह हमदर्दी से भर कर बोली— कहां बेटा ! कैसी तबियत है ? और कहते-कहते पास आकर कान्त का माथा देखा, फिर हाथ देखा और बोली— ना बेटा ! तुम्हें तो अभी बुखार है ।

कान्त ने धीरे से कहा— पहिले से कम है, चाची ।

चाची बोली— तू माँ को क्यों नहीं बुला लेता ? क्या कर रही है वहाँ ? ना बाबा पत्थर का हिया है उसका । इतनी बीमारी और पास कोई नहीं । वैसे ही डर लगता है ।

कान्त कष्ट में भी मुस्कराया, कहा— चाची ! डर क्या है ?

ना बेटा ! डर तो लगता ही है । अपने किस दिन के लिये होते हैं ? चिट्ठी लिखी है ?

जी हाँ ।

मेरी जान में तो तार देना चाहिये था । शाम तक आ जाती । अपना अपना ही होता है । दूसरे क्या कर सकते हैं; आये हाल पूछ गये । किसी पढ़ी है जो अपना घर छोड़ कर दूसरे के पड़ेगा !

जी.....!

मैं भूठ नहीं कहती, घर-घर मिट्टी के चूल्हे हैं । सब अपने को चाहते हैं ।

कान्त का मन बोलने को नहीं कह रहा था, पर वह मना भी नही कर सकता था । उसने धीरे से कहा— जी आप सच कहती हैं ।

चाची मुस्कराई, बोली— कोई बात हो तो मुझे कह देना । बूढ़ी हूँ, वहाँ न पढ़ी, यहाँ पढ़ रही । सच जानना तेरी बात सोच-सोच कर जी को बड़ा दुख होता है । इतना बड़ा हो गया अकेला पड़ा रहता है । विवाह भी तो नहीं किया । अपनी बहू होती तो दस काम करता ।

कान्त ने कोई जवाब नहीं दिया । मुस्करा कर रह गया । चाची कहती रही— बुनिया है न जाने क्या-क्या सोचती है ?

और फिर एक दम विश्वस्त की भाँति नीचे झुक कर धीरे से कहा—
कल मोहनकृष्ण की चहूँ आई थी ?

हाँ ।

क्यों ?

वैसे ही पता लगा होगा, हाल पूछने चली आई ।

ना भइया ! तुम भक्तदार है । देख भाल कर काम करना चाहिये ।
किस-किस की जवान पकड़ी जाती है ! रमेश की माँ कह रही थी— 'कल कांत
के पास मोहनकृष्ण की चहूँ आई थी, रात बीते ई । मुझे तो बुरा लगा
सुन कर ।

कान्त पर इस बात का कोई विशेष असर नहीं हुआ । वह जानता था,
वे क्या कहना चाहती हैं । इसलिये सुन कर उसने इतना ही कहा— चाची !
मैंने उसे कई बार पढ़ाया है । मोहन मेरा मित्र था उसी के नाते आई थी ।
मैंने नहीं बुलाया । अब आयेगी तो मना कर दूँगा ।

चाची शीघ्रता से बोली— मैं जानती हूँ ! उस पर विपत्ता क्या कम पड़ी
है, पर औरत औरत है । सफेद चादर पर लगा दाग क्या छिपता है ? और फिर
दस मुँह की दस बातें ! अपने को बचा कर रखना चाहिये भइया ! तेरी सब
तारीफ करे हैं— लड़का सोने का है ! और ऐसा क्या काम है ? मैं कर दूँगी, देवी
है और माँ को तार दे दें फिर क्या काम आयेगी ? और सौ बातों की एक बात—
विवाह करले । अपनी लुगाईं जितनी मोहज्वत करती है, जितना उस पर जोर
होता है, उतना और किस पर हो सकता है ?

और चाची उठी । जाते जाते बोली— तेरे भइया को भेजू क्या ?

कान्त ने धीरे से कहा— नहीं चाची ! देवी है, दवा ले आयेगा ।
तनियत मेरी सुधर रही है ।

चाची चली गई, कुछ देर बाद देवी भी स्कूल चला गया । वह फिर
अकेला रह गया । उसे लग रहा था उसका ज्वर धीरे-धीरे फिर बढ़ रहा है ।

उसे पाँच छ दिन से बुखार आ रहा था, साथ ही पेट में पीड़ा थी। वह समझता था- जैसा कि सदा होता है आठ दस दिन में सब ठीक हो जायेगा; परन्तु इस बार ऐसा हुआ कि रोग घटने के बजाय बढ़ने लगा। परसों रात उसके पेट में इतना दर्द उठा कि वह तड़प उठा। उसने देर तक पेट को दबा, दबा खाई पर, शान्ति नहीं पड़ी। देवी को जगाया, कहा- 'आग जलाकर मेरा पेट सेंक दे।' परन्तु आग जले-जले उसे कै-दस्त शुरू हो गये! वह कांप उठा- क्या होगा अब? देवी भी घबरायी। बेचारा कभी माथा थामता, कभी पानी लाता और कान्त.....।

हटात् कान्त को कुछ याद आया, बोला- 'प्याज होगा। उसका अर्क ले आ।' देवी नीचे दौड़ा और कान्त साँस लेने को रुका। उसने छाती को जोर से दबा लिया और आँखें बन्द करके लेट गया। सघन, निस्तब्ध रात्रि; रोग का भयानक प्रकोप और माँ की अनुपस्थिति! कान्त का हृदय फटने लगा; वह रो पड़ा। क्या होगा.....? और उवकाई फिर आई; पर तभी देवी ने हाथ में प्याली लिये वहाँ प्रवेश किया। कान्त एक साँस में सब अर्क पी गया। क्षण बीते जैसे प्राण लौटे, छाती बँधी। वह फिर नेत्र मूँदकर लेट गया और दूसरे ही क्षण उसे लगा- उसका बदन तवे की तरह तप रहा है.....।

वह रात धीरे-धीरे बीत गई। प्रभात सदा की भाँति आया; दुनिया जागी और काम में लगी। कान्त उसी तरह शिथिल संज्ञाहीन पड़ा रहा। न उसे दिन का ज्ञान था, न रात का। उसे यह भी पता नहीं था कि वह है भी या नहीं। धूम्राच्छादित-स्वप्निल-माया प्रदेशों की तरह कुछ चित्र उसके सामने उठते थे और वह आँखें फाड़-फाड़ कर देखता था- जैसे कुछ खोजना चाहता हो, पर क्या? यह वह स्वयं ही नहीं जानता था। वास्तव में वह न सोता था, न जागता था। वह गहरी मूर्च्छना में था। उसी मूर्च्छना में उसे लगा जैसे भयानक अंधेरी रात बीत रही है, प्रभात की सुनहरी किरणें धरती को मुखरित करती हुई चारों ओर फैल गई हैं, प्रकाश मन्द-मन्द मन्थर गति से मुस्कराता

हुआ था पहुँचा है। वायु की हल्की लहरें मदहोशी का गीत गाने लगी हैं और उसके अंग-अंग में जैसे प्राण लौट रहे हैं— जैसे मीठी मादकता, उसे कँपाती हुई उसके रक्त के साथ नाड़ियों में फैल रही है.....! वह कांपा— यह क्या है ? यह मादक सिहरन, यह प्राणदायक स्पर्श, मीठा और प्यारा जैसे वह जीवन-सरोवर में डूब रहा है, उसके पैर, उसके हाथ, उसकी छाती, उसका मुख, नाक, आँखें, मस्तक सब डूब गये और डूब कर ही जैसे वह जी उठा.....वह फिर कांपा। उस कम्पन में माधुर्य थ ; उसका हृदय आलोकित होने लगा। उसे लगा उसका ताप शान्त हो रहा है। उसकी आँखें खुलने लगी हैं और उसका स्वर फूट रहा है— माँ आ.....!

आँखें खुल गईं। उसने देखा, वह अपने कमरे में लेटा है, द्वार खुले हैं और उनसे आकर मनोरम प्रकाश वहाँ बिखर गया है और कोई धीरे-धीरे उसका माथा सहला रहा है। क्या माँ आ गई.....आँखें आप-ही-आप ऊपर उठीं और उठ कर रह गईं। उसके सामने चिर-परिचित मुखड़ा था— सुन्दर, शान्त और गम्भीर। वह क्षणभर बोला नहीं सका ; उसे देखता रहा और वह हाथ फेरती रही। केवल एक बार उसका हाथ कांपा ; पर स्थिर होकर वह फिर सहलाने लगी। क्षण-भर बाद जब पहला प्रभाव शान्त हुआ तो कान्त धीरे-धीरे फुसफुसाया— तुम आई हो कमला !

‘कैसा जी है ?’

‘देख रही हो।’

‘कहलाया क्यों नहीं ? इतना गैर समझते थे ?’

कान्त नहीं बोला। कमला ने फिर कहा— ‘आज अचानक देवी मिल गया था। पूछने पर उसने बताया। नहीं तो मुझे क्या पता लगता ?’

‘जरूरत ही क्या थी ?’

‘हाँ ! जरूरत तो कुछ नहीं थी। बाल केवल इतनी थी कि मैं तुम्हें दुनिया के दूसरे आदमियों की तरह नहीं समझती थी !’

कान्त जैसे काँप। उसने आँखें उठाकर देखा और धीरे-धीरे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, पर दबाना चाह कर भी दबा न सका। कमला ने कोई विरोध नहीं किया; बल्कि उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर दबा दिया और दबाए रही। कान्त उसी तरह लेटा रहा। उसकी आँखें डबडबा आईं; परन्तु उसने उन्हें पूछने की चेष्टा नहीं की। उस अवस्था में उसे बहुत सुख मिल रहा था और वह उस सुख को खोना नहीं चाहता था। जेठ की तपती दोपहरी में तपे हुए मुसाफिर को शीतलवायु का भोंका जितनी शान्ति देता है या माघ-पूस की जमा देनेवाली शीत में ठिठुरता हुआ मुसाफिर आग को देखकर जो सुख पाता है, वही सुख आज कान्त को मिला था। कंगाल की तरह उस सभी को वह दिल में बटोर लेना चाहता था। कभी-कभी उसे डर लगता था, वह कहीं स्वप्न न हो, वह कहीं मात्र कल्पना ही न साबित हो। उसके हृदय को यह निर्बलता यद्यपि स्थायी नहीं थी; परन्तु रोम के कारण उसकी मेधा-शक्ति क्षीण हो गई थी, इसीलिए वह अस्थिर हो उठा था.....।

सहसा जीने में आहट हुई। देवी बाहर से लौट आया। कान्त ने चौंककर अपना हाथ खींच लिया। कमला बिना भिभके उसी तरह शान्त मन बैठी रही। देवी ने आकर शीशी चुपचाप मेज पर रख दी और कहा— 'भइया! डाक्टर ने कहा है, वे एक घण्टे में आयेंगे।' कान्त ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह समझ गया था, डाक्टर बुलाने की सलाह कमला की है।

वह उठी और बोली— 'दवा क्या अभी देनी होगी?'

'नहीं! कहा है, एक खुराक दवा अभी देनी है।'

'और.....।'

'और तो कुछ नहीं कहा।'

'तुम्हें स्कूल जाना है ?'

'जैसा कहे।'

'आज मत जाओ। जरा यहाँ बैठो। मैं नीचे देखती हूँ। दूध ले

आये हो न ?'

'जी हाँ !'

कमला चुपचाप नीचे गई और डाक्टर के आने तक उसने कई बार ऊपर-नीचे चक्कर लगाये । देवी से पूछकर कान्त का विस्तर बदला, कपड़े बदले । कमरे को धा डाला और फिर देवी के लिये खाना बनाया । घर जैसे चमक उठा और कान्त को लग जैसा उसका आधा रोग नष्ट हो गया है । उसका मन एक भीगी खुशी से भर उठा । मनुष्य की शक्ति कितनी बौदी है ? सहाजुभूति और प्रेम के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है । इस दुनिया में कोई उसका है— मात्र यह भावना— यह अपनापन वास्तविक हो उठता है, तो मनुष्य सारी दुनिया को चुनौती देने को तैयार हो जाता है । उसे लगा उसके सब दुख मिट गये हैं और वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली और सबसे सुखी मनुष्य है । और इसी कमला को लेकर चाची उसे उलाहना देने आई है— "तुम रे वेठा ! उसका यहाँ आना ठीक नहीं है । कल को दुनिया क्या कहेगी ? किसी का मुँह नहीं पकड़ा जाता ।" वह जानता था, चाची का क्या मतलब है । मीठी भाषा सत्य की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती । वह कहना चाहती थी— 'कमला दुर्चरित्रा है । उससे सम्पर्क रखना बुरा है । कमला चरित्रहीना है । ये शब्द कान्त के मस्तिष्क में धुआँ बन कर घुट गये । उस धुँए ने उसके दिलको भी कड़वा बना दिया । वह फुसफुसाया— क्या कमला सचमुच चरित्रहीना है ? उसने धीरे से करवट बदली और शून्य में ताकने लगा; पर विचार क्या उसे शान्त रहने देते थे ? वे बिना बुलाये आये और बोले— 'तुम जानते हो पहिले-पहल सब तुम कुछ दिन के लिये कमला को पढ़ाने गये थे, वह कितनी भोली और कितनी सच्ची थी ! उसके भोलेपन से तुम कितने आकर्षित हुए थे । तुम ने चाहा था ; तुम सदा उसके पास रहो, पर तुम्हारा स्वप्न उसने एक शब्द में बंग कर दिया था और उसी कमला ने विवाह के बाद आग्रह पूर्वक तुम्हें फिर पढ़ाने के लिये बुला भेजा । तब वह कितनी बदल गई थी ? भोली

बालिका अब एक चंचल परन्तु उदार युवती बन चुकी थी । वह जीवन को खेलना जानती थी ; परन्तु यह भी जानती थी कि खेल की एक मर्यादा है । वह तुम्हें प्यार करती थी उसी तरह जिस तरह एक मित्र एक मित्र को और एक बहिन एक भाई को करती है । उसने तुम्हें यह भी बताया था, वह तुम्हें शुरू से ही प्रेम करती थी । पर भाग्य की बात, एक दिन शहर में दंगा हुआ और शैतानों ने उसके पति की हत्या कर डाली । वह विधवा हो गई, उसका भाग्य फूट गया । तब तुमने और तुम्हारे साथी चन्द्र ने उसकी कितनी सहायता की ! तुम बहुधनवीर थे ; परन्तु राजनैतिक कार्यकर्ता होने के कारण चन्द्र के पास समय का अभाव नहीं था । लेकिन विपत्ति अकेली नहीं आती । पति के बाद कमला का एक मात्र पुत्र भी चल बसा, फिर उसकी सास भी जीवित न रह सकी । कमला अकेली रह गई । संसार उसके लिये शून्य था; पर उस शून्य में दो प्रकाश स्तम्भ थे, जो उसे मार्ग सुझा रहे थे, तुम और चन्द्र । तुमने हृदय की शक्ति दी ; पर चन्द्र ने उँगली पकड़ कर सह दिखाई । कमला मर कर भी जी उठी । यही बात दुनिया को खटकी— वह अनाथा है; पर प्रसन्न है, शान्त है, जी रही है आखिर क्यों ? क्यों का उत्तर ढूँढ़ना मुश्किल नहीं था । तुम और चन्द्र मौजूद थे । बस, कमला को चरित्रहीना घोषित कर दिया गया । चन्द्र और तुम पुरुष थे, क्षम्य थे पर कमला नारी थी । नारी को क्षमा नहीं मिल सकती ; वह आदि शक्ति है, इसीलिये वही समाज के कोप का कारण बनी ।

ये विचार अपनी कहानी इतनी तीव्रता से कह रहे थे कि कान्त अपने-आपको वश में न रख सका । वह उत्तेजित हो उठा, क्रोध से उसका मुँह लमतमा आया । वह फुस-फुसाया— कमला दुश्चरित्रा है, क्योंकि वह विपत्ति में भी हँसती है ; क्योंकि वह आपदाओं के सामने नहीं झुकी । उसे याद आया, एक दिन उसीने कमला से कहा था— सुनो कमला ! इतने बड़े संसार में हमारा-तुम्हारा मूल्य ही क्या है । तुम रोओगी, दुनिया तुम्हारे आँसू पीछेने के लिये नहीं रुकेगी । तब उसके साथ चलने में हमारा कल्याण है । और

अब चलना है तो गर्व से सिर उठाकर चलना चाहिये । 'अच्छी भावना' तुम्हारा एक मात्र अवलम्ब है । उसके रहते हुए किसी भी तरह तुम्हारा नाश हो जाता है तो तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । आखिर तुम मर भी गई, तो दुनिया का क्या त्रिगड़ जायगा ! वह तो एक अन्तहीन क्रम है ।

आज उसे खुशी थी, कमला इस रहस्य को समझ गई थी और इसका कारण ये वे दोनों, कान्त और चन्द्र । विशेष कर चन्द्र, क्योंकि कान्त महसूस करता था, बावजूद सब बातों के उसमें एक प्रकार की भिन्नता थी और चन्द्र शांत होकर भी जो कुछ करता था, खुले दिल से करता था । कान्त नहीं जानता था कमला किसे अधिक प्रेम करती थी; परन्तु वह वह अवश्य जानता था कि उसका सुख कहाँ है.....?

इस विचार के मन में आते ही उसका दिल भर आया, आँखें गीली हो गईं और तभी आँसुओं के कारण धुँधली दृष्टि से उसने देखा— कमला उसके सामने खड़ी है । देखकर वह चौंक पड़ा और चाहा मुस्कराये, पर कमला सीधी उसके सिरहाने आ बैठी और माथे पर हाथ फेरती-फेरती बोली— 'रो रहे हो ?'

'नहीं कमला !'

'तो ये आँसू !'

कान्त ने मुस्करा कर कहा— 'ये आँसू बड़े पवित्र हैं । किसी की वीरता की याद करते समय मेरा हृदय उसको प्रेम देने को उमड़ पड़ा था ।'

कमला भी मुस्कराई— 'कौन है वह भाग्यशाली ? शावद चन्द्र !'

'नहीं !'

'तो !'

'बूभो !'

कमला ने शान्तभाव से हँसते हुए कहा— 'तुम्हारे सामने बुद्धि का प्रयोग करूँ, चाह कर भी इतनी स्वर्धा मुझमें पैदा नहीं होती ।'

कान्त बोला— 'तो हुआ, मैं तुम्हें कायर बनाता हूँ ।'

कायर नहीं, विनीत कहो, कान्त ! और विनीत वही होता है जो शक्ति-शाली है ।’

‘कमला ।’

‘कहो, कान्त वह भाग्यशाली कौन है ?’

‘सुनोगी ?’

‘हाँ ।’

‘तो सुनो, वह तुम हो ।’

‘कमला काँपी— मैं..... ।’

‘हाँ तुम, कमला । तुम्हारी कहानी याद करते-करते मेरी आँखें भर आई थीं ।’

‘लेकिन मेरी कहानी याद करने का कारण क्या था ?’

‘वह भी बताता हूँ । तुम्हारे आने से पहले सामनेवाली चाची आई थीं, कहती थीं— ‘कमला दुश्चरित्रा है । उसे मना कर दो, वह तुम्हारे पास न आवे !’

और कह कर कान्त ने कमला को देखा, वह उसी तरह शान्त भाव से सिर दबा रही थी । जग-भर बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बोली— ‘अब तुम्हारी तबीयत कैसी है ?’

‘कल से ठीक है ।’

‘माँ कब आ रही हैं ?’

‘आज सन्ध्या तक आशा है ?’

‘तब ठीक है, मैं जा रही हूँ ।’

कान्त बड़ी तेजी से चौंका । उसने घबराकर कहा— ‘पर कमला ! मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा । मैं तो तुम्हें..... !’

सहसा कमला ने अपना हाथ कान्त के मुँह पर रख दिया और सुस्कराती हुई बोली— ‘आगे कुछ मत कहना कान्त ! तुमने कैसे समझ लिया कि तुम्हारे कह देने पर भी कमला तुम्हारे पास से चली जायगी और फिर हँसकर कहा—

‘तुम सदा मेरे मास्टरजी बना रहना चाहते हो, लालची कहीं के । पर सुनो, गुरु गुड़ ही रहे, चेला शक्कर बन गये वाली बात हो गई है । कहते-कहते कमला खिल खिलाकर हँसी और कान्त को कुल्लु कहने का अक्सर न देकर फिर बोली— ‘नात यह है, चन्द्र का पत्र आया था । उसे दो वर्ष की जेल हो गई है ।’

कान्त ने चौंक कर कहा— ‘दो वर्ष.....’

‘हाँ, दो वर्ष की सख्त कैद की सजा हुई है । लिखा है— तुम जाकर आश्रम सँभाल लो ।’

‘बस ।’

‘हाँ । बस इतना ही लिखा है ।’

‘और तुम जा रही हो ।’

‘न जाऊँ ?’

कान्त ने फिर कमला की ओर देखा, वह उसी तरह स्थिर थी । उसने कहा— ‘अगर मना करूँ तो रुक जाओगी ?’

‘कर देखो ।’

‘कमला !’

कमला ने कहा— ‘मास्टरजी ! जिसने इतने दिन तुम्हारे चरणों में शिखा पाई है वह क्या इतना बुद्धू रहेगा कि तुम्हें भी न पहचान सके ? तुम मना नहीं कर सकते ।’

कान्त धकसे रह गया । उसके सारे जीवन की जमा पूँजी, उसके सारा सत्य, सारा रहस्य क्षण भर में कमला ने खोल कर रख दिया । आज उसके ऊपर का सारा आवरण छिन्न-भिन्न होकर दूर जा पड़ा । वह उस थके हुए बान्नी की तरह, जो मंजिला पर आकर देखता है कि वापस लौटने में ही उसका कल्याण है, काँप उठा । उसकी आँखें भर आईं । उसने उन्हें पंछा नहीं । कमला भी चुपचाप बैठी रही । तनिक शान्त होकर कान्त बोला— ‘कमला,

जाओ। जाने में ही तुम्हारा कल्याण है; पर मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, मानोगी ?'

'कहो तो।'

'चन्द्र जब छूट कर आये तो तुम उससे विवाह कर लेना।'

जैसे भूकम्प आ गया, कमरा हिला, छतें हिलीं, वायुमंडल हिला, कह कर कान्त हिला, सुनकर कमला हिली। जब शान्ति हुई तो कमला का हाथ कान्त के माथे पर स्थिर रखा हुआ था और उसकी आँखों से बहती हुई आसुओं की धारा अँगुलियों के छिद्रों में से होकर कान्त के आँसुओं में जा मिली थी।

अपरिचित



निशिकान्त उसे क्या लेकर समझे; अपमान या वह व्यंग्योक्ति, जहाँ प्रेम की चरम मिठास है। वह जानता कुछ भी नहीं तभी प्रश्न उमड़-धुमड़कर प्रश्न पर प्रश्न करता चला जाता है और वह उत्तर दे ही नहीं पाता। उत्तर का पहला शब्द जब उसके मस्तिष्क में आता है तो वह उससे पहले ही एक और प्रश्न कर बैठता है— रजनी ने पहली ही मुलाकात में ऐसा प्रश्न किया क्यों ?

और इसी प्रश्न के द्वारा वह मानो रजनी को जानना चाहता है। रजनी चतुर है या मूर्खा ! सम्य है या असम्य ! जीवन की लम्बी दौड़ में वह सहारा देगी या मार्ग का रोड़ा बनकर अटकेंगी। मानो इस प्रश्न के एक एक शब्द में रजनी का परिचय दिया है; उसे वह खोजना चाहता है।

रजनी ने पूछा था— आप मुझे जानते हैं ? और निशिकान्त ने इसीको जैसे अपमान मान लिया ; पर कहा कुछ भी नहीं। यह भी नहीं समझा कि वह कुछ नाराज भी है। अपितु हँसा था और कहा था— मैं तो आप ही नहीं जानता कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं ; पर जानना जरूर चाहता हूँ।

वात यह थी। निशिकान्त का विवाह परसों ही रजनी के साथ हुआ था और आज वे कुटुम्ब की हुल-हुल ध्वनि से बचकर कहीं एकान्त में मिले, तो यह प्रश्न विकट समस्या बनकर सामने आ गया।

नव-विवाहिता बधु रजनी निशिकान्त को देखकर तनिक भी नहीं भिन्नकी। लज्जा की लाली तो उसके मुख पर छा गई, पर वह सिमटकर एक कोने में नहीं जा दुबकी। हाँ, पुलकित-सी जरूर हुई, हँसी भी ... ।

‘छीं ! छीं !’— निशिकान्त के मन ने भीतर ही भीतर कहा— बड़ी निर्लज्ज है यह !

और रजनी ने जब बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर नमस्ते की और बोली- मैं तो समझती थी, आप मुझे भूल ही गये हैं ?

तब निशिकान्त क्या समझकर गुस्सा करता । हँस पड़ा । बड़े प्रेम से उसके पास और पास खिंच कर बैठ गया- आपको भूल सकता हूँ यह असम्भव है ।

‘कृपा है आपकी.....?’

और फिर अनेक बातें । बातों के बीच-बीच में समय बचाकर निशिकान्त रजनी को देखता और चुपके चुपके दृष्टि चुरा चुरा कर रजनी देखती निशिकान्त को.....।

निशिकान्त- सुन्दर- हँसमुख- विद्वान- सरल... ऐसे ही अनेक भाव रजनी के मन में आते और सोच-सोचकर वह खिल-खिला उठती मानो विजली सी दौड़कर उसके सामने एक के बाद एक नया दरवाजा खोल जाती और उसीमें से होकर निशिकान्त का एक से एक नया रूप-गुण चमक पड़ता । तब कुछ क्षण के लिए रजनी चुप-सी रह जाती मानो नेत्रों द्वारा उस अनोखी, नवीन, अद्भुत लड़के को षी जाना चाहती हो । जानती है जन्म भर उसीको देखना और पस्यना है; पर उसे तो लगता है- ऊँहूँ ! जन्म भर किसने देखा है । जीवन और सृष्टि का जो भी सत्य है वह आज और यह क्षण है । कल का दूसरा नाम आशा है, उसे कौन जाने.....।

दूसरी ओर निशिकान्त देखता है एक नया रूप, एक नया सौन्दर्य, एक नई मोहकता । उनसे बह-बहकर मानो मदिरा का स्रोत उमड़ा पड़ता है । उसी में झूबता-उतरता वह बह चलता है । बहा चला जाता है । थकता नहीं अपितु जितना बढ़ता है उतनी ही और गर्मी पाकर मानो उस सारे समुद्र को उसी क्षण उलीच जाना चाहता है ।

तभी रजनी कह देती है- कैसा अद्भुत है यह संसार । आज से पहिले मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा.....।

निशिकान्त चौंककर रजनी को देखने लगता है ।

रजनी कहती जाती है— फिर भी हम दोनों इतने जिसकोच, कि मानो जन्म-जन्म के साथी संगी...।

निशिकान्त सोचता है— अरे ! यह रजनी ने क्या कहा ?

और रजनी यकायक चुप होकर फिर पूछ बैठती है— क्या आप मुझे जानते हैं ? विवाह से पहिले हम कभी भी तो नहीं मिले ।

निशिकान्त चुप.....।

रजनी भी चुप.....।

दूसरे ही क्षण उसने सोचा— कैसी बात कही मैंने । मैं जब जानती ही नहीं तो इतनी बड़ी बात कही कैसे ?

और लज्जा से यह कट कट आई.।

तभी निशिकान्त ने रजनी का हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबा-सा दिया, फिर उसे अपने हाथों पर रख लिया और न जाने क्यों वे दोनों सिहर-से उठे !

न जाने क्यों !

निशिकान्त बोला— रानी, (कहते कहते वह काँप काँप आया) मैं तो आप ही नहीं जानता कि तुम्हें जानता हूँ या नहीं; पर जानना जरूर चाहता हूँ ।

रजनी सुनकर सोचती है, इस उत्तर का भी उत्तर दिया जा सकता है; पर बोलती नहीं । सुस्करकर निशिकान्त की ओर झुक जाती है ।

निशिकान्त के भीतर यह प्रश्न घुँडी मारें बैठा ही है; पर वह उसे देखता नहीं, अपितु झुकी हुई रजनी को दोनों हाथों से सम्हालकर कहता है— श्रव जाऊँ ?

और कहकर दोनों ही चौंक पड़ते हैं— धक ! धक ! अपरिचित हैं वे ? क्या जाने यह धक ! धक ! क्या है ?

×

×

×

×

अगले दिन कमरे में जाकर मा कहती है— वहू आज जायेगी !—जायेगी ! जाये ! फिर कोई क्या करे ? जो आता है, वह जायेगा । वह नियम— अखंड है । इसे कौन भंग कर सकता है ? इतना जानकर भी मा कहती है सुनाकर— वहू आज जायेगी ! कमरे में केवल निशिकान्त हैं और कोई भी नहीं । तब मा कैसे सुनाती है शायद कमरे की दीवारों को । वे क्या जानें ? न जाने कौन कौन आया, उनके सहारे पीठ टिकाकर बैठा और चला गया । अनन्त मानवों को उसने देखा— गरीब और अमीर, दयालु और राक्षस, पापी और पुण्यात्मा, सुन्दर और असुन्दर सभी पर उसने समान दृष्टि डाली; पर वह निर्लस रही । काम वह करती है; पर उसका फल वह नहीं चाहती । गीता के निष्काम कर्मयोगी को वह मूर्तिमती सत्ता है ।

तब क्या मा अपने को सुनाकर कहती है । वहू को उसे बड़ी चाह थी । बड़े बड़े अरमान लेकर उसने निशिकान्त का विवाह किया था । नहीं, वहू आज जायेगी । वह जानती है, जाना आरज़ी है । दस-पन्द्रह दिन या दो-तीन महीने में फिर निशिकान्त जायेगा और वहू को ले आयेगा । परन्तु जाने में विदाई है और विदाई में पीड़ा । वही पीड़ा उसे कसकती है तभी वह कहती है— वहू आज जायेगी । मानो कहकर मन को जरा हलका करती है । दुःख को कह देने से सज्जन्य पीड़ा कम हो जाती है । फिर भी मा ने कहा तो कान्त ने भी सुना, सुनकर जी धक् धक् कर उठा

‘शरे !’— उसने तर्क किया— यह क्या है ? और मतो उसके मन के साथ समस्त शरीर ने भी कहा— यह क्या है ? इस रजनी को विवाह के पहिले मँने जाना भी नहीं । एक ही दिन में इतना खिंचाव कि जाने का नाम सुनते ही जी कटता है ! नहीं । यह नहीं होगा । यह अनजान लड़की मेरी पत्नी है मुझ पर शासन करेगी । ऊफ ! कैसा बन्धन है यह । जो परिचित हैं, प्रेम करते हैं । उनका अधिकार ही नहीं... और उसने कहा— मा थो मा !

मा जा रही थी, रुकी— कहे !

‘मैं आज जाऊँगा ।’

‘आज ? क्यों रे ?’

‘अभी याद आया एक ज़रूरी काम है । न जाने से हर्ज होगा मा !’
उसने कह दिया तो मा क्या रोकेगी । विवाह के इतने भरे, पूरे घर में निशिकान्त बहू के जाने से पहिले ही जायेगा, यह बात अनोखी होकर भी होगी । तभी मा ‘अच्छा’ कहकर चली गई । मानो विधि का विधान ही ऐसा था, यह उसने माना और मानकर सन्तोष कर लिया ।

वस बहू के जाने से पहिले ही निशिकान्त का तौंगा आ गया । तब न जाने क्यों उसकी आँखें इधर-उधर भटक पड़ीं । सहसा एक कोने में जाकर के टिटक गई । सहमकर वह तौंगेवाले से बोला— जल्दी करो, भाई !

तौंगेवाला घोड़े को टिटकारी देकर बोला— शाबाश खिलाड़ी !

तौंगा चला । निशिकान्त की आँखें फिर चुम्बक की तरह खिंच चलीं । उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी आँसू भरी आँखें । उनमें एक अत्यक्त आग्रह और तीव्र विपादमय उलहना मानो कहती हैं— जाते समय मुझ से मिले भी नहीं ?

निशिकान्त ने यह सब पढ़ा और चिहुँक-सा पड़ा— ऊँहूँ, तुम मरी लगती ही क्या हो जो मैं विदा माँगता । एक ही दिन में इतना अधिकार !

क्षण बीता मानो कल्प बीता ! आँखें फिर मिलीं । रजनी अब मुस्कराई, निशिकान्त भी खिल उठा । एक नशा-सा उस पर छा गया, एक तीव्र गति से दौड़ने लगा ।

उसने कहा— मैं अब जा रहा हूँ, रानी ! शीघ्र ही लेने जाऊँगा । अच्छा...। तौंगा काफी दूर निकल गया । निशिकान्त चौक-सा पड़ा— जा रहा हूँ । जाऊँगा । ज़रूर जाऊँगा । कौन रोकेगा मुझे ?

जैसे भयंकर स्वप्न से जागा हो— मैं ‘मैं’ हूँ ।

×

×

×

×

निशिकान्त लौट आया । कमला ने भी सुना— निशिकान्त विवाह करके लौट आया है । सुन लिया और सुनकर ऐसे माना कि सुना नहीं; पर जो शब्द थे वे छाती के भीतर ही भीतर जम बैठे । जब भी वह झकेली होती या उसी पुराने मार्ग से घर लौटती तो चुपके-चुपके कोई कहता— निशिकान्त आगया है । वह टिठक जाती, देखती— बाग से निकल कर नाला उसी तरह बहा चला जा रहा है । घास उसी तरह फैली है । वृत्त मानो दुनिया को भूले वहीं के वहीं खड़े हैं । उनसे छुन-छुनकर सूरज का प्रकाश घास के उपर बिखर पड़ा है मानो तप्त सूर्यदेव उस हरियाली में अचना खोया हुआ जीवन दूँदू रहे हों । और ऐसे ही देखते-देखते एक दिन कमला चौंकती है— कान्त, अरे कान्त ! तुम कहाँ थे अब तक ? लेकिन कान्त कहाँ था । माली था । बोला—बिटिया ! कई दिन हो गये, कान्त बाबू नहीं देखे ।

कमला चिढ़-सी आई मैं क्या जानूँ ? कहाँ गये ? नौकरानी तो हूँ नहीं, जो खबर रखूँ । और जल्दी-जल्दी बढ़ चली ! माली भाँचक-सा वहीं का वहीं खड़ा रहा— यह क्या हुआ ?

×

×

×

आखिर कई दिन बाद एक संख्या को निशिकान्त वहीं आया । माली ने देखा तो खुशी से भर उठा— अरे बाबू कहाँ थे आप ?

‘घर गया था, भाई ।’

‘अच्छे हैं न सब !’

‘हाँ, सब ठीक है ।’

और फिर कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे । पहिले निशिकान्त ही बोला— कमला यहीं है रे ?

कमला— माली जैसे कुछ सोचता है— हाँ बाबू, कमला यहीं हैं; वे कह रही थीं.....

निशिकान्त बीच ही में बोल उठा— क्या कह रही थीं रे ?

‘यही कि मैं क्या उनकी नौकरानी हूँ, जो खबर रखूँ ?

‘हाँ हाँ। कहते कहते निशिकान्त ने वह कहकहा लगाया कि दूर-दूर वायुमण्डल में गूँज उठा ।

तभी आ गई कमला ।

‘कमला !’

माली चला गया ।

निशिकान्त चुप है, उसे शब्द नहीं मिलते, कमला से वह क्या कहे । भानो जितना अधिक वे बोलते थे, उतनी ही गम्भीरता अब छा रही है । कमला भी चुप है, क्योंकि उसे बहुत कुछ कहना है । पहिले वह क्या कहे, यही निर्णय वह कर नहीं पाती । नदी की भाँति छाती के भीतर भँवर उठते हैं; पर बाहर से शान्त है.....

आखिर निशिकान्त बोला— काम अधिक था, इसी से आ न सका ?

‘हूँ !’— कहकर कमला मुस्करा-सी आई ।

निशिकान्त फिर चुप ।

अब कमला की वारी थी— अच्छा यह तो कहे बिवाह हुआ ?

‘हाँ !’

‘बहू देखी ?’

‘हाँ !’

‘पढ़ी-लिखी है ?’

‘सुना है वह है ।’

‘मिले थे ?’

‘हाँ !’

‘सुन्दर है ?’

‘नहीं जानता ।’

‘क्या कहते हो ?’

निशिकान्त चुप है ।

कमला बोली— बहू को देखा है, बातें भी की हैं, पर जानते नहीं कि वह सुन्दर है या नहीं । क्या अन्धे थे ?

‘अन्धा— विलकुल अन्धा, कमला । नहीं तो कैसे एक अनजान लड़की को बाँध लाता ।’

कहकर निशिकान्त फिर अट्टहास कर उठा । और उसी हँसी में मानो उनका सब संकोच बह गया । कमला भी हँस पड़ी । बोली— कोई चिट्ठी आई है ?

‘आई है ।’

‘क्या लिखा है, बता सकोगे ?’

‘क्या लिखा है ? इतना लिखा है, कमला ! कि समझ नहीं पड़ता ।’ पृच्छती है— ‘सच बताइये, आप मेरे क्या लगते हैं ? क्या मेरे कोई आत्मीय हैं । मुझे बड़ा विचित्र-सा जान पड़ता है, यह क्या हो गया ?’

‘सच ! ऐसा लिखा है !’

सच कमला ! अन्त में लिखती है— कहने को बहुत कुछ है; पर न जाने क्यों हाथ काँपता है । वक्षस्थल दबा जाता है । आह !— ना कोई प्रेम का रोग लगाये !”

कमला चुप है..... ।

निशिकान्त भी चुप होकर कमला को देखता है, फिर नजर बुझाकर बागीचे में देखता है— तालाब के उत्तरी किनारे पर जो चबूतरा है, उस पर चन्द्रमा ने चाँदनी बिछा दी है ।

और स्वयं पानी के बीच में स्थिर है..... ।

लौटकर फिर कमला को देखता है । कमला उसे बड़ी सुन्दर जान पड़ती है, अनन्त लावण्यवती । स्तिर का पल्ला खिसक कर कन्धे पर अटक रहा है । उसके खुले हुए केश उनके परले से होकर आगे की ओर बिखर आये हैं । और

वह खड़ी है, बहुत गम्भीर, बहुत गहरे तल में डूबी डूबी । पर कहीं डूवती-उतराती नहीं, स्थिर, शान्त है । सहसा कान्त उसके समीप बढ़ जाता है और सारी कोमलता बटोरकर कहता है— कमला ?.....

कमला चौंक पड़ती है ।

‘चौंक पड़ी कमला । क्या सोच रही थी ?’

‘कुछ नहीं निशिकान्त !’— कमला मानो गहरी निद्रा से जागी । बोली— तुम बड़े भाग्य-शाली हो, निशिकान्त !

‘मैं ।’

‘हाँ, निशिकान्त । सच कहती हूँ, बड़े भाग्य से ऐसी बहू मिलती है । बधाई !’— और कहकर फिर किसी गम्भीर भाव में डूब जाती है । निशिकान्त भी ठिठक कर कुछ सोचने लगता है ...

सन्ध्या का गहरा अँधेरा और गहरा होता जाता है । वृक्ष उसमें छिप चलते हैं । कभी कभी हवा के छू जाने से इधर-उधर विखरे हुए पत्ते और अस्तव्यस्त हो जाते हैं । पानी हिलकर भिलभिल-भिलभिल करता है । आस्मान का चाँद किसी बड़ी-सी पहाड़ी के पीछे छिप गया है । दूर, बहुत दूर छत पर लालटैन का प्रकाश चमक पड़ता है !

और वहाँ उसी अँधेरे में, टिमटिमाते तारों से भरे हुए आस्मान के नीचे खड़े हैं निशिकान्त और कमला, चुपचाप कहीं दूर तारों के देश की रात सोचते सोचते ।

निशिकान्त के भीतर ही भीतर एक चौकोर प्रश्न उठता है— कमला !!

कमला का मन भी प्रत्येक तारे में देखता है— कान्त !!

दोनों जानते हैं— यह है क्या ? रजनी ने भी पूछा था— यह हुआ क्या ? कमला भी कहती है— अब होगा क्या ? मानो सारे मानव किसी अदृष्ट के सहारे बड़े चले जा रहे हैं और प्रत्येक पग पर प्रश्न कर बैठते हैं— यह है क्या ? यह होगा क्या ? और समाधान नहीं कर पाते ! पाते हैं तो एक प्रश्न के भीतर अनेक और प्रश्न या उर्सों की पुनरुक्ति ?

आलोक प्रकाशन

दोनों कुछ कहने को उतावले हैं । मन में कहते भी हैं; पर बाहर कुछ नहीं होता । बस घिमूढ़-से शान्त, केवल शान्त हैं ।

आखिर कमला कहती है— (निशिकान्त के नज़दीक खूब नज़दीक आकर यानी सटकर) जाऊँ ?

निशिकान्त चौंककर कहता है— चलो ।

और तभी वह कमला के हाथ से छू जाता है । बिजली काँध जाती है । सिर से पैर तक वह हिल उठता है— कमला ! कमला !!.....

कमला भयंकर वेग से काँपकर आगे बढ़ खली पर सामने का वृक्ष उसने देखा नहीं । उसी से जा टकराई— ओह.....

क्या हुआ, कमला ! चोट लग गई.....?

और बढ़कर कमला को थाम लेता है । सिर पकड़े-पकड़े कमला उसके कंधे से निपक जाती है..... ।

और...

‘कमला.....!’

कमला उसी तरह स्थिर है । उसके शरीर में बिजली की लहर पर लहर दौड़ रही है । अरे ! कितना आनन्द है यह ? स्वर्गीय...

तभी मन में कोई कहता है— ना कोई प्रेम का राग लगाये !

निशिकान्त चौंकता है— रजनी...!

और दूसरे ही क्षण ग्लानी लज्जा से भर वह खलता है । एक दम कमला को परे धकेलकर कहता है— कमला ! कमला !! तुमने यह क्या किया... ?

कमला वृक्ष को पकड़कर काँप-काँप आई— मैंने फान्त... ?

‘हाँ ! कमला तुम नहीं जानती मैं अब, मैं अब... !’

और वह भागा, पीछे फिरकर देखा भी नहीं । तेज, खूब तेज दौड़ता-दौड़ता घर आ गया । अन्दर तक भागता रहा । खाट के पास आकर रुका तो सुना कोई कमला के स्वर में कहता है— जानते हो निशिकान्त मैं तुम्हें कितना

चाहती हूँ ?

वह बोला - नहीं । कमला में अब विवाहित हूँ । मैं क्या करूँ ? और वह एकदम चादर तानकर लेट जाता है । जैसे समूची दुनियां उसके पीछे दौड़ रही है और वह उससे बचकर कहीं छिप जाना चाहता है । चादर के भीतर उसका दम घुटता है, पर मुहँ भी नहीं खोलता ; अपितु चारों चरफ से चादर के फल्ले अपने नाँचे दबा लेता है ।

छाती के भित्तर



निश्चिन्त मेरे पुराने मित्र हैं । वे देवता हैं । दुनिया उनका आदर करती है । परसों उनका एक पत्र आया था । उसी के कुछ आवश्यक अंग उनकी आज्ञानुसार प्रकाशित करता हूँ ।

आपका 'याज्ञिक'

'...आज एक बात मन में उठी है । उसे तुमसे कह देना चाहता हूँ । सच तो यह है, वह बात मेरी नहीं है, मन की है । उसी ने आज मुझे सुझाया है कि उसकी बात में जग पर प्रगट कर दूँ । यह बात मैं तीसरे व्यक्ति के रूप में लिख सकता था । बहुधा ये बातें ऐसे ही लिखी भी जाती हैं, जिन्हें तुम शायद कहानी कहते हो । यह भी एक सुन्दर कहानी हो सकती है, पर सोचता हूँ मन की बात कहानी से कुछ बढ़ कर होती है । इसी से प्रार्थना है, इस बात को इसी अकार प्रकाशित कर देना ।

मैं जानता हूँ, इस बात में जिन व्यक्तियों का चिक्र आयेगा, वे अभी इसी दुनिया में हैं । वे अगर कहीं इस घटना को पढ़ लें तो मुझे क्षमा कर दें ; क्योंकि यह उनकी बात नहीं, न मेरी ही है ; बल्कि मेरे मन की है । मेरे मित्र-बंधु भी यहीं सोच कर मुझ पर क्रोध न करें । मैं जानता हूँ, वे कहेंगे अवश्य — 'अरे ! जिसे हमने देवता समझा था, वह तो राक्षस निकला ।' लेकिन मैं क्या करूँ ? मैं तो देवता हूँ, पर मेरे अंदर जो राक्षस छिपा बैठा है, उसे मेरा देवता पराजित नहीं कर सकत । और देवताओं ने राक्षसों को पराजित ही कब किया है ? सच तो यह है कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर ही मानव-जीवन की सृष्टि करते हैं । यही सोचकर मैं डरना नहीं । मेरा

विष्णु

देवतापन सब पर प्रगट है, आज रात्तसपन भी प्रकट होगा, यह जानकर मुझे खुरी है और मैं मन का कृतज्ञ हूँ ।

तुम जानते हो जब अनेक कठिनाइयों के बाद मेरा विवाह हुआ था, मुझे कितनी बधाइयाँ मिली थीं । मित्रों ने कहा था—निश्चिन्त ! ऐसी सुशिक्षित और सम्भ्रम्य स्त्री तुमने पाई, तुम भाग्यशाली हो !

मैं हँस कर रह गया । मेरी हँसी से मेरे मित्रों ने समझा था, मैं कितना खुश हूँ । और मैं खुश था भी, परन्तु एक दिन मेरा मन मुझसे कहने लगा— तुम खुश होंगे ही, लेकिन तुम्हारा भाग्य फूटा है ।

मैंने कहा—क्यों रे !

वह बोला—तुम्हारी स्त्री सुशिक्षित है, परन्तु तुमने उसका रूप देखा है ? क्या वह नारी का रूप है ? क्या वह तुम्हारे योग्य है ?

बात मुझे ठीक तो लगी लेकिन मैंने हँस कर कहा—रूप दो दिन की शोभा है । मुझे उसकी चिंता नहीं । मैं हृदय की सुन्दरता का उपासक हूँ ।

क्रुद्ध होकर वह बोला—तुम झूठे हो ?

‘ ज़ै ! ’

‘ हाँ तुम... ! ’

मैंने कहा— तुम ऐसी बात क्यों कहते हो ! मैंने कब कहा कि मैं रूपवती स्त्री चाहता हूँ । मैंने विज्ञापन में भी रूप का जिक्र तक नहीं किया था । मैं सदा अपने मित्रों और सम्बन्धियों से यही कहता था कि मैं शरीर की सुन्दरता से बढ़ कर मन की सुन्दरता चाहता हूँ ।

वह बोला—तुम ठीक कहते हो । लेकिन तुमने यह सब बातें इसीलिए कही थीं कि तुम रूप के उपासक थे । तुम्हारे अन्दर रूप की आस समक रही थी और तुम उसे प्रकट करना नहीं चाहते थे । यदि तुम शरीर की सुन्दरता के प्रति उदासीन होते तो कभी उसका जिक्र ही न करते । किसी बात से बार-बार इन्कार करने का मतलब तो

यह है, तुम उसके बिना जी भो नहीं सकते ?

मैंने कहा - लेकिन...

बीच में रोक कर वह बोला — मैं जानता हूँ, तुम क्या कहोगे ! परन्तु मेरी बात तुम सुन लो । मैं प्रमाण देकर अपनी बात की पुष्टि करूँगा । अनेक लोग हाथ जोड़कर तुम्हारे पास दौड़े आते थे, प्रार्थना करते थे कि तुम उनकी लड़की का हाथ धामकर उन्हें मुक्ति दो । उधर तुम उनकी करुणा-भरी दृष्टि की उपेक्षा करते थे । तुम कहते थे - अभी विवाह नहीं करूँगा । मुझे आप क्षमा कर दें ।' तुम जानते हो यह क्षमा उन अभागी लड़कियों के अभागे पिताश्यों पर कितनी चोट करती थी !

मैंने कहना चाहा - लेकिन मैं सचमुच ही विवाह करना नहीं चाहता था । मैं क्या करता ? क्यों वे लोग मेरे पीछे पड़े थे ? क्यों नहीं साहस करके वे कह देते कि लड़की हमारे घर है जब कोई योग्य लड़का आकर हमसे कहेगा तभी हम विवाह करेंगे ?

मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा—तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करूँगा, परन्तु निश्चिन्त ! बात ऐसी नहीं थी । दुनिया तुम्हें पूजती है । तुम जान-बूझ कर बुरा काम भी नहीं करते, लेकिन.....

‘लेकिन क्या’—मैं उतावला-सा बोल उठा ।

‘लेकिन यही कि उस दिन जब तुम दफ्तर से लौट आये थे, तुम्हारी मा ने तुमसे कहा था—तू पढ़ी लिखी लड़की चाहता है । वह लड़की पढ़ी-लिखी है । अंग्रेजी की दसवीं कक्षा पास है और हिन्दी की प्रभाकर । घर का काम जानती है । सीधी ऐसी है, जमीन में दृष्टि गड़ा देती है... ।’

‘और कहते हैं बड़ी सुन्दर है मानो देवी का रूप ।

‘ हूँ । ’ — तुमने कहा था ।

और मैंने कहा - और तुमने अंत में इसी लड़की से विवाह करने का वचन दिया था । आज यही लड़की तुम्हारी पत्नी है । यही लड़की है, जिसके कारण तुम्हें बधाई पर बधाई मिल रही है, लेकिन...

मैं जैसे काँप गया । एक सिहरन सिर से पैर तक दौड़ गई । मैंने कहा, यह

तुम हो जिसने आग लगाई है । यह तुम ही हो, जिसने मेरा जीवन पापमय और कलंकमय बना डाला है...

और मैं न जाने क्यों फुस-फुस कर उठा, ' देवी का रूप ।'

मुझे याद आया जब पहली बार मैंने अपनी पत्नी को देखा तो जैसे मैं चौंक उठा था—देवी का रूप...

लेकिन मैंने कहा न कि मैं प्रगट में रूप का उपासक नहीं था । वह तो मन था, इसी कारण मैं भीतर ही भीतर जलकर ऊपर से शांत बना रहा । परन्तु न जाने कैसे मेरी पत्नी ने यह बात समझली । एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम चाहते थे तुम्हें कोई सुन्दर स्त्री मिलती ।

मैंने हंस कर कहा—किसने कहा तुमसे ऐसा ?

वह मुस्करा कर बोली—मैं जानती हूँ ।

मैंने कहा— ' नहीं, नहीं ! मेरे लिए जो भी हो तुम । तुमसे बढ़कर सुन्दर कौन हो सकता है ? शरीर की सुन्दरता भी क्या सुन्दरता है ? सुन्दरता तो हृदय की वस्तु होती है, वह तुम्हें मिली है ।

मेरी पत्नी की आँखों में कृतज्ञता उमड़ आई । मेरे पास या कहीं मेरे भीतर सिमटती-सिमटती वह बोली—सच कहते हो ?

' सच ।'

' तुम देवता हो !'

और कहते-कहते उसने चरण छू लिये । मैं हिल उठा । छाती के भीतर से कोई बोला — ' झूठे कहीं के ' । लेकिन यह आवाज इतनी पतली थी कि मैं ठीक-ठीक सुन न सका और पत्नी के प्रेम की पाकर गदगद हो उठा ।

ठीक उसी समय मेरे एक मित्र आ पहुँचे थे । पत्नी चली गई थी । उन मित्र की शादी अभी हुई थी । मैंने उनसे पूछा—कहिये विवाह कुशल से हुआ न ?

' आपकी कृपा से आनंद ही है ।'

' पत्नी कैसी है ? इच्छानुसार है न ?'

‘हाँ’ इसी साल मैट्रिक किया है।’

‘सुन्दर है?’

‘हाँ।’

‘तब तो सुवारिकबाद देना चाहिये।’

वे खिलखिला पड़े। बोले— भाइयों! पत्नी ठीक मिलती है तो जीवन बन जाता है। मुझे खुरी है। मुझे अपने जीवन का साथी मिला है। वे सभी लोग सुशिक्षित, सम्य और प्रतिष्ठित हैं। पैसा भी काफी है।

‘अच्छा’ — मैं कहता-कहता मुस्करा उठा। तभी न जाने अंदर से किसी ने कहा — सुनते हो कितना भाग्यवान् है यह! एक तुम हो जो रूप की देवी के भुलावे में बड़े बड़े घरों को ठुकरा चुके हो।

मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मित्र से बहुत देर तक घुल-घुलकर बातें करता रहा। बातों ही बातों में पता लगा कि प्रांत में अनेक प्रसिद्ध नेताओं के सन्देश उनके विवाह पर आये थे। प्रसिद्ध पत्रों में उनके नाम छपे थे। विवाह के ठीक बाद ही वे मंसूरी पर्वत पर चले गये और विवाह उनका पूर्ण आधुनिक रीति से हुआ था इत्यादि इत्यादि।

मैं सुनता रहा और खूब हँसता रहा। मैं जान रहा था कि मन बैठता जा रहा है। उनके हरेक शब्द पर मेरा मन कह उठता है, ‘और तुम्हारा विवाह?’

खैर, खुशी-खुशी मित्र विदा हुए और मैं अपनी खुशी भूल कर पत्नी से बोला— रजनी! मुनो मैं अभी जाऊँगा। जल्दी भोजन बनाओ, देर मत करो। तुम रोज देर कर देती हो।

मेरी पत्नी ने कहा — अभी बनाती हूँ जी, आप स्नान कर लीजिये। लेकिन उस दिन मैं स्नान भी न कर सका और जब दफ्तर पहुँचा तो एक घंटा देर हो चुकी थी परन्तु उसके तीसरे दिन ही मैंने मित्र की पत्नी को देखा। उसका रङ्ग साँवला था। चेहरा भी सुन्दर नहीं था। मैं न जाने क्यों गद्गद हो उठा। न जाने क्यों ?

×

×

×

यात्रिक ! आरम्भ की यह बात मैंने इसलिये कही कि तुम उस घटना को समझ लो जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ । इसके बाद तो यह क्रम था ही कि मैं अपने मित्रों और सम्बन्धियों के विवाह के समाचार सुनता और सुनकर समझ लेता कि उनकी पत्नियाँ सभ्य, सुशिक्षित और रूप की देवी हैं । न जाने तब दिल में क्यों हूक-सी उठती ! वधाई देता-देता मैं अट्टहास कर उठता । कभी अपने मित्रों को पत्नी का हाथ पकड़े बाहर घूमते देखता तो सोचता कितने भाग्यशाली हैं ये लोग ! मुझे याद है, एक दिन मेरी पत्नी भी पास आई थी । कहा था — घूमने चलो ।

मैं बोला—तुम जा सकती हो । मित्रा को साथ ले लो । वह न जावे तो सुमंत को पुकार लो । पास आकर करुणामरी वाणी से वह बोली—तुम चलो ।

‘मैं !’

‘हाँ जी !’

मैंने कहा—मैं बहुत तेज चलता हूँ और दूर जाता भी हूँ । तुम मेरे साथ निभ न सकोगी । वह जैसे मन मारकर लौट चली । मैंने पुकारा — अरे तुनो ! मैं शहर के बाहर तुम्हें मिलूंगा, अच्छा !

और पत्नी अकेले ही सँर करने जाती रही । मुझे याद नहीं कभी भी मैं उसें अपने साथ लेकर घूमने गया हूँ । इसके विरुद्ध जब मेरी पत्नी अपने भायके गई हुई थी , मुझे एक अद्भुत बात मालूम हुई । प्रतिदिन प्रातः और संध्या को मैं सुनता कि तारवाला मुझे आवाज देता है — जावू जी ! आपका तार है ।

उस दिन भी ऐसा ही हुआ । मैं बैठा था कि तारवाले ने आकर कहा — जावू जी ! आपका तार आया है !

‘मेरा !’

‘जी हाँ ! निशिकान्त आप ही हैं ?’

‘मैं ही हूँ’—और तार लेकर पड़ा । उसमें लिखा था — कल रात दिल की धड़कन बंद होने से रजनी की मृत्यु हो गई, शोक !

मैं काँप उठा । हृदय धक-धक कर उठा । तार हाथ से गिर पड़ा और लगा

जैसे मेरी संज्ञा लुप्त हो गई। मैंने जाना मेरा सपन कुछ लुप्त गया। मैंने घबरा कर पूछा—क्या है रे !

‘रजनी मर गई !’

वह चीख उठी — क्या.....

‘सच’ और फिर घर में एक कुहराम मच गया।

भा रोते-रोते पागल हो गई और फिर संतोष करके सुप हो गई। मित्र और सम्बंधी शोक प्रकट करने आये और चले गये। धीरे-धीरे दिन बोलते और शोक नष्ट हो गया। उसके स्थान पर एक और नई समस्या पैदा हो गई। मेरे हितकारी बन्धु आये और बोले — ‘निशिकान्त हुआ तो बुरा, पर अब भूल जाओ और घर बसाने की चिन्ता करो।’ मैं आदर्शवादी था। मुझे चोट लगी। मैंने कहा — क्या कहते हो ? मैं अब विवाह करूँ ! करना ही होगा मझ्या— वे बोले।

‘मैं नहीं करूँगा’ — मैं बोला।

और वे निरुत्तर होकर चले गये। पर दुनिया का नियम था। वे गये और अनेक आये। अंत में एक दिन मुझे अपने विचार में संशोधन करना पड़ा कि मैं विवाह कर सकता हूँ, परन्तु विधवा से करूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ, विवाह जीवन में एक ही बार होता है। दूसरी बार विवाह नहीं होता, अपितु आपतकाल की रक्षा मात्र है।

मुझे याद है, बहुत विरोध और दुख के बाद मेरी बात मान ली गई थी। और यह भी जानता हूँ एक अनंत सौंदर्यसयी अज्ञतयौनि विधवा से मेरा विवाह हुआ। विवाह से पहले मैंने उस प्रभा नाम की विधवा से मुलाकात की। अपने भात्री उद्देश्यों का परिचय कराया। प्रेम, कर्तव्य, सेना आदि अनेक विषयों पर एक लम्बा व्याख्यान दिया। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने उससे साफ कह दिया था — मैं तुम्हारे रूप के कारण नहीं, बल्कि गुणों के कारण तुमसे विवाह कर रहा हूँ।

प्रभा कृत-कृत्य हुई।

विवाह के बाद वही बधाइयों का तार-सा बंध गया । विवाह क्या था सामाजिक क्रान्ति थी । नेताओं के बिना माँगे संदेश मिले । पत्रों में इतने चित्र छपे कि मेरा कमरा उन चित्रों से भर गया और साथ ही हर्ष से मेरा हृदय भी । छाती खुशी से निरन्तर धक-धक करने लगी । किसी ने कहा— प्रभा के सामने रजनी का क्या मूल्य था ? वह कूड़ा थी, यह रत्न है ।

मैंने कहा— -छी ! छी ! क्या बकते हो ?

लेकिन उसकी बात ठीक थी । पहली ही संध्या को जब प्रभा मेरे पास आई, बोली — घूमने चलोगे ?

मैंने हंसकर कहा—चलो, चलो !

वह तैयार हो कर लौट आई । उस समय वह बड़ी सुदृन् लग रही थी । उसकी रेशम की नीली साड़ी, लाल जम्पर, पीठ पर लम्बे बाल और कानों में लटकते लम्बे मत्स्याकार कर्णफूल और सबसे बड़कर उसकी मदमाती मुस्कराहट । मैंने प्रफुल्लित होकर कहा—प्रिये ! तुम बड़ी सुन्दर हो !

वह मुस्करा उठी और दोनों सैर करने चले गये । मैंने देखा — रास्ते में चलने वाले हमें देख रहे थे । जो दुकानों पर बैठे थे, वे भी एक छिपी नज़र उधर डाल लेते थे । ऊपर खिड़की में से भी कई हसरत भरी, कौतूहल भरी दृष्टियाँ हम पर पड़ जाती थीं । कभी कोई गुण्डा गुन-गुन कर उठता, पर तु हम तो सब ओर से भूले घुल-घुल कर वारों करते चले जा रहे थे । हाँ, मैं कभी गर्व से आँख उठाकर इधर-उधर देख लेता था... ।

ठीक इसी समय कोई पुकार उठा— निशिकान्त ?

मैं चौंक उठा । ऐसा मालूम हुआ, किसी ने मुझे स्वर्ग-कानन से नीचे धकेल दिया और मैं उल्टे मुँह पृथ्वी पर आ पड़ा हूँ । मैंने आँखें मल कर देखा — प्रभा न जाने कहाँ चली गई; उसके साथ सौंदर्य, सौंदर्य का प्रदर्शन, प्रेम की मधुर कल्पना सब नष्ट हो गई । जैसा कि मैंने देखा, मैं अपने पलंग पर बैठा था । इधर उधर पुस्तकें बिखरी थीं और खुले कागज हवा में उड़ रहे थे, हठात् मेरा दिल बैठ गया और मैं चिल्ला उठा—कौन है ?

मा ऊपर आ रही थी। बोली— स्तनप्रकाश का आदमी आया था।

‘क्यों ?’—मैंने कहा।

स्टेशन पर हिंदू-मुसलमानों की लड़ाई हो गई है। पाँच आदमी मर चुके हैं।’

‘कब हुआ मा ?’ मैं चौंक उठा।

‘कहते हैं अभी-अभी दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। एक हिंदू और दूसरा मुसलमान था। उस बात की बात में आपस में दंगा इतना बढ़ा हो गया कि खून की नदी बह उठी—कहती-कहती मा कांप गई। फिर एक पत्र मुझे दिया और बोली— यह चिट्ठी आई है।’

मैंने उत्सुकता से चिट्ठी लेकर खोली। वह रजनी की थी, लिखा था—मेरा जी यहाँ नहीं लगा। कल (यानी आज) आपकी सेवा में पहुँच रही हूँ—इत्यादि...

हटात् मैंने सोचा—आज आ रही है। और सोचकर मैं काँप उठा।

मा बोली—क्या लिखा है ?

‘आज वह आ रही है।’

‘आज ! गड़बड़ तो अभी आने वाली है। अब क्या होगा रे ?’ और मा पागल-सी काँप उठी। उसकी आँखों में आँसू भर आये...

मैंने कहा—मैं जाऊंगा।

वह बोली—तू कैसे जायेगा... ?

‘तब ?’

‘कैसे कहूँ ?’... मा हतभागनी-सी खड़ी की खड़ी रही। फिर सहसा बोल उठी— खड़ोस में फोन है। तू स्टेशन पर फोन कर दे।

‘स्टेशन पर फोन नहीं है।’

‘नहीं है !’

मा फिर खूब हो गई। मैंने बुपचाप कपड़े पहने और लाठी उठाकर चल पड़ा।

मा चौंक पड़ी—कहाँ जायेगा ?

‘किस्ती को देखता हूँ।’

और किसी तरह मा कौं समझा कर मैं बाहर आया । चारों तरफ सन्नाटा था । कभी-कभी कोई आदमी चला जाता था । भगड़ा शहर के अंदर नहीं था, परन्तु उसका प्रभाव प्रत्यक्ष था और लोग चुपचाप भय की प्रतिमा बने फुस-फुस करते और आगे बढ़ जाते । मैं भी आगे बढ़ा, परन्तु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता, त्यों-त्यों सन्नाटा बढ़ता जा रहा था । पुलिस दिखाई देने लगी थी । शहर के दरवाजे तक पहुँचते-पहुँचते उन्होंने मेरी लाठी रखवा ली ।

मैं भय से काँप उठा—अब ! और सहसा तभी मुझे ख्याल आया, मैं कैसे जा सकता हूँ ?

उसी समय मन ने कहा— पगले हो ! जानबूझ कर आगे में कूदते हो !

‘लेकिन रजनी ?’

‘अरे तुम भी बोले हो, उसे स्टेशन से आने कौन देगा ?’

‘लेकिन वह स्त्री है, रोगिणी शायद...!’

वह हंस पड़ा—मुख हो । ऐसे भी कोई मारता है और फिर मर भी जाय ती ? क्या है ? उसे मर ही जाना चाहिये ।

मैं काँपा—उसे मर जाना चाहिये...!

‘हाँ’—किसी ने मुझ से कहा—इसमें बढ़कर सुंदर अक्सर और क्या होगा ?

मेरी अवस्था उस समय विचित्र हो रही थी । मैं क्षण भर में क्रोध से काँप उठता था और क्षण भर में मुझ पर लज्जा छा जाती थी । मैं जान रहा था कि मेरा चेहरा फीका पड़ रहा है और मेरी आँखें बाहर निकली पड़ती हैं । मैंने चीख कर कहा— उसे आज आने को किसने कहा ? अपनी मूर्खता का परिणाम भोगे वह ! मैं क्या कहूँ.....

मैं लौट पड़ा । मैं तेज चल रहा था और विचारों का एक प्रवाह रौरव शब्द के साथ मस्तिष्क से हो कर बह रहा था ।

‘क्या हुआ ?’ माँ ने देखकर उतावली से पूछा ।

‘लड़ाई तेज है’—मैं हठात् बोल उठा ।

‘अब...’

प्रश्न मैंने भी दुहराया — अब ? पर उत्तर इतना विश्रंखल-सा था कि कॉप कर रह गया । मैंने इतना ही कहा—वह ऐसे समय आई ही क्यों ?

और ऊपर चला आया, लेकिन मैंने कमरे में प्रवेश भी नहीं किया था कि मा चिल्ला उठी—वे आ गये ।

मैं हठान् बोल उठा —कौन ?

और मेरी आँखों ने देखा कि उसी समय रजनी को आगे करके उसके बड़े भाई ने मोहले के दरवाजे में प्रवेश किया है और मां का चेहरा प्रकाश से खिल उठा है । लेकिन मेरी आँखें खुली की खुली रह गई । मैं लज्जा और ग्लानि से तड़फ उठा । मुझे लगा आकाश टूट कर पृथ्वी पर आ रहा है और कमरे की दीवारें पृथ्वी में थंस रही हैं । मैं उनसे दवा चला जा रहा हूँ—दवा चला जा रहा हूँ...लेकिन यह सब हुआ नहीं ! हुआ तो यही की रजनी आकर मेरे चरणों में इस प्रकार झुक गई मानो अब उठेगी नहीं ।

फण्डितजी



फण्डितजी का बदन गठा हुआ था और उनकी बड़ी-बड़ी आँखें सदा निराशा, क्लेश और अभिमान से उबलीं रहती थीं। वे मोटे-से-मोटा खदर पहनते थे और स्वभाव के महा भक्ती थे। मान्यताएँ भी उनकी बड़ी अजीब थीं। उनके नातेदार उनसे घबराते थे और पड़ोसी कच्ची फाटकर निकल जाते थे, परन्तु हरिजनों को उनसे बड़ा प्रेम था। उनके लिए वे नहाने और कपड़े धोने के साबुन चाँटा करते थे। रामायण के इतने प्रेमी थे कि प्रतिदिन सबेरे पाँच बजे से सात बजे तक तुलसी-दासजी की रामायण का परायण करते थे। खर—परमात्मा की कृपा से—गर्दभराग से होड़ लेता था, लेकिन वे मानते थे कि भगवान् खरकी चिन्ता नहीं करते, वे भाव के भूखे हैं। भगवान् भगवान् हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए उनके खरको लेकर मुझे कई बार उन्हें युद्ध की चुनौती देनी पड़ी थी।

वे मेरे एक दीयारके पड़ोसी थे, वस्तुतः मैं उन्हीं के मकान में रहता था। जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करता वे हारमोनियम पर—‘सियावर रामचन्द्र पद जयशरणम्’ का राग अलापने लगते थे।

सुरीला खर होता तो मैं संगीत के लोभ में उनके इस अत्याचार को सह जाता, परन्तु अब समस्या जटिल थी। वे नहीं माने और एक दिन नियमित वाक्युद्ध के बाद मैंने उनसे बोलना छोड़ दिया। तब वे यदि कहीं रास्ते में मिल जाते थे तो मैं कच्ची फाटकर निकल जाता था। लेकिन वे थे कि नहीं माने। तीसरा दिन आया तो छतपर से भाँककर बोले—

‘निशिकान्त ! इधर सुनो !’

मैं अचकचाया पर, बेवस था; जवाब दिया— जी।

—ये गांधी और नेहरू दोनों गद्दार हैं।

मेरी आँखें उठीं, देखा—उनकी आँखें क्रोध से तमतमा रही हैं।

मैं जान-बूझकर मुस्कराया, पूछा—क्या बात है।

‘बात क्या होती ? हमेशा च्यांगकाई-शेककी तारीफ करते हैं। वह अजबल नम्बर का बदमाश और अंग्रेजों का आदमी है और मैं कहता हूँ ये गांधी और नेहरू भी अंग्रेजों के जासूस हैं। असल में अंग्रेज चाणक्य हैं। पहले इन्होंने धर्म को बिगाड़ा। दयानन्द इन्हीं का टुकड़खोर था। कम्बस्तने हिन्दू धर्मका वह नाश किया कि पुनर्जीवित की कोई आशा नहीं है। अब राजनीतिको गन्दा करनेके लिए उन्होंने गांधी को भेजा है। मगवान् मेरा जाने, मैं सच कहता हूँ, लन्दन में बैठे हुए चर्चिल मेरे बारे में जानता है और कहाँ तक—उसके पास यह रिपोर्ट पहुँच जायेगी कि पण्डित नन्दराम, वावू निशिकान्त को हमारी असलियत समझा रहे थे आदि आदि……’।

और तब सदाकी भाँति वे आध घण्टा तक धारा-प्रवाह बोलते रहे। जब थक गये तो पूछा—तुम्हारी क्या राय है ? गांधी को तुम अब भी महात्मा मानते हो ?

मैं तब बात करनेके मूडमें नहीं था। सच तो यह है कि मैं उनसे बात करना चाहता ही नहीं था। इसलिए उनके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर न दे सका। नतीजा यह हुआ कि वे क्रोध से पागल हो उठे। उनकी बड़ी बड़ी आँखें आग उगलने लगीं। बोले—‘तुम्हें बातें करनेकी तमीज नहीं। एक शरीफ आदमी तुम्हारे पास आकर तुमसे प्रश्न करता है और तुम जवाब भी नहीं दे सकते ? मैं नहीं समझता था, तुम इतने असंस्कृत हो, नहीं तो……’।

‘नहीं तो……’। मैंने भी क्रुद्ध हो कर पूछा।

बस तब वे बिना बोले, क्रोधसे फुफकारते हुए धम-धम जीना उतर गये।

मैंने चिन्चिनाकर कहा—मौत भी नहीं आती कम्बस्तको। धसकी देता है, नहीं तो मकान में नहीं रहने देगा, यही न ? रहना ही क्या चाहता है। मैं कल ही इसका मकान छोड़ दूंगा।

लेकिन जैसे ही कल आया, मेरी दुनियामें अचानक एक तूफान उठ खड़ा

हुआ । उस दिन मेरे एक सम्बन्धीके घर मित्र-भोज था । उसीसे निपटकर मैं जब लौटा तो एक बज चुका था । इसलिये सबेरे सैर करनेके समय आँख नहीं खुली लेकिन अर्द्धनिद्रामें मैंने सुना कोई पुकार रहा है—बाबू निशिकान्त ! निशिकान्त बाबू !

क्रुद्ध होकर साँचा—पण्डितजी हैं । मरने दो ।

खर फिर तेज हुआ—बाबू निशिकान्त ! निशिकान्त बाबू !

बया मुसीबत है ! बकें जाओ । मैं नहीं जाऊँगा ।

खरकी तेजी क्रोध में पलटने लगी । सुना—बाबू साहब ! नीचे आइये..... ।

मैं चौंका—ये तो पण्डितजी नहीं हैं ।

आँखें खोलीं, देखा—अभी काफी अन्धेरे हैं । आसमानमें तारे टिमटिमा रहे हैं और नीचे से आवाज आरही है, 'बाबू साहब ! नीचे आइये.....' ।

अभी आता हूँ जी—मैंने उठते उठते कहा और साथ ही कौतूहलवश नीचे झाँका, जैसे नागराज सुंह फाड़े खड़े हों, काँप उठा, प्राण खिंचने लगे । नीचे मेरे घरके सामने लगभग दो दर्जन पुलिसवाले खड़े थे ।

पुलिस ! वपारे.....

शीघ्रतासे मैंने छोटे भाई को जगाया । सौभाग्य से मा घर गई हुई थी और हम अकेले थे । वह आँख मलता हुआ उठा । मैंने कहा—नीचे पुलिस है, शीघ्रता करो ।

पुलिस—वह चौंका ।

लेकिन मैं उत्तर देने को नहीं रुका । नीचे आकर किवाड़ खोले । सामने सी० आई० डी० का रिपोर्टर खड़ा था । बोला—आपकी तलाशी है ।

यन्त्रवन् मैंने उन्हें देखा और जणभर रुककर कहा—ले लीजिये ।

आप बाहर आजाइये, और लोग.....।

'केवल मेरा छोटा भाई है ।'

'बुला लीजिये ।'

हमें बाहर निकाल कर उन्होंने घरके ताला लगा दिया । उन्हें कहीं और

तलाशी लेने जाना था इसलिए ६ सिपाही और एक हवालदार को मेरी रखवाली के लिए छोड़कर चले गये । मैं उनके बीच में बैठ गया । मैं मान लूँ, उस समय जून का महीना था, पर मैं काँप रहा था । मेरे दाँत बार-बार वज उठते थे । सोचता था मुझे डर नहीं है, न गिरफ्तारीका, न नौकरी छूटने का, पर फिर भी काँप रहा था । एक क्षण के लिए मैं ग्लानिले भर आया— यह कैसे कायरता है ?

दूसरे ही क्षण मचमें कहा—कायरता ? नहीं मित्र ! यह कायरता नहीं है ।

फिर यह कम्पन क्यों है ?

गौरव के कारण ?

सोचकर मैं प्रसन्न हो उठा । तभी देखा—दिन अच्छी तरह चमक आया है और मोहल्लेके नरनारी अचरज से हमारी ओर देख रहे हैं मानों किसी ने आत्महत्या करली है । वे अचरज, भय और आशंकासे पूर्ण हैं । धड़कते हृदय से किवाड़ोंके बीचसे भाँकते हैं और फिर एक भटके के साथ पीछे हट जाते हैं । शायद वे सोचते हैं—निशिकान्त ने चोरी की है ।

निशिकान्त डाकू है । निशिकान्त क्रांतिकारी है.....।

कुछ क्षण बीते । पुरुषवर्ग कामपर जाने के लिए बाहर निकला । मैं उन सबको जानता था । उनमें मेरे मित्र थे, पर आज की इस घटना ने उस मित्रता का आवरण उतार दिया था । मैंने कौतूहल से देखा—कुछ बंधुओंने मेरे पास आते-जाते आँखें मींच ली हैं । कुछ भुंके और बोले—हवालदार साहब ! आदाब अर्ज, बन्दगी हुजूर ! उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया । उनका अपराध नहीं था । पुलिस पर जिसकी कृपा हो वह सम्य नागरिकोंकी घृणा का पात्र होता है । परन्तु इस समय मेरे कानोंमें एक चिरपरिचित स्वर गूँज उठा । कौतूहल से आँखें उठाकर देखा—छड़ी घुमाते, गरदन उठाये, और खड़ खड़ करते पश्चिमतजी सैर करके लौट आये हैं । उनकी आँखों में वही निराशाजन्य अभिमान भरा पड़ा है । मैंने चाहा मैं आँखें बन्द कर लूँ, पर वे तभी पुकार उठे—अरे निशिकान्त ! क्या है यह ?

मैंने बरबस मुस्कराकर कहा—नमस्ते !

छे बोले—नमस्ते ! क्या बात है ?

‘तलाशी होगी ।’

‘तुम्हारी?’

‘जी ।’

‘तुम्हारी तलाशी ? क्या कहते हो ? तुम तो सरकारी चौकीर हो ?’ और बस अग्नि प्रज्वलित हो उठी । हवालदारको सम्बोधित करके बोले—‘क्या बात है जी ? क्यों तलाशी लेते हो ? यह तो सरकारी चौकीर है । तुम्हारा भाई है । तलाशी लेनी है तो मेरी लो.....!’

और सहसा रुककर पूछा—‘कोई महकमेका भगड़ा है या राजनीतिक ।

शान्ति से हवालदारने कहा—‘राजनीतिक ।’

‘तो फिर मेरी तलाशी लो । मैं पच्चीस सालसे बागी हूँ । मेरी और कोई उंगली भी नहीं उठाता । भगवान् मेरा जाने, सरकार कैसी विचित्र है ? जो उसका सिर फोड़ते हैं उनसे वह काँपती है और जो उसको गुलामी करते हैं उनको तंग करती है ।’

अचरज कि हवालदार अब भी तेज नहीं हुआ । बोला—‘तालाशाहब ! हम तो हुकम के बन्दे हैं । सरकारने कहा तो चले आये हैं । हमें कुछ नहीं मालूम ।

‘भगवान् मेरा जाने, मैं सब कुछ जानता हूँ । तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम तो गुलाम हो.....!’

जैसे सहसा एक धक्का लगा हो तेज होकर बोले—‘और है क्यों नहीं । तुम गुलाम क्यों बने । क्या तुम नहीं जानते गुलामी सबसे बड़ा पाप है ? और मुझसे मुड़कर कहा—‘खड़े हो जाओ, क्यों बैठे हो ? क्या मौत हो गयी है ? क्या तुमने डाका डाला है ? उठो शौचादि जाओ । मैं तब तक दूध गर्म करता हूँ ।’

मैंने अब नम्रता से कहा—‘परिडतजी ! मैं ठीक हूँ, आप चिन्ता न करें ।’

परिडतजी तिलमिला उठे—‘तुम बुजदिल हो ।’

मुझे कोथ नहीं आया । हँसी आयी, उसे रोककर मैंने फिर नम्रतासे कहा—

‘नियम-विधान जो है, उसकी अवहेलना करना ठीक नहीं है।’

वे बोले—‘जो नियमोंके शुलभ हैं, वे ही ज्यादा वुजदिल है। भगवान् मेरा जाने, मुझे अचरज होता है, चालीस करोड़ इन्सान कैसे कुत्तों की तरह अंग्रेजोंके तलुये चाटते हैं।’

और फिर मड़कर हवलदारसे कहा—‘दिलोजी ! तुमने जो लाल पगड़ी बाँधी है, यह तो क्रांतिका रंग है, परन्तु तुम तो सफेद चमड़ेको देखते ही ठण्डे पड़ जाते हो...’।’

बातें आगे बढ़तीं, परन्तु तभी सी. आई. डी. के थानेदार लौट आये और तलाशी का काम शुरू हो गया। अन्दर जानेवालोंमें केवल चार आदमी थे—मैं, मेरा छोटा भाई और दोनों थानेदार। पण्डितजी इच्छा रहते भी न आ सके। मुझे डर लग रहा था, वे भड़क उठेंगे, परन्तु वे चुपचाप ऊपर चले गये और तन्मय होकर रामायणका पाठ करने लगे। उधर पुलिसके थानेदारने मेरी चूरनकी शीशियोंमें बस धनानेका मसाला ड्रूटना प्रारम्भ कर दिया। जब उन्होंने मंजनको चखकर देखा तो मैं अपनी हँसी न रोक सका। वे बोले—‘हँसिये नहीं। क्रांतिकारी लोग पीटासका मंजन किया करते हैं।’

और इस प्रकार उन्होंने आटा, दाल, चावल, घी, तेल सभीकी वैज्ञानिक रीतिसे परीक्षा की। वे लकड़ियों के ढेरमें पूरे एक घण्टा तक उलभे रहे। ऊपर मेरी लाइब्रेरी में भी उन्होंने पूरी दिलचस्पी ली। एक के बाद एक आलमारी, एकके बाद एक दरवाज उन्होंने खोली और मेरे चित्र, पुराने टिकटों तथा पत्रोंमें क्रांतिके घोषणापत्र ड्रूटने लगे। तभी सहसा मेरी डायरी उनके हाथ लग गयी। बोले—‘डायरी लिखते हो?’

‘जी।’

और खोलते-खोलते वे हर्षसे चिल्ला उठे—‘आखिर पकड़े गये।’

साथी ने पूछा—‘क्या है?’

उन्होंने पढ़ा—‘मरातसिंहको आज फाँसीपर लटक दिया गया है...’।’

‘धस?’

‘बस !’

साथी सुंह बनाकर बोले—‘कैवल समाचार है, कुछ नहीं बन सकता !’

पर वे हताश नहीं हुए पृष्ठा—‘क्या तुम्हारे पास चाँदका फाँसी अंक है ?’

‘जी नहीं !’

‘पब्लिशिंगजी के पास होगा !’

‘मैं नहीं जानता !’

‘आह ! तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ । वे क्रांतिकारी हैं और तुम्हारे मित्र भी !’

मुझे क्रोध आ गया । मैंने कहा—‘सुन नहीं रहे, वे रामायण का पाठ कर रहे हैं !’

‘क्रांतिकारी क्या ऐसे ही होते हैं ?’

‘बिलकुल ऐसे ही’—थानेदार मुस्कराकर बोले—‘मेरे कई क्रांतिकारी मित्र मन्दिर में पूजा किया करते थे !’

और फिर हँसकर बोले—‘आप भी तो आर्यसमाजी हैं !’

‘जी हाँ !’

‘और मैं भी हूँ !’

वे मुस्कराकर नम्रतासे बोल रहे थे और साथ ही साथ काम भी कर रहे थे । पुस्तक पलटते-पलटते वे फिर चौंके । उनके हाथमें रवि बाबूकी पुस्तक ‘रूस की चिट्ठी’ है ।

बोले—‘यह क्या है ?’

‘रवि बाबू लिखित रूस की चिट्ठी !’

‘रवि बाबू महान् कवि थे यह ठीक है, पर पुस्तक का सम्बन्ध रूस से है !’

‘फिर ?’

‘फिर क्या ? रूस साम्यवादी देश है, ब्रिटेनका दुश्मन है । उसकी किताबें उड़ना राजद्रीह है !’

में नहीं बोला । वे ही बोले—‘आप सरकारी नौकर हैं ?’

‘जी ।’

‘खूब पढ़ते हैं !’

‘जी ।’

‘यशपालको जन्ते हैं ? क्रांतिकारी यशपाल जो बड़ा सुंदर लेखक है ।’
और कहते कहते वे फिर हर्ष से फुदके । बोले—‘तो आप यशपालके मित्र हैं ? और
साथी से कहा—‘हमारा परिश्रम सफल हुआ ।’

क्या है—‘साथी बोला ।’

‘देखिये यशपालका पैड इनके पास है । वह इनके पास ठहरता रहा है ।’
मैंने देखा उनके पास एक लेटर पैड था । मैं हँस पड़ा; बोला—‘ये यशपाल एक
बकील हैं और दिल्ली रहते हैं ।’

‘लखनऊ नहीं ?’

‘जी नहीं ।’

वे फिर हताशा हुए, लेकिन पराजित नहीं । उन्होंने प्रत्येक पुस्तकको ध्यानसे देखा ।
‘साम्यवाद’ और ‘रूस’ उनके भूत बन गये थे । पर दुःख है वे कुछ न पा सके । वे
थ्रब छतपर जा पहुँचे । भाँककर परिडतजीको देखा । पाठ बन्द हो चुका था और
वे रसोईघर में थे । पूछा—‘अकेले हैं ?’

‘जी हाँ ।’

‘यानि क्रांति करनेकी पूरी तैयारी है ।’

मैंने कहा—‘इनके पिता जिलेदार थे और चाचा थानेदार ।’

थानेदार हँस पड़े—‘इसी कारण तो बचे हैं ।’

और मुझसे मुड़कर बोले—‘देखिये मैं आपको नेक सलाह देता हूँ । आप
सरकारी नौकर हैं, आपकी नौकरी छूट जायेगी । आप अनुचित लोगों से सम्बन्ध मत
रखिये ।’

‘मेरा किसीसे सम्बन्ध नहीं है ।’

‘आप जानें !’

और वे नीचे आ गये। मेरी डायरी और रूस सम्बन्धी पुस्तकोंको फिर देखा। साथी से सलाह ली। बोले—‘कानून आपके पक्षमें है। व्यर्थ ही आपको क्यों कष्ट दिया जाय। इसलिए पुस्तकें लौटाता हूँ। आप भी याद करेंगे कोई तलाशी लेने आया था। लीजिये हस्ताक्षर कर दीजिये। और फिर धीरेसे कहा—‘पण्डितजीका ध्यान रखिये !’

मैं बोला—‘आप क्या कह रहे हैं ? मैं तो उन्हें मूर्ख समझता हूँ।’

वे हँस पड़े, बोले नहीं। साथी ने कहा—‘मूर्ख ही ऐसा काम किया करते हैं। उनमें डर नहीं होता।’

और वे चले गये। मैंने एक बार अपने अस्तव्यस्त घरकी देखा और फिर देखा मोहल्लेको। जिसके प्राण लौट आये थे, पर मेरे पास आनेका साहस अभी किसी में नहीं था। उन्हें अचरज था—मैं गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। परन्तु तब उस थोर ध्यान नहीं दिया। मेरे मस्तिष्क में पण्डितजी तेजीसे उभर रहे थे। मैं उन्हें मूर्ख समझता था और पुलिस क्रांतिकारी। कैसी विडम्बना है ? क्या अण्ट-सण्ट बातें करना ही क्रांति है ? क्या मैं ? आगे सोचूँ कि ‘पण्डितजी स्वयं सशरीर मेरे सामने आ उपस्थित हुए। उनकी आँखोंमें गर्व था, पर क्रोध नहीं। उसके स्थान पर प्रसन्नता थी। गदगद होकर बोले—‘तो यह बात थी !’

मैंने देखा—‘उनके हाथोंमें एक बड़ी थाली है। उस पर रुमाक ढका है।’

वहीं फर्शपर उसे रखकर कहा—‘कुछ मिला !’

‘कुछ नहीं।’

मैं जानता था तुम देवता हो, पर दुनिया देवताको ही तंग करती है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। पर सच मानना, आज मेरा खून बड़ गया है। मुझे गर्व है, मेरे मकानमें एक शेर-दिल इन्सान रहता है।’

फिर बड़े जोरसे हँसे—‘डरे तो नहीं ?’

‘जी, डरना क्या ?’

‘मैं जानता हूँ, तुम नहीं डर सकते। तर्सी तो तुम्हें मकानमें बसाया था। मैं ऐसे-वैसोंको कभी नहीं रखता। अच्छा देखो खीर बना लाया हूँ। जल्दीसे निचटकर खाना शुरू करो। रोटी बनाता हूँ।’

‘पण्डितजी ?’

‘उसमें बात ही क्या है। देर हो गयी है, तुम्हें दफ्तर जाना है। मुझे खुशी है, अब यहाँ दो क्रांतिकारी रहते हैं।’

और कहते कहते फिर हँसे—‘दो क्रांतिकारी, साले जानते नहीं, अब भारत का बच्चा-बच्चा क्रांतिकारी बननेवाला है। उन्हें खुद क्रांतिकारी बनना होगा। भगवान् मेरा जाने, निशिकान्त ! ये पुलिसवाले साले बम बनाने और डायना डालने वालों को ही क्रांतिकारी समझते हैं। असली क्रांति तो निडर होने और जाखिम के सामने झुकने से इन्कार करने में है। मुझे खुशी है, तुम नहीं डरे। तुम सब्जे क्रांतिकारी हो...’

और फिर सदाकी भाँति पण्डितजी क्रांतिकारी की न समाप्त होनेवाली व्याख्या करनेमें प्रवृत्त हो गये, परन्तु अचरज यही था कि मैं उस दिन पण्डितजी का तनिक भी विरोध नहीं कर सका।

परिवर्तन



निश्चिन्त बहुत देर से विचारों में डूबता-उतरता आ रहा था। क्रोध और भ्रमलाहट के कारण उसके माथे की सलबटें गहरी हो गई थीं। और उसके मन की अवस्था उथले समुद्र के समान थी। वह इसी ट्रेन से देहली जा रहा था। उसकी स्त्री और बच्चा गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी छूटने में काफी देर थी। यद्यपि वह बहुत बड़ा जंकशन नहीं था, फिर भी वहां खासी चहल-पहल थी। स्टेशन भी एक छोटी-सी दुनिया के समान है, जहाँ भिन्न भिन्न आकृति, मनोवृत्ति और श्रेण-भ्रषा के लोग एक ही स्थान पर नज़र आते हैं। चिड़ियों की भांति उनकी अलग अलग वोलियाँ सुन कर मन में कल्पना जाग उठती है, और कौतूहल के कारण आंखें बहुत देर तक उनका पीछा करती रहती हैं। कमी सौंदर्य की जीती-जागती तस्वीरें, कमी ऐश्वर्य और विलास की पुतलियाँ, कमी बदसूरती और गरीबी की नंगी मूर्तें सिनेमा के चित्रों की तरह आंखों के आगे से गुज़र जाती हैं। दिल कमी श्रद्धा से उमड़ पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा लीडर उधर से गुज़रा है और उसकी जय के नारों से आकाश गूँज उठा है। कमी उसी दिल में वासना उमड़ उठती है, क्योंकि सौंदर्य और विलास की एक जीती-जागती मूर्त सचाटे के साथ कंधे को छूती हुई निकल गई है। लवेण्डर और इतर की महक से नाक भर जाती है, लक्ष्य वीतता है, दिल में धृषणा पैदा हो जाती है, क्योंकि श्मशान से उठकर आया हुआ एक कंकाल, एक निहायत गंदा और बदबूदार चिबड़ा लपेटे, आपके आगे हाथ पसार खड़ा है। अभी यह धृषणा दूर नहीं होती कि कसणा उमड़ आती है। क्योंकि एक स्त्री अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दूर भेज रही है; क्योंकि एक लड़की अपने माँ-बाप से सदा के लिये बिदा हो रही है।

यह स्टेशन की बातें हैं, जो दुनियाँ का एक छोटा-सा चित्र है या सिनेमा

आलोक प्रकाशन

का विश्व-ध्यायी दृश्य । जहाँ सुख, दुःख, भय, कलहा, पाप और पुण्य सब आकार हैं और जहाँ आँखों वाले के लिये कहानी कहने के अंनत प्लाट भरे पड़े हैं ।

लेकिन वह इन सब की ओर से आँखें बंद किये कुछ और ही देख रहा है ।

जिस तरह दुनिया में रहने वाले प्रत्येक मानव के मन में अपना ही विचार होता है उसी तरह उसे भी अपना ही विचार था और इसी विचार में वह दूना हुआ था कि उसके एक अत्यंत परिचित बंधु ने उसे पुकारा—‘हेलो निशिकान्त !’ परन्तु वह तनिक भी उस से मज नहीं हुआ ।

आगन्तुक ने पास आकर कहा—सो रहे हो मिस्टर निशिकान्त !

निशिकान्त चौंका—अरे तुम !

हां, मैं हूँ ।

माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था, और यह अचरज की बात है कि मुझे तुम्हारी ही आवश्यकता थी ।

मेरी ?—आगन्तुक ने कुछ रस लेते हुए कहा ।

जी हां, एक बिकट समस्या है, जिस पर तुम्हीं ठीक-ठीक रोशनी डाल सकते हो ।

आगन्तुक हँस पड़ा—मैं धन्य हुआ ! क्या बात है वह ?

वह जरा धीरे से बोला—तुमने मुना होगा परसों सी० आई० जी० ने मेरी तलाशी ली थी ।

तुम्हारी तलाशी ? क्या कहते हो ?

कह तो रहा हूँ परसों डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट के अधीन मेरी तलाशी हो चुकी है ।

‘लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता । तुम तो सरकारी नौकर हो !’

‘यही तो बात है । सरकारी नौकर होते हुए भी मुझे यह जखत उठानी पड़ी है । सिर्फ अपने अहिंदू मित्रों के कारण ।’

आगन्तुक का अचरज अब ढीला पड़ गया था । उसने कहा— तो तुम कहना चाहते हो कि परसों डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट के अधीन तुम्हारी तलाशी हुई है और उसका

कारण तुम्हारे अहिंसु मित्र हैं ?

जी हां, तुमने सी० आई० डी० वालों से पूछा था ?

जी हां, पूछा था; पर उन्होंने नहीं बताया ।

जी हाँ, फिर ?

निश्चिन्त आगन्तुक के और भी निकट आ गया, और धीरे-धीरे कहने लगा—उसकी आँखें तेज थीं, और बागी दृढ़ । वह बोला—मैंने गुप्त रूप से पता लगाया है । एक-दो अर्जी रोज मेरे विरुद्ध सरकार और सी० आई० डी० के दफ्तर में जाती है । जिस समय मेरी तलाशी का आर्डर हुआ था, लगभग २०० अर्जियाँ सी० आई० डी० के दफ्तर में मेरे विरुद्ध थीं ।

अच्छा ! आगन्तुक अचरज से बोला ।

यह तो तब है जब कि मैं राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । धर्मों के भ्रगड़े मुझे अच्छे नहीं लगते । मैं तो केवल मानव धर्म का प्रेमी हूँ ।

बड़ी कमीनी जात है ।

वेशक ! मैं तो समझता था, इन्सान सब एक हैं, परन्तु देखता हूँ, इन लोगों की बदमाशी की कोई हद नहीं है । मुस्कराकर बोलते हैं, और ऐसा खाँग भरते हैं कि जैसे इनसे बढ़ कर हमारा और कोई दोस्त नहीं है ।

आगन्तुक बोला—‘मैं तो सदा से कहता आ रहा हूँ कि साँप की दोस्ती ही क्या ? न जाने कब काट खाय । परन्तु तुम लोगों ने सदा ही मेरा विरोध किया, मुझे गालियाँ दी । तारुनी कहा, और.....!’

निश्चिन्त बीच में ही बोल उठा—‘तुम्हारी बात ठीक है, परन्तु बिना अनुभव के पता नहीं लगता । मैं तो अब भी अनुप्य से झुंषा नहीं करता, परन्तु परसों वाली घटना ने मुझे धरती पर ला पटक है । मेरी आँखों में खून बरस रहा है और मुझे आश्चर्य है, खुदा या परमात्मा जैसी कोई वस्तु इस संसार में है भी ?’

‘लेकिन तुमने क्या सोचा है ?’

‘यही तो कहता हूँ’—और निश्चिन्त ने बहुत धीरे धीरे कान में कहा—‘दिल्ली

जा रहा हूँ । वहाँ से प्रबंध करूँगा कि दो तीन अर्जों रोज उन अहिन्दू मित्रों के विरुद्ध सरकार और सी० आई० डी० को पहुँचे । प्रमाण दूँगा । देखता हूँ कब तक मुक्त की नोंद खेत है । जेल में बंद करवा दूँगा । उन्होंने भी साध को छोड़ा है ।

कहते कहते उसके भाथे की सलवटें फिर गहरी हो उठी, और घृणा आँखों में साकार हो उठी । आंगतुक ने भी उसी तरह कहा—बेशक यह ठीक है । मैं तुम्हारी मदद करूँगा । कब तक लौट रहे हो ?

‘अगले हफ्ते इसी दिन आऊँगा ?’

‘तो मैं परसों दिल्ली मिलूँगा, और.....’

दोनों चौक पड़े । बातों ही बातों में न जाने कब गाड़ी ने सीपी दी, कब गाड़ी ने हरो भंडी दिखाई । गाड़ी चल पड़ी । उसकी परनी ने चवरा कर बाहर देखा, वह शीघ्रता से उचक कर भाड़ी की पटरी पर खड़ा हो गया और अंदर चला आया । गाड़ी ने गुस्से से भर कर कहा—अगर ऐक्सीडेंट हो जाता तो ?

पत्नी बोली—अगर गिर पड़ते तो ? उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया खुपचाप पत्नी के पास जा बैठा । फल भर में ही यहसथ हो गया । गाड़ी ने स्टेशन की चहल-पहल को पीछे छोड़ दिया । अब वह हरे भरे खेतों के बीच तेजी से दौड़ रही थी । दूर से वृक्ष, नाले, नहर, और ऊँचे नीचे टीले पास आकर पीछे चलते गये । दो तीन कुत्ते रोस्की में आकर ट्रेन के साथ दौड़ने लगे, परंतु दो-तीन मिनट में ही सांस तोड़ बैठे । केवल खट-खट पट-पट की धमाका, पटरी के साथ लगे हुए तार, डिब्बे भरे हुए मुसाफिर, और उनकी अलग अलग आवाजों के अतिरिक्त कोई और वस्तु न तो ठीक-ठीक दिखाई पड़ती थी, और न कुछ सुनाई देता था । उसका दिमाग अभी तक उन्हीं बातों से भरा हुआ था, और आने वाले बदयंत्र का चित्र उसकी आँखों के सामने खिंच गया था ।

उसका वक्ता सो रहा था । उसने भी धीरे धीरे अपना सिर दिवार के सहारे टिका कर आँखें मीच ली, ताकि निश्चित होकर उन सारी बातों पर विचार कर सकें, जिन्होंने उसके मन की शांति को नष्ट कर डाला था और उसे खून के आँसू रुला रही थीं ।

वह देर तक इसी अवस्था में बैठ रहा कि सहसा चौंक पड़ा। किसी ने पुकारा—
‘मिस्टर निशिकान्त ! सुनते हो क्या हुआ आज ?’

‘क्या ?’ —वह बोला।

मि० ‘शाह’ डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट में गिरफ्तार कर लिये गए।

सच ?

जी ! मैं अभी उन्हें जेल में छोड़ आया हूँ ! उनकी तलाशी हुई थी और पुलिस का विश्वास है कि वे देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं।

निशिकान्त बड़े जोर से हंस पड़ा। उसके सामने जेल का चिक्क साकार हो उठा। उसने देखा, उसके सामने जेल की चिर-परिचित खिड़की है, जिसके बाहर खोर्शों की भीड़ लगी है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं।

एक ने कहा— सरकारी आदमी ऐसा काम करेगे, यह कौन सोच सकता है ?

दूसरा बोला— अजी आदमी के भीतर क्या क्या मरा है, यह कौन जानता है ?

फिर भी मि० शाह से यह आशा न थी—तीसरा बोल उठा।

अवश्य किसी की शरारत है।

‘वेशक ! देखो न कांग्रेस वालों में कितनी शृणा करता था।

अजी सब को गालियां सुनाता था।

जिसके जी में जो आया उसने कहा, परन्तु उसका दिल खुशी से उमड़ पड़ता था। उसने धक्के दे दे कर सब को पीछे हटा दिया और देखा खिड़की के सामने मि० शाह फिर झुकाने एक स्टूल पर बैठा है उसके चेहरे पर पीलापन छा रहा है और आँखें डर से मरी हुई हैं। उसने पुकारा—मि० शाह, यह क्या हुआ ?

किस बदमाश की शरारत है ?

मि० शाह ने आँखें उठा कर निशिकान्त को देखा। चाहा मुस्कुरा दे, लेकिन बेवसी की हलकी-सी छाया चेहरे पर फैल गई। वह इतना ही बोला—तकदीर में ऐसा ही लिखा था दोस्त !

‘फिर भी..... !’

में कुछ नहीं जानता ।

तमी मि० शाह के दोस्त रिश्तेदार आ गये । उसने गर्व से भर कर उन्हें देखा । सहासुभूति के नये तुले पुराने शब्द उसे याद थे, लेकिन छाती के भीतर जो आनन्द उमड़ आया था उसे दवाने में बड़ी कठिनाई जान पड़ रही थी । वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा । भीड़ हट गई । दोस्त भी चले गये ! पता लगा, परतों चालान पेश होगा । वह भी आदाब अर्ज करके लौट पड़ा । तमी घुन पड़ा—

‘सुनो तो !’

वह फिर मुड़ा । लेकिन अब वहाँ न जेल थी, न मिस्टर शाह । वह चौंक पड़ा । उसने देखा — वह ट्रेन में बैठा है, और उसकी पत्नी कह रही है — सुनो जंकशन आ गया है । पानी ला दो ।’

गाड़ी धीमी पड़ गयी थी । वार २ पटरियाँ बदलने की खड़ खड़, चारों तरफ बिखरे पड़े माल, ऐक्सप्रेस, पैसेंजर डाक गाड़ियों के डिब्बे, कैबिन और क्रासिंग के पास लोगों की भीड़ से साफ मालूम हो रहा था गाड़ी जंकशन पर आ गई है । उसने आंखें सल कर पत्नी से कहा—मैं सो गया था ।

जी आप तो दो घंटे से सो रहे हैं । वह उठा, और पानी के लिए लोटा निकालने लगा । तमी उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी—एक मुस्लिम वयोवृद्ध सन्नन बैठे अनोखी थदा से मुस्करा रहे थे । वह न जाने क्यों एक दम सोच गया, ये लोग सदा ही इस तरह मुस्कराते हैं । इनकी मुस्कराहट में विष भरा रहता है । दिल में विष छिपा कर बाणी से अमृत वरसाने में ये बड़े कुशल हैं । न जाने कैसे ? तमी न जाने क्यों सहसा वे वृद्ध पुरुष बड़े जोर से खिलखिला पड़े । और नीचे झुक कर उन्होंने एक बच्चे को उठा लिया ।

वह जोर से पत्नी से बोला—‘मुझा कहाँ है ?’

पत्नी हँस पड़ी । वही तो है । बहुत देर से उधर खेल रहा है । डाढ़ी नीचे डाली बेचारों की ।

अब निशिकान्ते ने स्पष्ट देखा— हजरत उस वृद्ध पुरुष की गोद में बैठे हँस रहे थे । कभी

उनकी डाढ़ी खींचने को उचकते और कभी कमीज के बटनों पर झपटते । हाथ में शायद चश्मे का घर था, जिसे आप घेतकलुफी के साथ जोर जोर से सीट में मार रहे थे ।

उसे यह बुरा लगा । बोला— क्यों जाने दिया उसे ? इन्हीं लोगों के कारण तो मुझे मुसीबत उठानी पड़ रही है ।

फर्ना वेगस-सी बोली— मैं क्या करता जी ? उनकी लड़की उठा कर ले गई । तभी एक जोर का कहकहा लगा । बच्चे ने वृद्ध की टोपी उतार कर फेंक दी थी और खन्वाट खोपड़ी में बड़े जोर से चश्मे का घर दे मारा था ।

निशिकान्त ने यह सब देखा और झपट कर बच्चे को उठा लिया ।

वृद्ध बोल उठे— आपका बच्चा है ?

जी ।

बड़ा नटखट है ।

पास बैठे दूसरे सज्जन बोल उठे—बच्चा नटखट ही ठीक होता है ।

तीसरे ने पूछा—क्या उम्र है जी इसकी ?

सात भर ।

खूब दौड़ता है ।

सेहत बहुत अच्छी है ।

खूबसूरत कितना है !

संजने अपने अपने मन की बात कही । बच्चा उसकी गोद से उतर कर फिर वृद्ध के पास चला गया । निशिकान्त रोकना चाह कर भी न रोक सका और मुस्करा कर पानी लेने चला गया । लौट कर देखा, १३-१४ वर्ष की एक लड़की उसके बच्चे को लिये बैठी है । उसकी गोदी में फल थे और स्टेशनों पर बिकने वाले एक दो खिलौने । बच्चे ने एक हाथ में गेब्र संभाला था और दूसरे से केला, जिसे खा जाने का वह व्यर्थ प्रयास कर रहा था । लड़की हंसती हंसती बोली— खाना भी नहीं आता गधे को !

और छील कर केला उसके मुँह में भर दिया । थालक हंस पड़ा । लड़की

वृद्ध पुरुष में बोली—देखो बाबा ! कला कैसे खाता है । अपना नन्हा तो छूता भी नहीं ।

वह मुस्कराकर रह गए । लड़की बड़े चाव से बच्चे को खिलती और खाती रही । पत्नी ने यह सब देखा । धीरे से बोली—उसके साथ खा रहा है । तुलाओं न !

निशिकान्तने भी चाहा बच्चे को उठा ले, पर न जाने क्या विचार आया; बोला—बच्चे के लिए जात—पात भेद नहीं होता । खा भी लेने दो, कितने प्रेम से खिलता रही है !

पत्नी चुप हो गयी । वह बहुत देर तक उन दोनों को देखता रहा । सोचता रहा—लड़की बच्चे को कितना प्यार करती है ! शायद यह नहीं जानता कि मनुष्य होकर भी यह बच्चा उससे कितना दूर है । इसके माई बन्दी ने मुझे बेवञ्जत किया है और मुझे नष्ट करना चाहा है, लेकिन यह वृद्ध और दूसरे लोग ? शायद यह लोग समझदार हैं, शायद ये मुझे जानते नहीं । सभी इंसान तो एक जैसे नहीं होते, इंसान इंसान है कहाँ ? ये तो रत्न रत्न के लेविल लगाये इंसान की मूर्तियाँ हैं । फिर भी भले आदमी तो सभी जगह होते हैं । ये लोग कितनी मोहब्बत दिखला रहे हैं । नहीं ! यह धोखा है, मैं उसे नहीं छोड़ूँगा ।

निशिकान्त न जाने कब तक सोचता रहा कि अचानक चौक पड़ा । किसी ने चिल्ला कर कहा—धरे बच्चा गिर गया ! टून रोको, टून रोको !

उसने गाड़ी के खुले दरवाजे की ओर देखा, लड़की उसी ओर लपक रही है । उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया । वह चीख उठा—‘बच्चा ! किस का बच्चा ?’

पत्नी घबराकर उठी—मुन्ना कहाँ है ?

वे जब तक संभले तब तक गाड़ी रुक गई, वृद्ध ने जंजीर खींच ली थी, स्टेशन पर शोर मच गया । गाड़ी अभी प्लेटफार्म से निकली नहीं थी । बहुत से लोग नीचे उतर पड़े । वह सब से आगे था । उसने जो कुछ देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गये । लड़की प्लेटफार्म पर चित्त पड़ी थी, और उसके दोनों हाथ गाड़ी के पास नीचे लटक रहे थे । उन हाथों में उसने बच्चे को संभाला था, जो बेतहाशा चीख

रहा था ।

लोगों ने बच्चे और लड़की को हाथों में उठा लिया । लड़की के हाथ जख्मी हो गये थे, और बच्चे के सिर में चीटें लगी थीं, चीटें हल्की थीं और दोनों जीते जागते थे । कण-भर में ही यह सब हो गया । वह ठीक ठीक सोच भी न सका, आखिर यह सब कैसे हुआ ? उसके मस्तिष्क में भयङ्कर द्रन्द भचा हुआ था । वह लोगों की बातें सुन रहा था—वे कह रहे थे— बचाने वाला बहुत बड़ा है ।

‘जी हाँ ! उसी की माया है, नहीं तो गाड़ी के नीचे आकर भी कोई बचता है ?’

‘लड़की साहसी हैं साहब !’

‘वह उसका भाई था ।’

‘तभी तो साहब बहिन का प्रेम अद्भुत होता है ।’

निशिकान्त के मुंह से निकला—‘भाई बहिन !’ और सिर से पैर तक एक सिहरन सी दौड़ गई । वह गिर पड़ता, अगर लोहे का डंडा उसके हाथ में न था जाता । उसने डंडे को कस कर पकड़ लिया, और उसके मुंह से फिर निकला... ‘भाई बहिन ! फिर तो चारों तरफ ‘भाई बहिन, भाई बहिन’ की पुकार उठने लगी ।

आगे बात इतनी ही है, दिल्ली जाकर निशिकान्त ने अपने मित्र को पत्र लिखा— उसे दुःख है वह अब अपने अहिंदू मित्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता ।

निशिकान्त



धारे-धारे स्वप्नके समान वे सब धातें निशिकान्त को फिर याद आने लगीं
धुंधले-धुंधले चित्र उसके सामने के शून्य में निरभिरों की तरह उड़ने लगे । उसे याद
आया, किसीने उसे बुझदिल कहा था । वह उसी तरह लेंटे-लेंटे बड़बड़ाया—‘क्या मैं
बुझदिल हूँ ?’

पास ही कोई बोल उठा—‘वेशक, तुमने जो रास्ता पकड़ा है, वह बुझदिलों का
रास्ता है ।’

निशिकान्त चौंक-सा उठा—‘तुम तुम फिर आगये !’

दूसरा निशिकान्त हँसा—‘मैं जाता कहाँ हूँ ? सदा तुम्हारे भीतर ही तो रहता
हूँ । मैं कहता हूँ कि यह रास्ता तुम्हें सुख नहीं पहुँचा सकता, तुम्हारे मनकी वासनाको
शान्त नहीं कर सकता ।’

निशिकान्त फुसफुसाया—‘मैं समझा नहीं ।’

‘समझे नहीं !’—दूसरा निशिकान्त बड़े जोर से हँस पड़ा । वह हँसी घड़ी
तेज आवाज पैदा करती कमरे में गूँज उठी । उसे लगा जैसे कुहरे में सब कुछ धुंधला
नजर आता है, उसी तरह इस आवाज में भी एक अस्पष्ट खर-मात्र है और यह अस्पष्टता
उसके दिल में एक अजीब भय पैदा करती जा रही है ।

आवाज फिर गूँज उठी—‘तुमने मकड़ी का जाला देखा है ?’

‘हाँ, देखा तो है । हमारी लापरवाही से न-जाने कितने जाले हमारे घरों के
कोनों में लगजाया करते हैं ।’

‘और उसमें फँसकर आजादी के लिए तड़पती हुई मकड़ी को भी देखा है ?’

निशिकान्त बेवसी से भी हँसा—‘हाँ वचपन में न जाने कितनी बार फड़फड़ाती
मकड़ी को देखकर चाहा था कि उसे निकाल दूँ, लेकिन कौतूहल ने कभी हाथ नहीं

उठने दिया और देखते-देखते वह मकड़ी मकड़ी से निगल ली गयी ।’

निशिकान्त की हँसी विषाद में बदलती गयी, लेकिन वह आवाज़ उसी तरह उग्रतासे बोलती गयी—‘अच्छा तो सुनो, यह मनुष्य उसी मकड़ी के समान है और तुम भी……।’

‘जानता हूँ,’ निशिकान्त ने कहा—‘लेकिन वह जाला……?’

‘बुद्धिके तक और अन्तरात्मा की पुकार—ये सब मकड़ी के जाले हैं । इनमें फँसकर मनुष्य मकड़ी की तरह आजादी के लिए तड़पता रहता है और……’

‘ओह……!’ निशिकान्त एकदम लापरवाही से बोल उठा—‘मैं समझा । यह मकड़ी तुम्हीं हो, जो मेरे लिए जाला पूरती रहती हो और मुझे उसमें फँसाकर अपनी लुभा शांत करती हो ।’

इस अचानक पैदा हुई लापरवाही ने उसकी वाणीमें तेजी भर दी । वाणी की तेजी ने शरीरमें कम्पन पैदा कर दिया । उसकी बड़ी-बड़ी आँखें एकदम चमक उठीं और तेजी से उठने की चेष्टा करने लगा । लेकिन जैसे ही उसकी चेष्टा में गति पैदा हुई, वह काँप उठा । उसके चारों ओर रात्रिका गहरा अंधकार फैला हुआ था । कहीं दूर कुत्ते किसी अस्पष्ट ध्वनि पर चौंकर सूंक उठते थे । खिड़की से झाँकते हुए नीले आसमान के सफेद और सुनहले तारे, घोर निराशामें आशाके दीपक की तरह, झिलझिल-झिलझिल कर रहे थे । उसने दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी आँखों को मसा । फिर अपने चारों ओर शून्य अंधकार में ताका । लेकिन जैसे-जैसे उसे समझ आती गयी, उसका मन ग्लानि से भरता गया । वह होश में आकर भी उस अदृश्य आवाज़ के प्रभाव को जो मकड़ी की तरह उसपर जाला पूरती जा रही थी, दूर न कर सका ।

अभी पहली संख्या को ही तो उसने यशोदा से वादा किया था—‘आज रातकी जरूर आऊँगा ।’

वह मुस्करायी और उसकी लजीबी आँखें किसी अज्ञात ज्योति से प्रेरित होती हुई नीचे की ओर झुक गयी थीं ।

उसने फिर कहा—‘राह देखोगी ?’

वह बोली—‘आयेंगे तो राह क्यों न देखेंगी, साईसाहब !’

तभी जैसे इसने पूछना चाहा — ‘तुम मुझे साई साहब क्यों कहती हो ?
लेकिन न जाने क्या सोच-समझकर वह चुप होगया और फिर लज्ज भरा वाद बोला—
‘तो सरूर आऊंगा !’

इसके अतिरिक्त कुछ और कहने को जैसे उसे कोई विषय ही नहीं मिल रहा था ! और अचरज तो यह है कि उसकी आवाज बड़ी धीमी होती जा रही थी । इस धीमेपन पर उसे स्वयं विश्वास नहीं आ रहा था । यशोदा इतनी देर तक नीचे ही देखती रही, कभी आँख उठाकर सीधे देखा भी तो नहीं । केवल एक उड़ती नजर उस पर डाल सामने के लैम्प-पोस्ट को देखने लगी । कोई उस समय होता तो सम्भव है यही जानता कि यह लड़की निशिकान्त से धारा भी संबंध नहीं रखती ।

निशिकान्त भी लैम्प-पोस्ट की दूसरी तरफ इस तरह खड़ा था मानो बड़ी व्यग्रता से उन मोटर और तारों के निकल जाने की राह देख रहा हो, जो किसी वारात के कारण रुक गये थे । दूर आगे से अंग्रेजी वाजे की तेज आवाज आरही थी और एक छोटी-सी भीड़ तांगों की दूसरी तरफ इस तरह झुक आयी थी जैसे परनाले का सुंह बन्द हो जाने पर पानी रुक जाता है । जैसे ही वारात आगे बढ़ी, वह भीड़ भी बड़ी तेजी से इधर-उधर बिखर गयी । निशिकान्त भी तब लापरवाही से आगे बढ़ गया । बढ़ते-बढ़ते उसने पीछे की ओर देखा । तभी यशोदा ने भी उस ओर दृष्टि घुमायी । आँखें मिलीं—जैसे विजली चमक गयी !

निशिकान्त ने सोचा—सुन्दर है । यह सोचते ही एकबार फिर उसके शरीर में मादकता उभर आयी । हृदय में क्या-हल्का उल्लास उमड़ा । छाती में कम्पन-सा झुंझा, परन्तु मन न-जाने क्यों, भयातुर हो उठा । यह बात नहीं कि निशिकान्त ने आज पहली बार ही जाना हो कि यशोदा सुन्दर है । परिचय होने से बहुत पहले निशिकान्त ने यशोदा को देखा था और माना था कि यशोदा सचमुच सुन्दर है : उसके मुख का हलका गुलाबीपन, आँखों की तरल मादकता, सुनहली लाली लिये ओठों पर सीधे संकेत करती हुई नासिका और सबसे अधिक उसकी लापरवाही से उड़ती हुई साड़ी के भीतर

सम्बन्ध, विकने, काले बाल जो बन्धन में भी व्यसयत.....!

एक दिन यह सब देखकर वह कुछ अधिक विचलित होगया था और धीरे-धीरे वह विकलता इतनी तीव्र हो उठी थी कि यह चिन्ता उठा था—पापी, कमीने, एक अपरिचित युवती के प्रति इतने गन्दे विचार.....!

तू धूर्त है !

तू कर्माना है !!

तू नीच है, निर्लज्ज है !!!

उसके हाथमें जो पुस्तक थी, वह उसने बड़े जोर से फेंक मारी। फिर सीधे बल्ल पर जाकर इस तरह लुढ़क गया जैसे कोई बड़े दिनों का सूखा पेड़ अचानक हवा के तेज झोंके से पृथ्वी पर लुढ़क जाता है।

पत्नी ने आकर पूछा—‘जी कैसा है?’

आँखें खोलकर पत्नी को उसने देख लिया, पर बोला कुछ नहीं।

पत्नी फिर बोली—‘मैं पूछती हूँ, लोट कैसे गये?’

फिर पास आकर बैठ गयी। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली—
‘उठो तो.....!’

तब निशिकान्त के जी में आया कि कह दे—‘असागिन नारी, मेरी विकलता का कारण तू है ! तू है जिसने मुझे आग में हाथ देने को मजबूर किया है !’—लेकिन कहा उसने कुछ भी नहीं। उठकर बैठ गया। कपड़े उतार डाले। फिर बोला—‘चलो, मैं खाना खाने आ रहा हूँ।’

इसके बाद उस दिनके लिए निशिकान्त जैसे सब कुछ भूल गया। वह उतावला-पन, वह व्यग्रता और वह मादकता, सब-न-जाने किस और उड़ गयीं। पहले भी उसके साथ ऐसा ही हो चुका था। यशोदा जैसी कितनी ही सुन्दर-असुन्दर यौवनके भार ने ललकगी हुई मरिचि... और देखकर उनको अपनी बचाने की तीव्र लालसा समान अनेक सुनहले और स्पहले चित्र उसके हृदयकाश पर खिंचते और जरा-सी देरमें ही पानीके बुलबुलें और ताशके पत्तोंके महल के

समान वे सब दह जाते, जैसे नींद खुलने पर स्वप्नों की दुनियां उड़ जाती है। तब उसका मन आश्चर्यालानि से भर जाता और वह अपने को कोसना शुरू कर देता—‘मैं कितना नीच हूँ। अपनी छाँके होते दूसरी नारियों से मानसिक व्यवहार करता हूँ। मैं वासनाओं के जालमें फँसता जा रहा हूँ। मुझे पाप-पुण्य, नीति-नियम, किसीका भी ध्यान नहीं। मैं पापी हूँ, मुझे आत्महत्या.....!’

‘आत्महत्या ? हाँ, आत्महत्या !’

‘लेकिन आत्महत्या भी तो पाप है !’

‘वेशक’—वह दृढ़ता से कहता—‘आत्महत्या पाप है, लेकिन व्यवहार उससे भी बड़ा पाप है !’

इसके बाद वह स्वयं ही बड़े जोर से कांप उठता। सामने जो भी वस्तु होती, उसे पेरंसे बड़े जोरसे ठोक मारकर दूर फेंक देता और उलझी हुई तागों की कुकड़ी की तरह विचारों के जालमें इस तरह फँस जाता कि उसे रास्ता ही नहीं मिलता। तब कभी-कभी नीचे से आकर रजनी उसके पास बैठ जाती और प्रेम तथा स्नेहभरे स्पर्से उलाहना देती—‘हरवक्त क्या सोचा करते हो ? कभी बात ही नहीं करते.....!’

इससे वह भुंभुलाहट-भरी आँखें उसकी ओर उठाता तो लगता जैसे लम्बे सकल की शकल से दर्द करते हुए शरीर को किसीने अपने कोमल कर्ों से धारे-धारे सहलाना शुरू कर दिया है। वह सजीव हो उठता जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खुलती जा रही हों।

‘रजनी सुंदर है.....!’

‘सच.....?’

‘हाँ, उसकी आँखों में भी सदा है, होठों में लाली है और स्वर में कोमल मिठास.....!’

एकएक वह बोल उठता—‘रजनी !’

रजनी पास खिचती कहती—‘जी.....!’

‘तुम सुंदर हो !’

‘ओह.....!’ रजनी मुस्करा उठती और निशिकान्त तब.....!

एकदिन न-जाने किस अज्ञात भाग्य-रेखाने निशिकान्त के इस काल्पनिक जीवन में वास्तविकताके धुंधले चित्र बनाने शुरू कर दिये । उस दिन पूर्वके आकाशमें प्रकाश के आगमन की सूचना मिल चुकी थी । धुंधली रोशनी बीचके रङ्गमञ्च पर बिखर चली थी । वातावरण में मन्द-मन्द वायु हिलोरे ले रही थी और अग्निकांश संसारवासी एकवार आँखें खोलकर फिर से निद्रादेवी की मदभरी हलकी-हलकी घपकियों का शिकार होते जा रहे थे । निशिकान्त उस समय हाथ में बाल्टी थामे अलसायी देह, डेयरी की ओरसे लौट रहा था । भस्तिष्क में रात के स्वप्नों की धुंधली-सी याद बाकी थी । चारों ओर सघाटा अंगड़ायी तोड़ने लगा था । कुत्ते भूँकना बंद करके इधर-उधर विश्राम की टोहमें घूमने लगे थे । कुर्छों पर पानी भरनेवाले या सेरके शौकीन बाबू या डेयरी से दूध लानेवाले आदमी हलकी-हलकी पद-चाप करते चले जा रहे थे । तभी सहसा पासकी एक गलीसे एक घोड़ी बड़ी तेजी से तूफानकी तरह दौड़ती हुई आई और उसके पासमें ऐसे निकलगयी जैसे भूकम्प का तेज धक्का बड़े जोर से भड़गड़ाहट करता हुआ निकल जाता है । वह संभले-संभले कि वातावरण एक चीत्कार से भर उठा । कोई बड़े जोर से रोया । कई आवाजें एक साथ काँप उठीं—‘क्या हुआ, अरे क्या हुआ.....?’

यह सब एक क्षण में होगया । दूसरे क्षण निशिकान्त ने दौड़कर एक बालिका को उठाया, जो बुरी तरह सड़क पर गिरकर चीख उठी थी । उसके पास एक बाल्टी पड़ी थी । जिसका सब दूध बहकर नाली में जा रहा था । दूध के साथ ही रक्त की एक पतली-सी रेखा भी उसी तरफ बहजाने की चेष्टा में थी । निशिकान्त ने बड़े स्नेहसे उसे गोदीमें उठा लिया । बोला—‘तुम्हें चोट लगी है...रोओ मत...बस, चुप हो जाओ... कहीं जाओगी.....?’

लेकिन बालिका थी कि रोये चली जा रही थी । उसकी आयु लग-भग सात वर्ष की होगी—गोरा रङ्ग, बड़ी-बड़ी आँखें, साधारण परन्तु खच्छ कपड़े । जान पड़ता था कि किसी अच्छे घरकी है । फिर पूछा—‘तुम कहीं जाओगी, बोलो.....?’

इसी समय पीछेके सकान के कियाड़ बड़े जोर से खुले और काँपती हुई आवाज आयी—‘शारदा ! शारदा !!’

गोद की बालिका और भी चीख पड़ी ।

‘शारदा.....?’

‘अम्मा.....!’

निशिकान्त तब उसे गोदमें लिये, उसकी माँ के पास ले आया । बोला—
‘घोड़ी की चपेट में आगयी है ।’

‘चोट तो नहीं लगी ?’

‘हाँ, देखता हूँ ।’

वह अंदर चला गया । लालटेन के प्रकाशमें उसने देखा बालिका के पैर में घोड़ी की नाल का एक अच्छा जखम बन गया है । उसी जखम से बहकर खूनकी धार सड़क पर बह चली थी । निशिकान्त ने जब तक जखम को संभाला, माँ ने चौंके में आकर पुकारा—‘यशोदा, ओ यशोदा, जल्दी उठ । देख तो शारदा को क्या हुआ ?’

ऊपर से आवाज आयी—‘हूँ...ऊँ...ऊँ...!’

माँ तेज हुई—‘हूँ ऊँ-ऊँ करती है, यहाँ आकर देख, बहन चीख रही है ।’

‘क्या हुआ माँ ?’ इस बार यशोदा हड़बड़ाकर उठ बैठी ।

‘नीचे भी आ.....!’

निशिकान्त ने कहा—‘आप बबराइये नहीं, घरमें रेशम हो तो जरा-सा फूँक लीजिए । मैं जखम में भर दूँगा । और देखिए, दूध हो तो ले आइए ।’

‘दूध.....!’

‘ओह, दूध तो यह लारही थी । वह बिलारगया । खैर, आप रेशम फूँकिए । दूध का प्रबन्ध भी हो जायगा ।’

यह सब करते-करते निशिकान्त उस घर और घरनालोंके बारेमें ज्यादा-से-ज्यादा जानकारी हासिल करने की चेष्टा करता रहा । उसने देखा, यह यशोदा तो वही लक्ष्मी है जिसे उसने अनेक बार सड़क पर देखा है और जिसे देखकर उसके जन्ममें शक-शक उठती है कि वह सुंदर है, मोहक है । और इस समय—अब तो, आसन्न और अन्तर्गतता के कारण, उसमें और भी मादकता समा गयी है.....!

झि-झि, इस समय भी ऐसी बात.....?

रेशम फूंकते-फूंकते माँ बोल उठी—‘तुम न आते तो न-जाने क्या होता !’

‘जी...!’ कहकर वह कुछ चौंका—‘क्या कहा जी आपने ?’

उसको और बिना देखे, बिना सुने वह बोलती रही—‘भगवान् ने तुम्हें न-जाने कहीं से भेज दिया है कि.....’।

‘जी, मैं दूध लारहा था ।’

‘यहीं रहते हो ?’

‘जी हाँ.....’।

‘क्या करते हो ?’

‘जी, नौकरी करता हूँ ।’

‘परमात्मा तुम्हें सुखी रखे । तुम बड़े दयालु हो । नहीं तो कौन किसको उठाता है ?’

‘जी जरा पट्टी तो दीजिए,’ उसने कहा ।

यशोदा पट्टी लेकर आगयी । बोला—‘बाँध दीजिए ।’

यशोदा चुपचाप बाँधने लगी, लेकिन बेचारी ठीक-ठीक नहीं बाँध सकी । निशिकान्त ने उसके हाथसे लेकर स्वयं बाँधते हुए कहा—‘देखिए, ऐसे बाँधिए !’

पट्टी लेते-लेते उसका हाथ यशोदा के हाथ से छू गया । दोनों चौंक पड़े । यशोदा का मुँह लज्जासे लाल हो आया । बोली—‘चोट ज्यादा लगी है क्या ?’

‘जी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है ।’

‘डाक्टर के यहाँ जाना होगा ?’

‘हाँ, सबेरे इसे डाक्टर के यहाँ जरूर ले जाइए ।’

फिर कुछ क्षण के लिए शांति छा गयी । यशोदा पट्टी बाँधती रही और निशिकान्त लालटेन के प्रकाश में कभी शारदा, कभी यशोदा और कभी कमरे को देखता रहा । दोनों सुंदर, स्वस्थ और सम्य । कमरा साधारण—मेज़, कुर्सी, चारपाई, लालटेन, तसवीरें, कैलेण्डर, बक्स, आलमारी और ऐसे ही कुछ और अलम-गलम.....।

पुकापुक यशोदा ने माँके वाक्य दोहरा दिये—‘आप बड़े दयालु हैं……!’

निशिकान्तने अनसुना करके पूछा—‘आपके पिताजी हैं ?’

‘नहीं !’

‘तो……?’

‘बड़े भाई परीक्षा देने लाहौर गये हैं !’

‘कबतक लौटेंगे ?’

‘एक हफ्ते में !’

‘तब फिर……?’

‘आप डरिए नहीं । माँ शारदा को खयं डाक्टर के यहाँ ले जायेंगी । माँ इसे बहुत प्यार करती है ।’

निशिकान्त समझता । वह मुस्कराया—‘शायद आपको नहीं करती ?’

यशोदा फिर लाल हुई । पट्टी वह बाँध चुकी थी । शारदा के गालों में आँसुओं की पोंछती-पोंछती बोली—‘माँ प्यार का पार्श्विक रूप है । प्यार के बिना माँ, माँ नहीं रहती !’

‘क्या रहती है ?’ निशिकान्त चकित विस्मित मशीन की तरह पूछ बैठा ।

‘मैं नहीं जानती,’ यशोदा ने दृढ़ता से कहा । फिर पुकारा—‘माँ, दूध हुआ ? जल्दी देना……!’

यह कहती खयं उठकर यशोदा बाहर चली गयी और निशिकान्त के रहते फिर नहीं लौटी । दूध लेकर खयं माँ आयी । निशिकान्तने कयोर हाथले लेकर शारदा को उठाया । पूछा—‘दर्द कम है न ?’

‘हाँ, बालिका दबे खरमें बोली ।

‘यह ली, दूध पीली !’

शारदा ने दूध पीलिया और निशिकान्त उठकर अपने रास्ते पर चला गया । जाते-जाते कह गया—‘इसे उठाना मत । डाक्टर के यहाँ गोदमें लेजाना । देखना होगा, हड्डी तो ठीक है !’

‘हब्बी……!’ माँ काँप उठी ।

‘जी नहीं, डरिए नहीं । डूटी नहीं है, फिर भी देखना होगा !’

और इसके बाद जब माँ शारदा को डाक्टरके यहाँ लेजा रही थी तो वह फिर आ गया । बोला—‘लाइए, मैं ले चलता हूँ !’

‘नहीं बेटा, नहीं……!’

‘लाइये न……?’

यहीं तक नहीं, इसके बाद जबतक यशोदा का भाई लाहौर से नहीं लौटा, तब तक निशिकान्त वरावर दो दफा उनके घर जाता रहा । माँने हर बार उसे कृत-कृत्य कर देखा, हर बार उसकी आँसुओंसे आँसुओं के साथ आशीर्वाद वरसे । यशोदा से भी उसका परिचय बढ़ा । हृदय खुले । लज्जा दूर हुई । लेकिन जब भी वह यशोदा को देखता, उससे बातें करता, तो वह इस बात को नहीं भुला पाता कि यशोदा सुंदर है, युवती है……! लेकिन फिर तर्क करता—‘सुंदर है, युवती है, तो फिर……?’

‘तो फिर क्या ? सौन्दर्य और यौवनका उपयोग तो उसके भोग में ही है !’

‘लेकिन तू भोगनेवाला कौन है ?’

‘मैं, पुरुष……?’

‘हाँ, मैं पुरुष, वह नारी……!’

छी-छी ! तब उसे कोई धिक्कारने लगता—‘तू कितना कमीना है । इतने पवित्र वातावरण में जहाँ माँ आँसुओं से प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करती है, जहाँ तू स्वयं अपनी सेवास भावुक प्रेम और सहायभूति का परिचय देता है, वहाँ भी तू……?’

निशिकान्त तब काँप उठा । उसका अन्तर अकुला-अकुला कर हा-हा कार कर उठना । तभी यशोदा कहती होती—‘सभी आदमी एक जैसे नहीं होते । देखिये, एक साथ भी तो हैं…… !’

‘जी हाँ, एक मैं भी हूँ……!’ निशिकान्त इस तरह बोलता कि यशोदा चौँककर देखती और निशिकान्त फिर कहता—‘अच्छा मैं यध न जा रहा हूँ !’

‘जी नहीं, खाना खाकर जाइए ।’

‘शुब नहीं ।’

‘अच्छा, आपकी पत्नी कबतक आवेंगी ?’

‘यही एक दो महीने में ।’

‘तब मैं आपके घर आऊंगी ।’

निशिकान्त एकदम कह उठता—‘अभी चलिपु न ?’

‘अब……?’

‘हाँ……।’

‘अब क्या वहाँ दीवारोंसे बातें करूँगी !’

‘मैं तो हूँ……।’ कहकर वह काँपता, यशोदा चौकती—‘छि-छि, यह कैसा अलगाव, कैसा विभेद, कैसा पागलपन ? लेकिन यशोदा परिस्थिति को संभाल लेती । कहती—‘आप यहाँ तो आते ही हैं । यह भी तो आपका ही घर है ।’

‘सच……!’ वह भी संभलता ।

तभी माँ आकर कहती—‘कल रतन आजायेगा । तू जरूर आना । खाना भी यहीं खाना, समझा !’

निशिकान्त रोज़ आता था । उस दिन भी आया । खुब बातें की और चला गया । सबको लगा कि यह निशिकान्त बहुत दिनसे उनका जाना-पहचाना, उन्हीं में का एक, उन्हीं के परिवार का एक अविच्छिन्न अङ्ग-मात्र है । लेकिन इसी सीमा पर आकर निशिकान्त एकदम पीछे लौट गया । दिन पर दिन बीतते गये, वह फिर यशोदाके घर नहीं गया । यह बात नहीं कि यशोदा उसे मिली नहीं । सड़क पर अब भी वह उसे नजर आजाती है । अब भी हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेती है । अक्सर पूछ लेती है—‘आप आये नहीं ? माँ आपको पूछ रही थीं ।’

निशिकान्त कह देता—‘आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है । फुरसत नहीं मिलती । फिर किसी दिन आऊंगा ।’

जैसे-जैसे दिन बीते, जैसे-जैसे वह यशोदा की तरफ खिंचा, वैसे-वैसे उसके भीतर संघर्ष भी तेज होता गया ।

उसने दृढ़ होकर कहा—‘नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा ।’

‘क्यों नहीं जायगा ?’

‘मेरा उसका संबंध क्या है ?’

‘हैं क्यों नहीं—तू पुरुष, वह नारी !’

‘लेकिन वह मुझे भाई कहती है ।’

तब कोई हँस पड़ता—‘प्रेयसी होने से पहले हर एक नारी बहिन होती है !’

‘नहीं नहीं……!’

‘नहीं कैसे ? माँ, पत्नी, प्रेयसी; बहिन, पुत्री ये सब नारी जीवन की भिन्न-भिन्न सीमाओं के संकेत चिह्न-मात्र हैं ।’

‘यह ठीक हो सकता है, परंतु सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी होते हैं ।’

‘हाँ-हाँ……!’ वह एक अट्टहास करता जान पड़ता—‘तो तुम पाप को पहचानते हो ? बहिन का प्रेयसी बनना पाप है, यौवन को पुकार पाप है……!’

‘हाँ-हाँ’ वह तेज होता—‘यह सब पाप है !’

दोनों हाथोंसे मुंह ढककर लज भरके लिए कुछ सोचता और फिर उसी तेजी से कहता—‘कलको तुम माँको प्रेयसी बनानेको कहोगे ।’

आवाज उसे और भी चिदाती—‘तू मूर्ख है । प्रेयसी के यौवन, सौंदर्य, कामना और वासनाका पूर्ण उपभोग करने के बाद ही माँ समता और स्नेहके अस्तुओं का वरदान पाती है । तब माँमें प्रेयसी बनने की न तो योग्यता ही रहती है और न उसे जरूरत ही ।’

निश्चिन्त आगे सोचनेमें असमर्थ; भुंभुलाहट और पराजय से हारा-थका-सा, सबकुछ भूलकर पुस्तकों में शान्ति पाने की चेष्टा करता, परन्तु मन उसे पढ़ने नहीं देता । कभी विद्रोह, कभी वासना और कभी स्वयं यशोदा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और कहती लगती—‘भेनो और देखो । क्या मैं सुंदर हूँ ? क्या मैं मोहक हूँ ? मैं भी तुम्हें चाहती हूँ । मैं भी तुम्हें देखा करती हूँ । तुम भी सुंदर हो !’

तमी निशिकान्त श्रुत्यमें ताकता खुशीके सारे हँस पड़ता—‘सच...?’ और फिर दूसरे ही क्षण पुस्तक बन्द करके उठ जाता। जीवन खयं एक सुंदरी के समान है—किसी उपन्यास में पढ़ा यह वाक्य उसे याद आ जाता और इसीलिये उस दिन, लॉम्प-पोस्ट के नीचे जब तक बारात के कारण बहुत-सी मोटरों व ताँगों ने उसका रास्ता रोक लिया था, यशोदा को देखकर उसने यह निश्चय कर लिया था कि आज वह जरूर-जरूर प्रेम की भीख मांगकर रहेगा।

यशोदा बोली—‘आप आये नहीं भाईसाहब, माँ याद करती हैं।’

‘माँ याद करती हैं!’ उसने मुस्कराकर पूछा—‘तुम नहीं करती?’

यशोदा लाल होकर रह गयी।

निशिकान्त ने कहा—‘आज रात को जरूर आऊंगा?’

.....

‘राह देखोगी?’

‘आयेंगे तो राह क्यों न देखूँगी!’

‘ठीक.....!’

घर जाकर निशिकान्त ने इसके वाद निश्चय किया आज वह जरूर यशोदा के घर जाकर उससे कहेगा—‘यशोदा, तुम सुंदर हो!’

वह कहेगी—‘सच.....?’

‘वेशक, मैं तुम्हें रात-दिन देखते रहना चाहता हूँ।’

‘तो देखा करो!’

‘सच.....?’

‘हाँ, मैं भी तो तुम्हें देखते रहना चाहती हूँ।’

जैसे-जैसे अन्धकार बढ़ता गया, निशिकान्त उसी तरह कल्पनाओं के मन-मौहक चित्र बनाता रहा। इसी रङ्गमें डूबे-डूबे उसने खाना बनाया और खाया। ऊपर जाकर खिच दबाकर कमरेको प्रकाशसे भर दिया। इसके बाद गुनगुनाता हुआ इधर से उधर, उधर से इधर, कमरेमें ही चहल-कदमी करने लगा। पासके भँवरसे धीमी-धीमी आवाज

आकर ऊपर फैलती जा रही थी। नीचे गलीमें कभी-कभी कोई बड़े जोरसे बूटों की धावाज करता हुआ निकल जाता था। बाहर छतपर खिड़की से हो कर प्रकाश की कई किरणें इस तरह चित लेट गयी थीं कि जैसे प्राण निकल जाने पर किसी सुंदरी का शरीर लेट जाता है। लेकिन निशिकान्त सब ओरसे आंख-कान बन्द किये अपनी प्रेयसी से मनमानी बातें करनेमें तन्मय था—‘यशोदा, कैसा आश्चर्य, यह सब हम आजसे पहले क्यों न जानपाये !’

‘क्या……?’

‘यही कि हम एक-दूसरेको प्रेम करते हैं।’

‘प्रेम बोलना नहीं जानता।’

‘वेशक, वह सदा मौन रहता है।’

‘और मौन वाणीसे अधिक शक्तिशाली होता है।’

निशिकान्त प्रभावित हो उठा—‘यशोदा, तुम रूपवती, तुम बुद्धिमती……’

‘और तुम कवि।’

‘काश, मैं कवि होता, चित्रकार होता !—सदा तुम्हें अपने सामने बिठाये चित्र बनाया करता, कविता लिखा करता।’

‘अब लिखो।’

‘अब……?’

‘हाँ-हाँ—जरा समीप आओ। मेरी आँखों में, देखो, कितना मद भरा है। क्या वह तुम्हें कवि नहीं बना देगा?’

‘यशोदा, मेरी यशोदा……’

‘नहीं, दूर न हटो। पास आओ……और पास आओ। हाँ अब देखो, मेरी भौं हों का बाँकापन। क्या वह तुम्हें चित्र बनाने के लिए निमन्त्रित नहीं कर रहा?’

निशिकान्त जैसे किसी अज्ञात प्रभावसे दबता गया। प्रेयसी के नेत्रों के मद ने, आँठों की सुरा ने, भुजायों के बंधन ने उसे पार्थिव से अपार्थिव बना दिया। वह उड़ती वायु के समान बोला—‘प्रेयसी, प्राणवल्लभे, मैं कवि, मैं चित्रकार और तुम कविता, तुम चित्र……’

‘‘नहीं नहीं, मैं कविताका शब्द-मात्र, चित्रका रङ्ग केवल……!’’

धीरे-धीरे वाणी लुप्त होती गयी । गतिमें स्थिरता आने लगी । निशिकान्त के अपार्थिव रूपने प्रेयसीके कल्पनिक सौंदर्य-शरीर को अपनी भुजाओंमें बांधा, कसा, चाहा कि ओठों को ओठों से मिलाये । प्रेयसी उनकी भुजाओं में इस तरह लुढ़क गयी जिस तरह निद्रा आने पर शरीर लुढ़क पड़ता है । निशिकान्त ने सोचा—यह निद्रा, यह मदभरी निद्रा ! ओ प्रेयसी, यह तुम्हें शत बार, सहस्र बार, सौंदर्यमय बना रही है । अनुपम सुंदरी, तुम स्वयं सौंदर्य हो ! और उसने अपने ओठोंको धीरे-धीरे उसके रक्तवर्ण मधुर ओठों पर……

‘वह काँपा, चौंका—भूकम्प का धक्का-सा लग……’

‘यशोदे……यशोदे……न……तुम……तुम……रजनी……तुम……ओह……’

‘और तुम……मैं……तुम……’

निशिकान्त पागल-सा शून्य में ताकने लगा । लेकिन वहाँ यशोदा न थी, न रजनी । केवल प्रकाश से जगमगते कमरे में निशिकान्त कल्पना की दुनिया में दूबा-दूबा दिवाल से सटा खड़ा था और ठीक उसके सामने था एक चित्र जिसमें उसकी पत्नी रजनी लज्जा से दबी-दबी कुर्सीपर बैठी थी और ठीक उसके सामने द्रुफुल्ल मुद्रामें ताकता खड़ा था वह स्वयं । तब उसका मन ग्लानिसे भर आया— इतनी तेजी से कि उसकी आँखों में धुंधलापन छागया । उसके मस्तिष्क में एक ऐसा कड़वा विचार आकर जमगया कि सामने पड़े हुए पलङ्गके विस्तरे को उठाकर जोरसे कोनेमें फेंक दिया । दोनों हाथों से मुंह छिपाकर खोड़े पलङ्ग पर ही लेट गया, लेकिन उसकी आँखोंने न तो देखना छोड़ा, न मस्तिष्क ने सोचना । उसकी आँखें अब भी एक प्रेयसी और उसके प्रेमीको देखरही थीं । अंतर केवल इतना था कि वह प्रेयसी यशोदा न होकर रजनी थी और वह प्रेमी निशिकान्त न होकर एक अज्ञात युवक था जिसे उसने कभी नहीं देखा था ।

‘वह बड़े जोरसे चिखाया—‘नहीं-नहीं यह कभी नहीं हो सकता । यह झूठ है !’

‘क्या झूठ है ?’

‘रजनी किसीसे प्रेम नहीं करती । वह मेरी है, मेरी……!’

‘और यशोदा……?’

‘यशोदा ?……नहीं……’ मैं यशोदा को नहीं जानता । मेरा उसका कोई संबंध नहीं है !’

‘बुज्जदिल’—वह फुसफुसाया ।

‘हाँ, तुम बुज्जदिल । तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी किसीकी प्रेयसी न बने और न सारे संसारकी सुंदरियाँ तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी अङ्कशापित्री होजायें !’

निशिकान्त को किसी ने भ्रू-भोड़ डाला । वह हाँफता-हाँफता बोला—‘लेकिन तुम हो कौन……?’

‘निशिकान्त’—आवाज़ गम्भीर होकर बोली ।

‘निशिकान्त ?……’—निशिकान्त आश्चर्य से प्रतिहृत वड़बड़ाया—‘और मैं……?’

‘तुम निशिकान्तका पार्थिव रूप !’

उसे लगा जैसे कोई अव्यक्त अमूर्त पदार्थ-सा आकर उसके शरीर में इस तरह समाता जा रहा है जिस तरह शून्य वातावरण में वायु आकर फैल जाती है । तब उसने भयातुर, लज्जित, लाञ्छित की तरह आँखों को और भी जोर से दवालिया, पैरों को और भी जोर से समेटलिया और गुड़मुड़ होकर इस तरह लेट गया जैसे अपने पार्थिव शरीर को शून्य में एकाकार करना चाह रहा हो !

कितना झूठ



निशिकान्त की आँखें रहकर सजल हो उठती थीं और वह मुंह फेर कर सड़क की ओर देखने लगता था, मानो अपने आँसुओं को पीने की चेष्टा कर रहा हो। सड़क पर सदा की तरह अनेक नर-नारी पैदल, तांगे पर, कार पर, साइकिल या दूसरे यानों पर, इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे थे। उनमें अमीर-गरीब, स्वस्थ-अस्वस्थ, सुन्दर-असुन्दर, दाता-मिखारी, अच्छे और बुरे, सभी थे। कुछ चुपचाप चल रहे थे, कुछ ऊँचे स्वर में चिह्ना रहे थे, जिसकी गूँज दूर-दूर तक फैल गयी थी। कुछ फैशन की तितलियाँ — यौवन की प्रतिभाएँ, कुछ खोये जीवन की याद लिये वृद्धाएँ, कुछ अर्द्ध बालक और बालिकाएँ, कुछ रात के सिनेमा में सुने हुए गीत को गाने की चेष्टा करते हुए मस्त युवक, कुछ कुछ युग के भार से दबे हुए मनरसीदा लोग सभी आते और लिस-अलिस से, एक अदृश्य चक्कर में घूमते-घूमते, चले जाते और यह सब देखकर निशिकान्त हठात् सोच बैठता—आखिर यह बात क्या है? यह सृष्टि क्यों बनी है? क्यों उस अव्यक्त अगोचर परमात्मा को यह खन्त सवार हुआ? क्यों उसने मकड़ी की तरह यह ताना-बाना बुन डाला? और फिर इस जाले में कितना तेज आकर्षण? हाँ और पुरुष एक-दूसरे की तरफ इस प्रकार खिंचते हैं जैसे कभी वे एक रहे हों और फिर किसी के क्रूर हाथों द्वारा कभी अलग कर दिये गये हों और जब जैसे फिर एक होना चाहते हों, विलकुल उस काल्पनिक अर्द्ध-नारीश्वर की तरह! लेकिन वे अभी तक एक हो नहीं पा रहे हैं—केवल एक क्षणिक, अपरिमेय, अद्भुत और आनन्दमय आवेग के बाद अलस-उदास और धीर-गम्भीर होकर अपने ही समान अपने अनेक स्वरूपों का निर्माण करने लग जाते हैं—स्वयं स्रष्टा बन कर निर्धता की बेचकूपी को दोहराने लगते हैं और इस कार्य में उन्हें इतना आनन्द मिलता है कि मृत्यु के समान प्रसव-पीड़ा भी उनके प्राणों में उन्माद पैदा कर देती है। उनका मिट्टी का शरीर जब

उनके अपने स्वरूपों की क्लिककारियों से गुंजने लगता है तो आनंद विभोर होकर कह उठते हैं—यही तो स्वर्ग है । और इस अद्भुत सृष्टि क्रम का एकमात्र कार्य है जीवन के एकमात्र और अंतिम सत्य को प्रमाणित करना—मृत्यु जीवन का एक मात्र सत्य है—मृत्यु.....!

निश्चिन्त हठात् चौक उठा—तो क्या रजनी भी भर जायगी.....बेशक भर जायेगी...! वह फिर कातर हो उठा । जिन आंसुओं को पीने के लिए उसने इतना सोच डाला था, वे फिर दुगने वेग से उमड़ आये । उसने गरदन को जोर से झटका दिया और इस बार फिर अपनी आँखें उस विशाल बिस्किड की ओर घुमा दीं, जिसके एक कमरे में उसकी पत्नी रजनी को लेकर मृत्यु और जीवन के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था । उसने देखा, उस ब्रह्मलोक (मैटिरिनिटी हॉस्पिटल) में अंदर ही अंदर एक मुस कोलाहल, एक मधुर वेदना, एक मीठा दर्द, जागता चला था रहा है । सफेद बगुले जैसे कपड़ों में कसी नसें, तेजी से खटखट करती हुई डाक्टरनियाँ, स्टूंचर या इनवालिड चेयर थामे सहायक दाइयाँ और बार-बार दरवाजे पर आकर पुकारती हुई मिसरानी—सभी एक नियम में बंधे, सदा की तरह, मशीन के समान अपना काम करती चली जाती हैं । अभी दाई ने आकर पुकारा—‘माखती का घर बाला है !’

बेंच पर ऊँघता-सा एक व्यक्ति बोल उठा—‘जी, मैं हूँ ।’

‘लडका हुआ है !’

‘लडका...!’ नींद जैसे खुल गई—“दूध लाऊं ?”

“हाँ, इसी वक्त—और फल भी,” उसने कहा और शीघ्रता से चली गई ।

क्षण बीता । लान में अनेक स्त्री-पुरुष आये और गये । इतने में दाई फिर बाहर आई—“करुना !”

एक स्त्री दौड़ी—“जी...!”

“लडकी !”

स्त्री के साथ एक अंधेड़ सज्जन भी थे । सुनकर सब से रह गये । दूसरे क्षण बोली—“लडका और लडकी, एक ही तो आना था । जाओ, मैं दूध लाता हूँ ।”

आलोक प्रकाशन

निशिकान्त रोज इसी तरह मुनता है और देखता है भागे हुए स्त्री पुरुष आते हैं और खिलौने की तरह एक अपना ही इतिहास लेकर चले जाते हैं । रात कोई दो बजे एक स्त्री आई । बोली—“मेरे बच्चा होने वाला है ।”

नर्स ने कहा—“बेड खाली नहीं है । और कहीं जाइये ।”

“लेकिन...!” स्त्री के पति ने घबराकर कहा ।

नर्स खिजी, मुस्कराई, स्त्री को लेकर अंदर चली गई और कोई बीस मिनट बीते होंगे कि लौटकर आई — “ जाइये, दूध ले आइये । आपकी लड़का हुआ है ।”

लेकिन साथ ही निशिकान्त ने देखा एक युवक बहुत दुखी, संतप्त, अलग एक कोने में ऐसे बैठा है जैसे अभी रो पड़ेगा ।

उसने पूछा—“क्या बात है ?”

वह चौंका-सा—“क्या बताऊँ क्या बात है ।”

“आखिर...!”

“पाँच दिन से दर्द उठ रहे हैं ! बच्चा नहीं होता ।”

“आपकी पत्नी है !?”

“जी...!”

“और कौन है !?”

“कोई भी नहीं ।”

उसने गम्भीर होने की चेष्टा की और ठीक इसी समय आवाज लगी—“रानी के साथ कौन आया है ?”

“मैं हूँ” — वह युवक शीघ्रता से आगे बढ़ा ।

नर्स ने कहा— “बच्चा अटक गया है । आपरेशन होगा ।”

निशिकान्त ने देखा, उस युवक के पैर लड़खड़ाये और वह बेंच पर ऐसे लुढ़क गया जैसे दरस्त से कोई टहनी टूट कर गिर पड़ी हो । नर्स फिर आई और एक पर्ची पकड़ाते हुए बोली — “घबराइये नहीं । सब ठीक हो जाएगा । जाकर दवा ले आइये ।”

वह उठा और निश्चिन्त से बोला—(बाणी उनकी रंघ गई थी)— “ सच कहता हूँ, इस बार रानी बच गई तो.....!”

निश्चिन्त ने बीच में टोक कर कहा — “जाइये । इंजेक्शन ले आइये । जो कुछ आप करेंगे, वह सब दुनियां जानती है ।”

कह गया वहाँ एक तीखी करुणाभरी आवाज़ गुंज उठी — “ मा तुमसे बढ़ कर मेरा सहारा और कौन है ? तुम मा हो, तुम जगन्माता हो—”

देखो रोते नहीं...!

एक अथेड पुजारी माथे पर त्रिपुण्ड लगाये, गले में राम नामी साफा डाले, करुणा से विधियाता, नर्स के पैरों पर झुका जा रहा था — “ मैं लुट जाऊंगा, मेरी बाग-वाड़ी उजड़ जायेगी, मेरे छोटे बच्चे धूल में मिल जायेंगे.....!

सब कुछ कहने सुनने में अभ्यस्त नर्स ने तेजी से कहा—“शोर मत मचाओ । इलाज हो रहा है ।”

और फिर दूसरे ही क्षण धीमा पड़ कर बोली—“ उसे आज पहले से थाराम हैं । सब करना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा ।”

“ठीक होगा, मा...!”

हाँ नाँ में जवाब दिये बिना नर्स फिर चली गई । तभी लान के पीछेवाले बंगले से बड़ी डाक्टरनी तेजी से स्टेथस्कोप लिये निकली । निश्चिन्त दौड़कर उसके पास गया । डाक्टरनी ने देखा, रुकी और बोली—“क्या बात है ?”

“रजनी के...”

“हाँ-हाँ, वह आज टिकी है । खतरा पूरा है, परन्तु आशा है...”

“आपकी कृपा है, लेकिन मैं कहता था, आप पैसे की चिंता मत करना...!”

डाक्टरनी लापरवाही से बोली—“ पैसा हम लोगों के लिये चिंता का विषय कभी नहीं रहा । आप...!”

और फिर बड़ी तेजी से वह अंदर चली गई ।

पास खड़े एक सज्जन ने पूछा —“कैसे बहुत सीरियस है ?”

“जी, दस दिन से न जीती है, न मरती है ।”

“बच्चा हुआ था ?”

“जी, बच्चा तो ठीक हो गया...”

“फिर... ?”

“फिर क्या जी, अपने कर्म का लेख !”

बच्चा होने के सात दिन बाद इतना रात बाहर निकल गया कि ब्लड प्रैसर जीरो पर आ गया । खून के इंजेक्शन लगने की बात चल रही है ।”

“खून के इंजेक्शन !” साथी अचरज से बोले ।

“जी हाँ,” निशिकान्त ने कहा और तेजी से उठ खड़ा हुआ । अन्दर से उसकी मा आ रही थी । उसके चेहरे पर घबराहट थी और आँखों में तरल निराशा ।

“क्या बात है ?” उसने शीघ्रता से अपने को संभाल कर पूछा ।

मा कुछ नहीं बोली, केवल हाथ हिला दिया, भानो कहा — ‘क्या पूछते हो, पूछने का विषय ही समाप्त होने वाला है ।’

“ फिर उठने लगी है ?”

“भागती है । नतीं ने बाँध दिया है और दूर कमरे में जहाँ कि...”

“

“रह-रहकर कहती है, बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है ?”

मैने कहा—“बेटी तेरा बच्चा घर पर है ।” लेकिन मानती नहीं । उठ-उठ कर भागती है । मा रोने लगी । निशिकान्त नीचे देखने लगा । उसका हृदय बैठ गया । आँखें जलने लगी । आंसू अन्दर ही अन्दर घुआँ बन कर छुट गये । मा फिर आंसू पोंछती हुई बोली—“मैं घर जा रही हूँ । बच्चे के लिए किसी दूध पिलाने वाली को देखना है, दूध के बिना क्या वह बचने वाला है...!”

लेकिन जैसे ही वह जाने की मुड़ी, निशिकान्त का छोटा माई तेजी से साइ-किल पर आकर बोला—“जल्दी घर चलो, मा !”

मा चौंककर बोली—“क्यों रे...?”

“चलो तो !”

“आखिर...?”

वह बोल नहीं सका । रो पड़ा ।

वस, निशिकान्त समझा और समझकर हंस पड़ा — “रोता है, इतना बड़ा होकर ! दुनिया में मरना-जीना तो चले ही जाता है...!”

लेकिन भा बावली-सी बोली—“तू कहता क्या है ?”

और फिर पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ी । सड़क पर मोटर सन्नाटे से निकल गई । भाई ने साइकिल संभाली और निशिकान्त सदा की तरह हाथ कमर के पीछे बांधे हुए टहलने और सोचने लगा—“वह दुनियां, यह सृष्टि, जीवन से मृत्यु से, मृत्यु से जीवन; यह कैसा थदमुत, यह कैसा निर्माण चक्र ! यह प्रेम, यह वासना, इन सबका वही एक अंत.....!”

उसका मस्तिष्क चक्राने लगा, उसे याद आया कि युद्ध-भूमि के उस महान् दार्शनिक निर्रो ने एक स्थान पर लिखा है—छी एक पहेली है जिसका हल बच्चा है ! इतने में कई नसें मुस्कराती हुई उसके पास से निकल गईं । एक ने निशिकान्त को देखा और कहा—“आज रजनी बेहतर है !”

“शैक्स, सब आपकी मेहरबानी है !”

“लेकिन उसके बेबी का ख्याल रखियेगा !”

निशिकान्त एकदम कांपा । नर्स ने उसी तरह कहा—“जब तक आप धाय का इंतजाम करें, तब तक अपनी भावज का दूध ही पिलाइये । रजनी हर वक्त बच्चा-बच्चा कहती रहती है !”

“जी, ” निशिकान्त ने कहा—“बच्चा बिलकुल ठीक है । धाय का प्रबंध कर लिया है !”

दूसरी नर्स बोली—“कभी यहां भी लाइये !”

“जरूर लायेंगे जी !”

वे चली गईं । निशिकान्त की आंखें एक वार फिर आंसुओं से भर आईं ।

वह गुनगुनाया—स्त्री एक पहेली है और बच्चा उसका हल...!

छोटी डाक्टरनी मुस्कराती हुई वहाँ आई । निशिकान्त को देखकर ठिठकी और अंग्रेजी में बोली—“मि० निशिकान्त, रजनी आज बेहतर है !”

निशिकान्त ने हाथ जोड़े और कृत्य-कृत्य होकर कहा —“बहुत धन्यवाद । वह आपके कारण जीवित है । आप कितनी मेहरबान हैं !”

डाक्टरनी ने सुना अनसुना करते हुए कहा—“उसका बच्चा कैसा है ?”

“बिलकुल ठीक है...?”

“यह ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, रजनी बच्चे के लिये जरूरत से ज्यादा चिंतित है ।” फिर दो चार इधर उधर की बातें करके वह चली गई और सचाटा वहाँ छा गया । धूप में भी तेजी आने लगी, पर निशिकान्त उसी तरह सोचता हुआ टहलने लगा । परदेश से आई कोई स्त्री एक कोने में खड़ी थी । उसने भी निशिकान्त को देखा । पूछ बैठी—क्यों भैया, वह का क्या हाल है ?”

“अभी तो चल ही रहा है ।”

स्त्र को संयत बना कर वह बोली—“मैं कहती हूँ, इतनी देर जो लगी है, इसी में भला है । यह तो भरने में ही देर नहीं लगा करती । लेकिन बच्चा तो ठीक है न ...?”

“बिलकुल ठीक !” उसने एक दम कहा और फिर चुप हो गया ।

दोपहर भी बीतने लगी । मिलने का वक्त भी आने लगा । फिर कोलाहल शुरू हो गया । नर-नारी फिर बातें करने लगे । इस बार बहुत से बच्चे भी तोतली बानी में अपने छोटे भाई बहनों की चर्चा करने लगे । कुछ थे जो हंस रहे थे, कुछ के चहरो पर चिंता की गहरी रेखा थी । कोई लड़के की बात कहता, कोई लड़की की । कोई मौत की चर्चा भी छेड़ देता । निशिकान्त ने सब की बातें सुनी और अपनी सुनवाई, कहा—“भाई साहब, दुनियाँ का चक्कर इसी तरह चलता है । लड़का-लड़की, जिंदगी-मौत, सुख-दुख—ये सब अपनी अपनी राही में आना ही करते हैं ।”

“जी, ” उसकी बात सुनकर एक बोल उठा—“आप ठीक कहते हैं ।”

दूसरा कहता—“आप कहते तो ठीक हैं परन्तु हमने तो कभी जिंदगी में सुख देखा नहीं...”

एक तीसरा व्यक्ति बीच में ही बोल उठा—“तो आप मर जाइये...!”

बहस तेजी से चलती, लेकिन घंटी बज उठी और भीड़ बढ़ी तेजी से अंदर की तरफ भागी । निशिकान्त आज अकेला था । भाई अन्य रिश्तेदारों के साथ जमुना पार गये थे । मा आ नहीं सकी थी । वह अकेला ही चुपचाप रजनी के कमरे की ओर चला गया । उसने देखा — चारों ओर हंसी-खुशी का कोलाहल गूँज उठा है ।

केवल सबेरे वाले पुजारी ने व्यग्रता से गुमसुम पड़ी अपनी पत्नी को देखा और रो पड़ा—“सोना, मेरी सोना, वू बोल तो...!”

नर्स चिल्लाई—“खबरदार जो यहां रोये !”

दूसरी तरफ एक युवती ने घबराकर पति से कहा—“ मैं मर जाऊंगी । यहां डर लगता है ।”

दूसरी स्त्री ने पति से पूछा—“बच्चे को देखा है ?”

“नहीं ।”

“वह देखो, नम्बर चार पाएने में है । बिलकुल तुम पर पड़ा है ।”

“सच !” और फिर वे दोनों मुस्करा उठे ।

तीसरी स्त्री अपनी भावजों से चुपचाप बातें करने लगी । चौथी स्त्री की मा आई थी । पूछने लगी—“डाक्टरनी क्या कहती है ?”

“ठीक हो जायगा ।”

“कब तक ?”

“दो चार दिन लगेंगे !”

पांचवी युवती ने पति से शिक्षायत की—“तुम बड़े शैतान हो । मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया !”

पति मुस्कराया—“दो चार महीने बीत जाने दो, तब पूछूंगा !”

दोनों हंस पड़े । लेकिन इन सबसे बचकर दूर कमरे में निशिकान्त अपनी पत्नी

के सामने जाकर खड़ा हो गया । सफेद चादर की तरह फूली हुई लारा के सामान रजनी ने उसे आंख उठा कर ऐसे देखा जैसे अबोध बालक अपने चारों तरफ देखता है । उसने शायद मुस्कराना चाहा, शायद मुस्कराया भी—चेहरे पर एक अव्यक्त सा भाव आकर चला गया ।

फिर धीरे से बोली—“तुम...?”

निशिकान्त का दिल टूट रहा था, पर उसने अपनी सारी कोमल शक्ति बटोर कर कहा—“अब तो तुम ठीक हो ।”

वह बोली नहीं, वार्ये हाथ को उठाकर जोर से पटक दिया ।

“नहीं-नहीं,” निशिकान्त ने कहा—“ऐसे नहीं करते ।”

रजनी बोली—“बच्चा...!”

वह बोला—“हां, तुम्हारा बच्चा बिलकुल ठीक है ।”

“झूठ !”

“नहीं-नहीं, वह घर पर है । उसे दूब पिलाने के लिये थाय रक्खी है ।”

वह आंखें गड़ाकर देखने लगी, लेकिन उन आंखों में क्या था, यह कोई नहीं बता सकता । निशिकान्त ने उसकी आंखों पर अपना हाथ धर दिया । कहा—“एक दिन उसे यहाँ लायेंगे ।”

और कहकर उसने महसूस किया कि उसकी आंखों की पुतलियाँ जोर से घूमती । कुछ गीला-गीला लगा । उसने हाथ उठा लिया आंख की एक बूंद उसके हाथ से चिपक कर रह गई । उसने हठात् अपने को संभाला । बोला—“रजनी !”

“जाओ...!”

“रस पीओगी ?”

“नहीं...!”

“कैसी बातें करती हो, पी लो...”

चाणी जैसे कुछ खुली—“तुम अभी तक नंगे नहीं ? जाओ, नहीं तो ये नसें तुम्हें जहर दे देंगी !”

निशिकान्त ने कुछ कहना चाहा, परन्तु वह बाहर चला गया। बाहर वही कोलाहल ! बच्चों की किलबिल किलबिल, स्त्रियों का धारा प्रवाह प्रेम स्नेह और भयभरी चिंता, पुरुषों की गर्भरी मन्त्रणा। कभी नर्सों का खटखट करते आना, दवा पिला जाना कभी इनवैलिड चेयर पर किसी स्त्री का दर्द से कराहते हुए जाना। यह सब देखता देखता निशिकान्त अन्दर के लान में टहलता रहा कि वक्त खतम होने से पहले एक बार फिर पत्नी को देख जाय लेकिन जैसे ही वह अन्दर गया, रजनी ने अजीब घबराहट से भर कर कहा—“फिर आ गये ?”

निशिकान्त बिना बोले सिर पर हाथ फेरने लगा !”

“सब मर गये—नर्सों ने सबको मार डाला !”

“नहीं...!”

“जाओ...!”

“.....”

“सब खतम — बचा भी खतम !”

“बच्चा विलकुल ठीक है। तुम देख लेना !”

तभी नर्स ने कहा—“बहुत मत बोलिये मि० निशिकान्त !”

और तब वह दो-चार शब्द सांत्वना के कहकर बाहर चला गया। उसका दिल भर आया। उसने आंसू पोंछ डाले। सब कोलाहल समाप्त हो गया था। केवल रात का चपरासी वरामदे में टहल रहा था। उसने निशिकान्त को देखा “बाबूजी, अब ठीक है न ?”

“कुछ है तो...”

“बस बाबूजी, अब सब ठीक होगा। मैंने इससे बढ़ कर बुरे केस देखे हैं। एक लालाजी आये थे। उनकी लड़की सूजकर मांस का पिण्ड बन गई थी...”

रोज की तरह फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगा जिसमें धूम-फिर कर अपनी तारीफ करना उसका लक्ष्य रहता। कहता—“आदमी की पहचान किसी किसी को होती है। सब कहता हूँ, आप हैं जो आदमी की कदर करते हैं। कभी खाली हाथ नहीं आते।

हर वक्त दुआ मांगता हूँ कि खुदाबन्द करीम इन बाबूजी का भला करना ।”

पूछ बैठे—“बच्चा कैसा है ?”

“विलकुल ठीक ।”

“खुदा का शुक्र है । वह जी भी विलकुल ठीक होंगी ।”

निशिकान्त कांप उठा न जाने क्यों ? तमो बाहर की सड़क पर खोमचेवाले ने धावाज लगाई । नर्स ने खिड़की से झाँककर कहा—“ओ शरीफ !”

“जी हुजूर !” चपरासी भागा ।

“खोमचेवाले को जरा बुलाओ । उसके पास चाट है न ?”

लेकिन वह रसगुल्ले बेच रहा था । थड़ी-बड़ी आँखों वाली उस नर्स ने कहा—

“हम चाट मांगता है !”

शरीफ ने कहा—“खाइये, मिस साहेब, बच्चा मीठा है !”

“अच्छा तो ले आओ, लेकिन पैसे तुम देना । मेरे पास इस समय नहीं है ।”

“पैसे !” शरीफ हंस पड़ा —“मेरे पास और पैसे !”

एक क्षण सन्नाटा छा गया । खोमचेवाले ने नर्स को देखा, नर्स ने शरीफ को और शरीफ ने बाबू निशिकान्त को । निशिकान्त का दिल टूटा पड़ा था उसे इन सब से नफरत हो रही थी खोमचेवाले ने फिर कहा—“जाऊँ हुजूर ?”

निशिकान्त एक दम बोल उठा—“जाओ नहीं, पैसे मैं दूँगा ।”

“नहीं-नहीं,” नर्स ने शीघ्रता से कहा ।

“कोई बात नहीं । अरे, मिस साहब को मीठे रसगुल्ले दो !”

नर्स तब मुस्कराते बोली—तुम बड़े अच्छे हो । रजनी आज बेहतर है । आपका बच्चा कैसा है ?”

निशिकान्त ने कहा—“ओ० के० !” और मुड़कर बोली—“लो शरीफ, तुम भी लो !”

“अजी नहीं बाबूजी,” शरीफ ने कहा और हाथ फैला दिये ।

नर्स बैकस देकर मुस्कराती हुई अन्दर चली गई । शरीफ वहाँ खड़ा-खड़ा खाने

लगा ।

चारों ओर अञ्छा खासा धुंधलापन छाया था । निशिकान्त के दिमाग में कल्पना फिर उभड़ने लगी । सोचने लगा—बच्चे को पत्थर से बांधकर जमुना में डाल दिया होगा...जल के जन्तु उसे खाने दौड़े होंगे...वह मेरा बेटा था...मेरा अङ्ग ...मेरा स्वरूप... मेरे और रजनी के प्रेम का साकार प्रतीक !

और फिर यह प्रेम, यह वासना, यह क्री और पुरुष—यह सब जीवन और मृत्यु के बीच एक संघर्ष मात्र...!

शरीफ बोल उठा—“अरे, आप नहीं खा रहे हैं, वायू जी !”

निशिकान्त चौंका—“मैं ...!”

“हां, आप भी खाइये न ?”

“मेरे पेट में जोर का दर्द है, शरीफ, मैं नहीं खा सकता !”

कहकर निशिकान्त वहाँ से हट गया । उसकी कल्पना कभी उसे अपने निष्पन्द, निश्चान, जमुना के तल में समाये बच्चे को देखने को विवश करती, जिसे खाने के लिये जीव जन्तु दौड़ पड़े हैं, कभी मृत्यु शय्या पर पड़ी रजनी दिखाई पड़ती जो अपनी खाली आँखें खोले खोई-सी कुछ टूटने की व्यर्थ चेष्टा में लगी है और इन कल्पनाओं में दूबा वह चौंक पड़ता जैसे कोई पूछ रहा हो—“बच्चा कैसा है ?”

तभी वह मुस्कराकर उत्तर देता—“बिलकुल ठीक है !”

लेकिन अचरज यह कि इस सारे कम्पाउंड में निशिकान्त के अतिरिक्त और कोई नहीं था । उसने गम्भीर होकर अपने आपसे कहा—“रजनी को बचाने के लिये मेरे अन्दर इतनी तीव्र खालसा क्यों, क्यों मैं उसे मरने नहीं देना चाहता, क्यों मैं...?”

और इस ‘क्यों’ का सम्भावित उत्तर सोचकर निशिकान्त बड़े जोर से हिल उठा—“नहीं-नहीं.....?”

लेकिन उसकी यह नहीं-नहीं भी इस ‘क्यों’ के सम्भावित उत्तर की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकी !

निशिकान्त का स्वप्न



निशिकान्त भारत के मध्य-वर्ग का एक व्यक्ति है । काफी सुंदर गठीला परन्तु शरीर रोगों का वर है । मन उसका अपेक्षाकृत स्वस्थ है, अध्ययन काफी है और खर्च भी एक सुंदर लेखक है । परन्तु जहां तक पेट का सम्बन्ध है वह एक सरकारी दफ्तर में कागज पीट कर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा करता है ।

यह उसके जीवन का संक्षिप्त स्केच है परन्तु यह संक्षिप्तता ही तो जीवन नहीं है । इन सूत्रों की बड़ी लम्बी व्याख्या है । मध्यवर्गीय होने के कारण उसे समाज में कोई उँचा पद नहीं मिला है । भेड़ों के गल्ले की एक भेड़ की तरह वह समाज का एक साधारण सा व्यक्ति है। साहित्यिक होने के नाते उसका मानसिक-विकास अपनी श्रेणी से बहुत आगे बढ़ गया है । अस्वस्थता के कारण उसमें भावुकता और हीन भाव का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है । साथ ही मानसिक विद्रोह काफी तेज है । उसका मुख्य कारण सरकारी दफ्तर की नौकरी है, जहां उसकी कीमत साबुन से नहलाये जाने वाले कुत्ते से भी कम है । इसी कारण इस सांस्कृतिक-विकास, विद्रोह, भावुकता और जबरदस्ती से पैदा हुए हीनभाव ने निशिकान्त के जीवन में एक आग लगा रखी है । उस आग में वह खर्च ही झुलसता रहता है । बचने का कोई रास्ता उसे सूझता नहीं । सूझे भी कैसे ? न तो उसमें प्रारम्भिक जातियों का विकास है, न धार्मिक मदान्धों की श्रद्धा । बुद्धिजीवी प्राणी की तरह तर्क पर तर्क उसे जहां का तहां समेटे है । उदाहरण के लिए उसके जीवन की असंख्य घटनाओं में से एक दो घटनाएं दी जा सकती हैं । सच तो यह है उसका वर्तमान जीवन इन्हीं परस्पर विरोधी घटनाओं का जमघट मात्र है । अभी उस दिन वह दफ्तर से लौट रहा था । मन दुखी था क्योंकि काफी खताड़े पड़ी थी सोच रहा था ऐसी नौकरी से डकैती भली । मैं जरूर स्तीफा देकर

डाकू बनूँगा । इस समय अगर कोई उसे गौर से देखता तो उसका सुंदर चेहरा विकृत हो उठा था । आँखें मूँछा से भरी थीं । शरीर कांप-कांप उठता था और वह बार-बार तीव्रता से बोलने लगता था । सहसा कहीं दूर वातावरण में नारों की सदा गुंज उठी । वह चौंका, ठिठका और देखा, सामने से सिपाहियों के बीच में राजबन्दियों का समूह था रहा है । वे ही बंदी बार-बार पुकार रहे हैं—

‘महात्मा गांधी जिंदाबाद !’, ‘मौलाना आजाद जिंदाबाद !’ इत्यादि-इत्यादि ! उनमें जोश था और थी मर मिटने की उमंग । उसके हाथ लोह-शृंखलाओं में बंधे थे परन्तु हृदय उमड़ पड़ता था देश माता के चरणों में । उनकी चाल पर अकुंश था परन्तु मन की गति वह रही थी देश भक्ति की पवित्र धारा में । उसने उन्हें जाते देखा, उनके नारों को सुना, उनके अद्भुत प्रकाश से चमकते हुए मुखों पर दृष्टि डाली । जैसे वह लज्जा से जकड़ा गया । कितना कर्मीना हूँ मैं ? कितना लुट, कितना निन्दनीय ? उन्हीं के घेर चाटता हूँ जो मुझे ठुकराते हैं । उन्हीं की बातों के गीत गाता हूँ जो मुझे और मेरे कारण मेरी मां को गाली देते हैं.....।

“नहीं-नहीं । मैं अब यह नहीं सह सकता ।”

“मैं आज ही स्तीफा दे दूँगा।” और दूसरे ही क्षण जो दीन-भाव उसमें भर चला था वह विद्रोह में पलट गया । उसकी गति तीव्र हो गयी । छाती में दृढ़ता भर आयी और कल सरकारी-दफ्तर में बैठने की कल्पना भी कष्टकर मालूम होने लगी । लेकिन उसी संघ्या को जब उसने कलम उठा कर कागज पर लिखना चाहा — मुझे दुःख है कि मैं अब आपकी नौकरी करने में असमर्थ हूँ तो न जाने कहीं से आकर एक तिनका कलम की नोक में चुस गया । कागज पर एक लम्बी भौंडी लाइन सी खिंच कर रह गयी । अब क्या था, अकुंश के पड़ते ही तर्क अबोध गति से बहने लगा । क्या बाहियात बात है—वह खीभ उठा ।

“बाहियात बात-यही है कि तुम स्तीफा दे रहे हो ।”

“वह बाहियात बात है । यह तो गौरव की बात है । मैं देश की बेइज्जती नहीं सह सकता ।”

कोई जोर से हंस पड़ा—“देश की इज्जत ! क्या करोगे तुम इस इज्जत की रक्षा के लिए ।”

“मैं क्या करूँगा ? मैं देश का भ्रमण करूँगा । स्थान-स्थान पर व्याख्यान दूँगा और देश के वास्तविक जीवन की कथाएँ लिखूँगा ।”

“और पेट की कथा.....।”

“पेट की कथा ? क्या तुम समझते हो मुझे पेट भरने योग्य पैसे नहीं मिलेंगे ?”

“मैं नहीं कहता । तुम ही कहा करते हो साहित्य पेट भरने का धंधा नहीं है । मन में जैसे ठेस लगी लेकिन उसने कहा—“देश की सेवा के लिए जीवन धारण करना जरूरी है ।”

“और देश अंधा नहीं है.....।”

“देश अंधा नहीं है लेकिन तुम्हारा शरीर जरूर अंधा है जो बार-बार टोकर खाकर गिर पड़ता है । तुम इसे ही नहीं संभाल सकते फिर किस विरते पर देश को संभालने का हौसला करते हो ।”

तर्क फिर कुण्ठित होने लगा.....।

“और तुम्हारी परनी है, कल को बच्चा भी होगा । छोटे भाई है जिन्हें तुम पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते हो.....।”

मन दुविधा से भर उठा, कलम हाथ से गिर पड़ी और सिर मेज पर दे भास-तो मैं क्या करूँ ?

लेकिन उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा । केवल अगले दिन सवेरे रोज की तरह कोट कन्धे पर लटकया और दफ्तर चला गया ।

इस प्रकार निशिकान्त बाबू के जीवन में स्तीफा देने की घटनाएँ तो अनेक हैं परन्तु स्तीफा देने की घड़ी कोई नहीं है । साहित्य-जीवन में भी यही समता उसे जकड़े हुए है । एक सम्पादक ने उसे लिखा — आप हमारे साहित्य के अग्रदूत हैं । कृपा कर शीघ्र ही विशेषांक के लिए कोई सुंदर रचना भेजिए ।

साहित्य के अग्रदूत निशिकान्त ने उसी दिन एक कहानी लिखनी शुरू की और समाप्त होने पर भेज दी । लेकिन विशेषांक तो क्या अनेक साधारण अंक भी उस कहानी को छापने का गौरव नहीं पा सके । वह झुंझला उठा—कैसे कमीने हैं ये लोग ? मैं अब कमी भी इन्हें अपनी रचना नहीं भेजूंगा ।

यह बात उसने सोची ही नहीं, उन्हें लिख भी दी लेकिन उसके सात-आठ माह बाद उन्होंने संपादक का पत्र मिला—क्या आप कृपा कर कोई कहानी न भेजेंगे । सहती कृपा होगी । तो सच जानिये निशिकान्त बाबू के मन में लेश मात्र भी विद्रोह नहीं था । उन्होंने कलम उठायी और लिख दिया—शीघ्र ही आपकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करूंगा ।

निशिकान्त बाबू के जीवन की धारा इसी गिरती-उठती गति से बहती जा रही थी । उसमें उवाल था और नीचे थी उवाल के बाद आनेवाली शिथिलता । इसी कारण विद्रोह कमी फूटता नहीं था । अन्दर ही अन्दर उसकी आत्मा को कचोटता रहता था लेकिन आजकल इन्होंने निशिकान्त बाबू के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता जान पड़ रहा था । उस परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या करना तो बड़ा कठिन है परन्तु यह निश्चित था कि उनके भीतर कुछ करने की तीव्र इच्छा बलवती हो रही थी । इन दिनों देश-देश में अशांति थी और वातावरण में विद्रोह । जगह-जगह महानाश और महाप्रलय के दृश्य स्पष्ट थे । जगह-जगह पाशविकता और पैशाचिकता पार्थिव रूप में प्रगट हो चुकी थी । मानव की लुधा इतनी उग्र हो उठी थी कि वह अपने को ही खाये जा रहा था । इसी महाप्रलय के बादल निशिकान्त के देश पर भी छाते जा रहे थे और उसका मन उन्हें देख-देख कर उमड़-धुमड़ उठता था ।

वह सोचा करता था—क्या हम कमी आजाद नहीं हो सकते ? क्या हम सब देशवासी मिलकर दुश्मन के दाँत खट्टे नहीं कर सकते ? वह सोचता ही नहीं था बल्कि मित्रों को लेकर जोरदार बहस करना भी उसका काम हो गया था । ऊपर के कमरे में जाकर किन्नाइ बंद कर के वह अपने अंतर की आकुलता को इस प्रकार प्रगट करता कि उसके साथी आवाक रह जाते । लेकिन उसके साथी भी कम भावुक नहीं थे । उस समय

तो बात ही ऐसी थी कि देश के प्रत्येक प्राणी के भीतर अनेक प्रश्न आप ही आप पैदा होने लगे थे । उन भिन्नों में कई पक्के कांग्रेसवादी थे । उनका विचार था कि अंग्रेजों से बढ़ कर हमारा कोई दुश्मन नहीं है । इन्होंने हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक सब प्रकार से नाश किया है । इनको निकाले बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता, कमी नहीं हो सकता । वे कहते — निशिकान्त वावू तुम, तुम तो इस प्रश्न की कल्पना भी नहीं कर सकते । तुम उनके टुकड़े खाते हो, तुम गुलाम हो ।

निशिकान्त तिलमिला उठता लेकिन दूसरे साथी कहते—वेशक अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं । वेशक इन्होंने पूंजीवाद को जन्म देकर संसार का नाश किया है, परन्तु आज जो दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है वह इन से कहीं बढ़कर जातिम है । वह हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व का दुश्मन है । उसके हाथों में हमारी माँ-बहिनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है.....।

कांग्रेसी बोल उठता—इन्होंने ही कौनसी कसर छोड़ी है ?

लेकिन—कम्युनिस्ट तर्क करता — लेकिन आज उनका और हमारा स्वार्थ एक है । आज वे जनता का पक्ष लेकर फासिस्ट शक्तियों को कुण्ठित करने चले हैं । आज हमारा कर्तव्य है हम उनके साथ मिल कर उस सार्वजनिक दुश्मन का नाश करें ।

राजमहत्त भी थे । वे बोल उठते—तुम इन्हें दोष देना जानते हो । तुम अपनी गुलामी के लिए आप ही जिम्मेदार हो । सदा कुत्तों की तरह लड़ते हो । तुम्हें मिलकर बैठना किसने सिखाया ? तुम्हें देश-भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया । किसने बढ़-बढ़ कर बोलना बताया । इन्हीं अंग्रेजों ने तो जिन्हें तुम पानी-पीकर कोसते हो । काश कि जर्मनो का फ्यूर तुम्हारा राजा होता तो तुम देखते गांधी और आजाद, नेहरू और प्रसाद किस तरह सूती पर लटकाये जाते हैं.....

और फिर यह बहस इतनी तीव्र हो उठती कि शब्दों के स्थान पर नयनों की फुंकार ही घुनायी पड़ती । नीचे चौक में बरतन धोती-धोती निशिकान्त की पत्नी रजनी सोवती—क्या हो गया है इन लोगों को ? क्या लड़ते हैं इस जमाने में ? यही

सोचती-सोचती उठती, लालटेन जलाती और चुपचाप जरा किवाड़ धकेल कर अंदर रख जाती। सहसा बहस की तीव्रता लालटेन के प्रकाश में अंधकार की तरह भंग हो जाती। निशिकान्त कहता—“अरे ! संध्या आगयी !

साथी कहते—“इतनी देर !!”

और फिर वे उठते जाने के लिए। तब निशिकान्त कहता—“लेकिन मित्रों ! मैं एक बात कहता हूँ ये फासिस्ट शक्तियाँ बर्बर हैं। इनका मुक़बल्ला करना हमारा फर्ज है, यह आप सब मानते हैं।”

साथी कहते बारी-बारी—“वेशक ! इससे कौन इंकार करता है ?”

“तो फिर”—निशिकान्त कहता—“तो फिर क्यों नहीं हम मान लेते कि हम आजाद हैं। भारत हमारा देश है और हमें फासिस्ट दुश्मन से लड़ना है। अगर हम फासिस्टों को हरा सके तो क्या अंग्रेज हमें गुलाम रख सकेंगे ?”

लेकिन यह अंग्रेजोंवाली बात किसी को टिकने नहीं देती। कांग्रेसी कहते—“इन्हें निकाले बिना हम नहीं लड़ सकते। राज-भक्त कहते—“हम इनके बिना नहीं लड़ सकते। और इसी तरह होते-होते देश में एक दूसरा तूफान पैदा हो गया। कांग्रेस वालों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। वे पकड़े गये। विद्रोह फूट पड़ा और दबाया भी गया लेकिन आग नीचे-नीचे सुलगती रही। उधर युद्ध प्रयत्न भी चलते रहे। बात चीत भी चलती रही।

कैसा अद्भुत देश है भारत !—निशिकान्त ने सोचा। उस क्षण जैसे उसे लगा यह भारत उसका देश नहीं है। न जाने कहाँ से लाकर वह उसमें पटक दिया गया है। इस कल्पना ने निशिकान्त को तथिक सुख तो पहुँचाया परन्तु वह सोच नहीं सका कि कौन सा देश उस गुलाम भारतवासी को अपना निवासी मान सकेगा।

दूसरे ही क्षण वह काँप उठता—“ब्बी ! कैसा मूर्ख हूँ मैं ? जन्म-भूमि के प्रति यह घृणा मुझमें क्यों उपजी ? मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत पर गर्व है। वह आज गुलाम है। तो क्या कभी आजाद नहीं होगा। यह असंतोष, यह अशांति, यह मानोमालिन्य। सभी उस प्रभात की सूचना देने वाले हैं जो प्रकाश और जीवन का जन्मदाता है।”

(२)

लेकिन इस सब काल्पनिक संघर्ष के अतिरिक्त उसके मन में कई ऐसी बातें थीं जो उसे बेचैन बनाये हुई थीं जिसके कारण उसकी पत्नी रजनी को यह संदेह हो चला था उसका पति उससे अधिक सुंदरी की खोज में तो नहीं भटक रहा है ।

भारत की मध्यवर्गीय नारी इससे अधिक जानती ही क्या है उसका विवाह होगा और विवाह के बाद होंगे बच्चे, एक के बाद एक, गुलामी की गिनती बढ़ाने के लिए । यह दूसरी बात है गुलामी में से ही गुलामी मिटानेवाले पैदा हो जाते हैं ।

निशिकान्त इसी सत्य को पहचान रहा था भारत पर फासिस्ट शक्ति ने आक्रमण किया तो इस भारतीय नारी का क्या होगा ? यों तो मर की बात उसने अपनी परदादी से सुनी थी । स्वयं उसकी दादी भागते-भागते एक खेत में पैदा हुई थी और नाल कटा था तीन कोस पर एक गाँव में । मुसीबत के वक्त सबको रास्ता सूझ जाता है, परन्तु जीवन के लिए भागना और अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ देना ही तो अंतिम ध्येय नहीं है । इसी के 'कारण' को ही मिटाने के लिए चेष्टा क्यों नहीं की जानी चाहिए ? इस प्रश्न के अनेक उत्तर थे । निशिकान्त उन्हीं को लेकर उलझ जाता । पच्छिम की वीर नारियों, विशेष कर रूस की वीरानाथों की कहानी वह रोज पढ़ता था । पढ़ कर उसके भावुक दिल पर एक चित्र सा खिंच जाता था साथ ही साथ थड़कन भी पैदा हो जाती थी.....।

लेकिन जब जरा संयत होता तो वह सोचता — मैं इस नारी की बात तो सोचता हूँ परन्तु भारत का अधिकांश पुरुष वर्ग भी तो उन्हीं के समान जीवन की ममता में फंसा है । यदि तुलना की जाये तो सम्भवतः उससे कहीं बढ़ कर भाग्य की बेड़ियाँ उसे प्यारी हैं.....।

यह ख्याल आते ही उसका दिल घृणा से भर उठता और उसे याद आ जाता थे लोग जो अपक का कारण मिटाने के लिए डॉक्टर की दूकान पर धक्के खाते फिरते हैं परन्तु आवश्यकता से अधिक रौटी उस मनुष्य को देने से इंकार करते हैं जो भूख का दर्द मिटाने के लिए उन्हीं की तरह डॉक्टर का मोहताज है । वह जानता है कि १९४२ की

विष्णु

दुनिया में रोटी कितनी महँगी है तो भी मध्यवर्गीय लोग भाग्य से चिपटे हुए हैं । उनमें तनिक भी असंतोष नहीं है । इसीलिए जीवन नहीं है । दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जीवन के साधनों को दुनिया की नजर से दूर रखने की चेष्टा में लगे हैं । जब रोटी सोने के मोल विकें तो वे सोना बटोर कर अमीर बन सकें.....।

निशिकान्त के दिमाग में यही प्रश्न पेचीदगी पैदा किये रखते हैं । यूँ तो वह भी दुनिया की तरह दुनिया के सब काम करता है, परन्तु उसमें पहली जैसी प्रफुल्लता और श्रुति नहीं रह गयी है । इसलिए रजनी ने एक दिन पूछा—“जी अच्छा नहीं रहता आपका ?”

“ठीक है ”—उसने आलस्य से कहा ।

“ठीक है ?”—रजनी बोली — “तो.....।”

जैसे उसे एक दम अपनी गलती मालूम हुई । मुस्करा उठा बोला — “रजनी इस युद्ध के कारण काम इतना ज्यादा है कि संध्या को उठते-उठते थक जाता हूँ ।”

रजनी ने कहा—“तीन साल तो हो गये इस युद्ध को न जाने कब तक और चलेगा ?”

“कौन जाने ?”

क्यों जी ! कौन जीत रहा है अब अंग्रेज या जर्मन ?”

पता नहीं—अलसाया सा निशिकान्त बोल उठा । थदर ही अंदर खींझा भी ? केसी है ये पढ़ी-लिखी युवतियाँ ? इतना भी नहीं जानती ! उधर वे हैं कि सारे देश का भार कंधों पर लिये धूमती हैं ।”

और वह बात एक दो रूखे प्रश्नोत्तर के बाद समाप्त हो गयी । निशिकान्त बोला—“मैं धूमने जा रहा हूँ ।”

ऐसा अनेक बार होता था । रजनी दूर रात गये तक अकेली बैठी तारे गिना करती थी । उस अनन्त आकाश में केवल वह सप्तर्षि-मंडल को पहचानती थी । उसी के सहारे समय का पता भी लगा लेती थी । कभी मन नहीं लगता तो कोई पुस्तक पढ़ने लगती लेकिन ज़रूर तक निशिकान्त लौटता वह पुस्तक धीरे-धीरे रजनी की

आँखों के आगे से हट कर उसकी छाती पर आ लेटती । निशिकान्त आकर जगाता—
“रजनी । उठी ऊपर चलो ।”

रजनी रोज उठ कर कहती “क्या मैं सो गयी थी । अभी तो पढ़ रही थी !”
कमी-कमी निशिकान्त कहता— “ डर नहीं लगता तुम्हें किनाड़ खुले रहते
हैं ?”

रजनी को डर तो लगता था परन्तु कह देती थी— “ बंद मोहब्बा है जी ।
आने के लिए साहस होना चाहिए ।”

लेकिन एक दिन उसी तरह रजनी किताब पढ़ते सो गयी और जब अचानक
आँखें खुली तो कमरे में लालटेन जल रही थी । ऊपर देखा तो सप्तर्षि नीचे उतर चुके
थे । अचकचा कर उठ बैठी—अरे.....।

तभी उसने देखा — सामने मेज पर कोई बैठा है । वह कांपी, ठिठकी ।
लेकिन नहीं—

उसने कहा— “अरे ये तो वे हैं । शायद पढ़ रहे हैं ।”

उठ कर कमरे में आयी मुस्करा उठी । आज निशिकान्त पढ़ते-पढ़ते सो गये थे ।
एक हाथ में पुस्तक थी और दूसरे हाथ पर सिर रखा हुआ था । केवल काले बाल
प्रकाश में चमक रहे थे । वह पास आकर बोली—“अजी, आप सो गये, उठिये !”

निशिकान्त नहीं उठे । उठते कैसे ? वे तो बहुत देर से अपने नगर में
फासिस्ट-सेना का सफल मुकाबिला कर रहे थे । वे जब चारों ओर से निराश हो गये
उन्होंने अपने जैसे अनेक युवकों को इकट्ठा किया ।

उसे अचरज हुआ जब उसके अकेले प्रयत्न के बावजूद एक अच्छी खासी सेना
इकट्ठी हो गयी । उस सेना का नाम ‘नागरिक सेना’ था और उसकी पहचान केवल एक
शुभ संकेत था । उस सेना में अधिक छोटी-छोटी उमर के लड़के थे जो जंग के बारे में
बहुत कुछ नहीं जानते थे लेकिन रोमांस उन्हें प्रिय था और इसी कारण वे जंग की
भयानकता में रोचकता अनुभव करते थे ।

सहसा एक दिन उन्होंने सुना फासिस्ट-सेना शीघ्र ही उनके नगर के पास आने

बाली है। भाग्य से उनके नगर के चारों ओर एक बड़ा जंगल था। उसमें बड़े और घने दरख्त तो नहीं थे परन्तु आदमी को छिपा लेने वाले झाड़ों की कमी नहीं थी। उस दिन उनके एक उपनायक ने आकर कहा—“सेना का एक भाग जङ्गल के उत्तरी इलाके में फैल चुका है।”

“और गाँव में ?”—नायक ने पूछा।

“अभी नहीं। लेकिन वहाँ पर खेतिहारों का एक दस्ता जान पर खेलने को तैयार है।”

“विश्वासघात का डर तो नहीं है ?”

“नहीं और फिर उपनायक अनवर गुरुरूप से उनमें मौजूद है।”

“जहरीले पदार्थों की कमी नहीं है ?”

“नहीं।”

“और दिल में आग लगा देने वाले करथक वहाँ पहुँच चुके हैं ?”

“जी।”

“तो तुम पच्छिम की ओर बढ़ कर उन गाँवों में चले जाओ जहाँ नागरिक-सेना के वे सिपाही पहुँच चुके हैं जिन्हें फासिदों का मुकाबला करना है।”

“आज्ञा सेनानायक।”

हाँ, और लवनसिंह को भेरे पास भेजते जाना।”

संकेत कर के उपनायक वीरसेन चला गया। निश्चिन्त ने तीसरे दरख्त की पूँजी पर सरसरी निगाह डाली। दो-तीन नाम उन्हें याद आये—करमसिंह, उमर और किसन। उसी समय लवनसिंह ने आकर संकेत किया। वह एक गठे हुए बदन का सिख था। उसके कपड़े एक गरीब किसान के थे और उसने लाठी के सहारे एक पुट-लिया कंधे पर लटकाई थी।

“क्या खबर है, लवनसिंह ?”

“नायक, लगभग पचास फासिस्ट इधर-उधर बिखर चुके हैं।”

“तुमने देखा ?”

“देखता और नायक के सामने इसी तरह आ जाता !”

“समझा ! कितनी दूर हैं ?”

“लगभग ३० मील ।”

“ओह !”

“मैंने प्रबंध कर लिया है । मेरी सोमा में आते ही वे बंदी बना लिये जावेंगे ।

“तुम्हारे साथ कौन है ?”

“कर्म और उमर ।”

“तो तुम उन्हें ले गये हो ?”

“हाँ नायक !”

“किसन को भी ले जाओ ।”

“किसन !”—लवनसिंह भिन्नका.....।

“हाँ, मैं उसे जानता हूँ । वह रोमांचक युवक है और सामने पड़ने पर आगे बढ़ना जानता है ।”

“आज्ञा नायक !”

और संकेत देकर वह किसन भी आगे बढ़ गया । निशिकान्त ने एक गहरी सांस ली और शीघ्रता से एक ओर बढ़ गये ।

उसके तीसरे दिन ही वह आश्चर्यजनक घटना गयी । नायक को खबर हो मिली कि पूरब के गांवों में दस फासिस्ट सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं । वह गाँव फासिस्ट फौज की अंतिम सीमा पर था । उससे परे का इलाका फासिस्ट बम-बर्बा दारा नष्ट कर चुके थे । जिस समय वे फासिस्ट आगे बढ़े तो अनेक गरीब किसानों ने उनका मुकाबला किया । फासिस्ट बर्बर थे उन्होंने बड़ी निर्दयता से गांव में आग लगा दी । घरों को लूट लिया और स्त्रियों को बेइज्जत किया ।

नायक ने जोर से पैर पटक़ा । क्रोध उसकी आँखों में चमक आया ।

संदेशवाहक ड़रा । उसने कहा—“नायक ! वे घरों को स्त्रियाँ नहीं थीं । वे बाजारू वेश्याएँ थीं ।

“जानता हूँ”—नायक ने दृढ़ता से कहा।

“लेकिन नायक ? वे तो गिरफ्तार हो चुके हैं । परन्तु वे इतने मूर्ख नहीं हैं जितने हम समझते हैं । लवनसिंह के छापामार दस्तों को उन्होंने इस प्रकार छकाया कि उनकी हिम्मत टूटने लगी ।”

नायक बोल उठा—“लेकिन.....।”

“लेकिन”—सिपाही बोला—“लेकिन किसन ने अद्भुत साहस से काम लिया । जब लवनसिंह फासिस्टों को पीछे खींचता हुआ ला रहा था उसने केवल दस साथियों के साथ उन्हें पीछे से तंग करना शुरू कर दिया । नायक, फासिस्ट बहुत थे । किसन और उसके साथी लौट कर नहीं आये पर तु तीन दिन बीत चुके हैं । फासिस्ट अभी तक हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर सके हैं ।”

नायक तब ऊपर देख रहा था । उसके होठों पर मुस्कराहट थी और आँखों में पानी । उसने कहना चाहा—“सैनिक ! मैं अभी चलाँगा.....” कि किसी ने जोर से थपथपाया—“उठिए जी ।”

वह चौंका—“किसन !”

“अजी आप पढ़ते-पढ़ते सो गये । चलिए ऊपर ।”

उसने आँखें मलती, देखा कि वह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है । उसे याद आया वह आज मित्रों से बहस करने के बाद घर लौटा तो छापामार नागरिक-सेना की बात पढ़ते पढ़ते सो गया । उसे हंसी भी आई और ग्लानि भी हुई क्योंकि जो कुछ उसने देखा था उसके कारण उसका मन देश के लिए संशुभित था परन्तु वह केवल स्वप्न ही है यह जानकर उसे ग्लानि नहीं हुई । उसने रजनी से इतना ही कहा—“मैं सचमुच सो गया । कितनी रात बीत गई ?”

“लगभग तीन बजे होंगे ।”

“ओह !”—वह लड़खड़ाता हुआ उठा और रजनी की ओर देखे बिना ही ऊपर चढ़ गया ।

सृष्टि



ठीक उस समय जब कि मेरी ट्रेन स्टेशन पर रुकी, तो दूर से ही रमेश ने चिह्नाकर कहा — 'अरे निशिकान्त, आ गए !' कान्त ने हंसकर कहा — 'नमस्ते ! कहां कैसे हो ?'

वह उसी तरह बोला—'ठीक हूँ । तुम कैसे हो ? मैं जानता था, तुम उन अनाथ बच्चों को देखने के लिए अवश्य आओगे ।' और उसने आगे बढ़कर सूटकेस उठा लिया और बोला—'होलडोल तुम उठा लो । जगह बहुत दूर नहीं है मुश्किल से एक फर्लांग होगा ।'

वह एक छोटा-सा स्टेशन था । भीड़ अधिक नहीं थी । सूरज निकलने में काफी देर थी और बिजली की धीमी रोशनी में जाड़े की वह रात बड़ी सुहावनी मालूम पड़ रही थी । रमेश ने एक शाल ओढ़ रखा था, इसलिए आसानी से सूटकेस उठा लिया; परन्तु ओवरकोट के कारण मुझे होलडोल उठाने में कठिनाई पड़ रही थी । और वह था कि चलते-चलते कहता जा रहा था—'बेचारे अनाथ बच्चे ! निशिकान्त, जब वे पिछले महीने इस स्टेशन पर आए, तो उन्हें देखकर मेरी आँखें भर आईं । हड्डियाँ निकली हुई, आँखें डूबीं-डूबीं, पतले-पतले हाथ-पैर और घुंघुंसे काले — जैसे युगोंसे अन्न की सूरत न देखी हो । वैसे ही काफी खूबसूरत थे, ऊपर से भूख के शिकार और माँ-बाप का विछोह ।' और फिर हो-हो करके ऐसे हंसा कि रो पड़ेगा ।

कान्त होलडोल के कारण इतना खिन्न-मन था कि उसकी ओर देख न सका । केवल इतना कहकर रह गया—'भूख और स्नेह के अभाव में वे जीते रहे, यहीं क्या कम अचरज है, रमेश ?'

'हां, हां' रमेश बोला —'अचरज ही तो है । निशिकान्त, तुमने वह दृश्य नहीं देखा । मैंने देखा है, जब पहले दिन उन्हें खाना खिलाया गया था । मैया, सच

चिप्यु

कहता हूँ, खिलाने वाले थक गए; पर उन्होंने मना नहीं किया । मूखे मेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े ।' फिर आप-ही-आप धीमा पड़कर बोला — 'व जाने कितने दिनों में उन्होंने पका हुआ खाना देखा होगा ! खिलाने वाले डर रहे थे कि कहीं पेट न फट जाय ।'

कान्त ने कहा—'बेशक ज्यादा खाने से भी मौत आ जाती है और फिर इतने दिनों के उपवास के बाद !'

कान्त की बात बिना मुझे ही रमेश ने कहा—'पहले तो उनकी बात समझ में ही नहीं आती थी; पर अब वे धीरे-धीरे हिंदी बोलने लगे हैं । मजन गाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं । लेकिन मैया प्रेम के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती । एक लड़की मुझसे इतनी दिलमिल गई है कि जैसे जन्म जन्म का साथ हो । नाम है उसका मीनू । सांवली है, पर आँखें इतनी भोली हैं कि चित्र खींचने को मन करता है । सबसे पहले जब मैंने उसे देखा, तो वह घबराकर नाचों और देख रही थी । मैंने पास जाकर कहा — क्या बात है, मुनिया ? पर वह समझी नहीं । कैसे समझती ? बंगाली बच्चे भला हिंदी क्या जानें ? मैंने उसका नाम पूछा, तो वह मेरा मुँह देखने लगी । मैं समझा । मैंने कहा—मेरा नाम रमेश, उनका नाम जीवनदास, इनका धोरेन । तो वह हंसी और बोली—आमार नाम मीनू । निशिकान्त, अब तो मैं उसके साथ टूटी-फूटी बंगला बोल लेता हूँ । बंगला-शिकक खरीद लाया हूँ और उसी के सहारे मैं उन सबसे बातें करने लायक बंगला सीख गया हूँ ।'

और यहीं आकर उसका एक फर्लांग समाप्त हो गया । कान्त हाँफने लगा था, उंगलियाँ बर्क की तरह ठन्डी होकर अकड़ गई थी और नाक से पानी टपक रहा था । सामने एक नया-सा एक मंजिला मकान था । मुख्य द्वार अनायालय का एक साइनबोर्ड लगा था । मकान का अहता इतना विशाल था कि दर्शकपर प्रभाव डालता था । रमेश ने यहाँ रुककर कहा—'बस, यही है ।' और फिर पुकारा—'रामू, ओ रामू !'

रामू अनायालय का नौकर था । कांपता हुआ आया और रमेश ने एकदम बोलना शुरू कर दिया—'यह सामन ले जाओ । मेरे कमरे में रखो । चायका प्रबंध

करो । पहले हाथ-मुँह धोने को गरम पानी लाओ ।’

रामूने विस्तर सिर पर उड़ाया, सूट केस पकड़ा और चलने को हुआ फिर भंश फिर बोला—‘बच्चे जाये ?’

‘जी, अभी नहीं ।’

‘क्यों ? छः तो बजे चुके । जाओ, जगान्धो उन्हें । वेधकूप रोज का काम भूल जाता है । शौच जाएंगे, कृष्ण-दांतुन करेंगे, सात बजे सन्ध्या करने का समय होता है, जाओ ।’

फिर वे लोग अन्दर कमरे में गए । कान्त तो काठ की कुरसी पर धम्म-से बैठ गया । कोट उतारने को मन नहीं किया । बैठा-बैठा खिड़की से भाँकने लगा । दूर पूरब में किरणें फूटने लगी थीं; पर कुहासे के कारण धुंधलापन कम नहीं हुआ था । लो सी-सदी धीरे-धीरे बढ़ रही थी । स्मेश काठ की चौकी पर योगासन मारे सन्ध्या के मन्त्र गुनगुना रहा था । थोड़ी देर बाद वह सहसा उठ खड़ा हुआ और पूछा—‘तुम्हारी चाय आई ?’

‘नहीं, अभी तक तो नहीं आई ।’

‘क्या मुसीबत है ? ये लोग समय का मूल्य नहीं जानते । अरे ओ रामू ... रामू...!’ और फिर मुड़कर बोला—‘उसका कतूर नहीं है । हम लोग चाय पीते ही नहीं ।’

इसी समय दो गिलास कपड़े में पकड़े रामू आया और उन्हें मेज़पर रखकर बोला—‘जी, चाय तो बन गई थी; पर बच्चों को जगाने में देर हो गई । मीनू कह रही है कि मैं भी चाय पिऊँगी !’

अधिकारपूर्वक रमेश ने कहा—‘नहीं, वह चाय नहीं पी सकती ।’

कान्त गिलास उठाकर चाय पीने लगा था । बदन में कुछ गरमी आई, तो कहा—‘मीनू को जरा यहाँ तो बुलाओ ?’

उसी तरह गम्भीर रमेश ने कहा—‘नहीं’ उसकी आदत विगड़ जायगी आखिर वह अनाथ है ।’ और फिर सहसा जैसे जगकर बोला --- ‘अरे तुम चाय वैसे ही पी

गए ? खाली चाय, वह ! जरा ठहरो तो, अभी कुछ नाश्ता.....।’

कान्त ने कहा—‘नहीं रमेश, अभी कुछ नहीं । मैं चाय के साथ कुछ नहीं खाता । केवल गरमी के लिए.....।’

‘जानता हूँ’,—वह हँसा—‘बड़े शहर में रहकर भी तुम बिगड़े नहीं हो ।’

इसी समय अनायालय की घण्टी बज उठी । वह चौका—‘तो चलो, सन्ध्या की घण्टी बज रही है ।’

कान्त उसी तरह उसके पीछे-पीछे चल पड़ा और जहाँ वे जाकर रुके, वह एक हाल था । उसमें सात सौ से अधिक आदमी बैठ सकते थे । उसकी दीवारों पर अनेक चित्र थे — कुछ आर्य समाजी नेता, कुछ दानवीर पूंजीपति, कुछ अनाथों के श्रुप और कुछ आदर्श-वाक्य, भजन आदि । नीचे फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी थी और उस पर लगभग सौ बाल-बालिकाएँ कतार बनाकर बैठे थे । वे योगासन की मुद्रा में थे । उनसे आशा की जाती थी कि वे शून्य में ध्यान केन्द्रित कर मन्त्रों का उच्चारण करेंगे ; परन्तु वास्तव में वे कांप रहे थे । उनके हाथ घुटनों पर से सरककर गोदियों में आ गए थे । लगभग सभी की आँखें खुली थीं और वे दृष्टि चुराकर इधर-उधर ताक रहे थे । उनकी आकृतियाँ भी अजीब थीं । उस घुन्घ में कुछ तो बड़े दयनीय और वस्तुमालूम पड़ रहे थे, लेकिन स्वर सबका ऊँचा था । उनमें बागड़ी, पंजाबी, हिन्दी, बंगाली सभी थे । सभी का स्वर भिन्न था । जब तक वे सन्ध्या करते रहे, कान्त उनको देखता रहा । उसकी कल्पना कहीं से कहीं पहुँच गई । उसने उन सब अनाथ बच्चों के माँ-बापों को देखा । देखा उन सब को अपनी-अपनी माताओं की गोदियों में दूध चूसते, हँसते-रोते और माँ-बाप को हँसाते । उन्होंने इन पर न जाने कितनी आशाएँ लगाई होंगी । उनमें कुछ वे बच्चे भी थे, जिन्हें उनकी बिलसिमता मानाएँ अपने शरीर का गेड़ा ग्रामभती थीं । इसीलिए वे यहाँ थे ।

सन्ध्या समाप्त हो गई । पण्डितजी के प्रार्थना करने के पश्चात् सबने कहा—
‘है दयानन्द हम जनों का शुद्धार्थ दीजिये’ ; और फिर शान्ति-पाठ करके सब उठे । लाइन बनाई और बाहर जान लगे । कान्त नया था, सबने उसे देखा और उसने सबको

उनकी दृष्टि खाली थी, मानो उन्होंने अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया हो । उनके बदन पर लगभग एक-से कपड़े थे — पीली कमीज, पाजामा और सस्ते स्ट्रेटर, जो शायद किसी पूजापति ने अपने पापों का नार उतारने के लिए दान कर दिए थे । लड़कियाँ सादी धोती पहने थीं । वे लगभग सभी बंगाल से आई थीं । धीरे-धीरे वे कान्त के पास से गुजरतीं । सहसा उसने एक लड़की को देखा । उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण एक अद्भुत भोलापन था । अवश्य वह मीनू थी, जिसके बारे में रमेश ने कहा था । उसने उसे प्रकारा — 'मीनू !' वह हठात् सहमी । अचरज से उसे देखा, जैसे पहचानना चाहती हो । कान्त ने फिर पूछा— 'तुम्हारा नाम मीनू है न ?'

उसने बिना बोले गरदन हिला दी और कान्त की ओर देखती रही । उसने मुस्कराकर कहा — 'मेरे पास आओ ।'

उसने रमेश की ओर देखा । रमेश बोला — 'हां, हाँ, तुम इनके साथ जा सकती हो ?'

कान्त मीनू को साथ लेकर कमरे में चला आया । इतनी ही देर में मीनू में अद्भुत परिवर्तन ही आया । वह उससे तनिक भी नहीं भिन्नकी । पूछा — 'चाय आपने पी थी ?'

'हां', — कान्त ने कहा — 'तुम्हें मिली ?'

'नहीं, हमें दूध मिलता है ।'

'ओ ! तब तुम खुशकिस्मत हो । दूध चाय से अच्छा होता है ।'

उसने अचरज से कान्त की ओर देखा । फिर बोली — 'नहीं, चाय अच्छी होती है । हमें दूध अच्छा नहीं लगता । हमारे देश में बड़ी चाय होती है ।'

'तुम्हारा देश कहां है ?'

'चटग्राम । वहां हमारा बाबा बहुत चाय लाता था ।'

'तुम्हारा बाबा वहाँ क्या करता था ?'

'पता नहीं ।'

'माँ...?'

‘माँ ? — उसने कान्त को देखा — ‘माँ तो अपने घर चली गई ।’

‘और तुम ?’

‘हम भी जायेंगे । ये भेजते ही नहीं । कहते हैं, वहां खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है । क्या सच वहाँ खाना-कपड़ा नहीं है ? तो मां क्या खाती-पहनती होगी ?’

कान्तने उसे अपने समीप खींच लिया और पूछा—‘तुम यहां कैसे आईं मीनू ?’

सहज भाव से वह बोली — ‘मां ने भेजा था । कह रही थी, तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा । दीदी को भी उसने इसी तरह भेज दिया था । मां को लोग एक गाड़ी में बैठाकर ले गए थे । वह रो रही थी ।’

कान्त का हृदय उसके भोलेपन पर फटा पड़ता था; पर जैसे जीवन उसके लिए अभी कोई मानी नहीं रखता हो । कान्त ने पूछा — ‘वहां खाना मिलता था ?’

‘पहले तो मिलता था. पर पीछे कम मिलने लगा । मां कहती थी, चावल दुश्-मन लूट ले गये । उस पारके देश में दुश्मन आए थे । ‘वे हमारे बाबा को भी पकड़ ले गए ।’ और फिर चण-भर रुककर पूछा—‘वे बाबाको क्यों ले गए ? अब बाबा कब आएँगे ? आएँगे न ?... पर वे तो खूब मात खाते होंगे आप हमें भी वहां ले चलिए न ।’

‘हमारे साथ चलोगी ?’

‘हाँ, हाँ ।’ प्रसन्नता से उसकी आँखें चमक उठीं — ‘चटग्राम चलेंगे न ? आज ही चली । वहां मां होगी, बाबा होंगे, दीदी, हासी और सोना सब होंगे ।’

उसकी भोली आँखें बेहद खुशी से भर रही थीं, पर उन्हें देखकर कान्त को रौना आने लगा । उसने बात टाल कर पूछा—‘तुम पढ़ती हो ?’

भोलेपन से उसने कहा — ‘पढ़ती तो हूँ, पर जी नहीं लगता ।’

‘खेलने को जी करता है ?’

‘हाँ, खेलने को तो करता है । घर हम लोग हासी, सोना, बकू कायाज्ज की नाव बनाकर नदी में तैराते थे । हमारे देश में बहुत बड़ी (दोनों हाथ खूब फैलाकर) नदी है । उसे सागर कहते हैं । उसमें बहुत बड़ी-बड़ी नावें चलती हैं ।’

उनकी ये बातें चल रही थीं कि रमेश आ गया । हँसकर बोला—‘मीनू, ये

तुम्हारे देश के ही आदमी हैं । इनके साथ जाओगी न ?

‘हां, हां, जरूर जायेंगे’, — वह मुस्कराकर बोली— ‘इन्हीं के साथ जायेंगे ।’

‘हमें छोड़कर ?’ — रमेश सहसा चौंका-सा ।

मीनू चाय-भर रुकी, फिर बोली— ‘चाय भी चलना, अच्छा । हम सब चलेंगे । वहाँ बहुत चाय होती है, बहुत भात और माछ होती है ।’

कान्त ने रमेश से अंग्रेजी में कहा— ‘मीनू बहुत भोली है । बेचारी अकाल की दुर्दशा को बिलकुल भी अनुभव नहीं करती । इसे विश्वास है, इसके माँ-बाप जिंदा हैं ।’

रमेश धीरे से बोला — ‘कौन जाने इसका विश्वास ठीक हो । रिपोर्ट के अनुसार इसकी मां इसे एक रुपये में बेच गई थी । इसका बाप बर्मा में व्यापार करता था, वहीं रह गया । एक बहन थी, वह कहां गई, पता नहीं । मरते हैं, इनके जिले में फ़ौज का बहुत बड़ा अड्डा है । युवतियां सब वहीं चली गई हैं । मरने वालों की जख्मत जो है !’

कहते-कहते उसका मुख श्रृणा से भर उठा । कान्त कुछ नहीं बोला । एक क्षण रुककर उसने फिर कहा — उनका अपराध भी क्या है ? भूखा क्या पाप नहीं करता ? इसीलिए मैंने सोचा है, इस मीनू को मैं ही पाल लूँगा । तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी भाभी के मरने के बाद मैंने विवाह नहीं किया; कल्लंगा भी नहीं । इसीलिए मीनू... बस जी करता है, इसे देखता रहूँ ।’ और फिर चुपचाप अनबूझ उन दोनों को देखती मीनू से बोला — ‘चाय पियोगी, मीनू ?’

मीनू एकदम प्रफुल्लित हुई — ‘हां, पिपंगे ।’

कान्त अब तक कल्पना के परों पर उड़ रहा था । उसकी यह बात सुनकर चौंका-सा । जेब में से पचीस रुपये निकाल कर रमेश को देते हुए बोला — ‘रमेश आज सब बच्चों पेठ-भर फल और मिठाई खायेंगे और साथ में चाय भी ।’ और बिना उसके उत्तर की अपेक्षा किए वह बाहर चला गया ।

(२)

अचरज कि कान्त अनायालय में अधिक दिन नहीं ठहर सका । रमेश के बहुत

विष्णु

कहने पर भी वह उसी रात को लौट आया। उसका मन उद्विग्न हो रहा था और वह अपने कार्य में डूब कर उस दृश्य को भूल जाना चाहता था। चलते समय उसने मीनू से बातें नहीं कीं। उसे याद है, जब वह चला था, तो वह प्रसन्नता से अपनी साधिन को बैंगला में समझा रही थी - 'अब मैं अपने घर जाऊँगी। वे बाबू हमारे देश के हैं।' यह सुनकर उसका गला भर आया और वह शीघ्रता से दृष्टि चुराकर बाहर निकल आया। लेकिन दिल्ली आकर भी उसका मन किसी काम में डूब नहीं सका। वह हर समय उखड़ा-उखड़ा रहने लगा। लिखने को काफी उठाकर वह घण्टों शून्य में ताकता रहता।

एक दिन जब वह इसी प्रकार शून्य में ताक रहा था, तो किसी ने कसूरुाई स्वर में पुकारा - 'क्या मैं आ सकती हूँ ?'

वह चौंका। उसके सामने एक युवती खड़ी थी। उसने एक छपी हुई पतली धोती पहन रखी थी, पैरों में साधारण चप्पलें थीं, सिर नंगा था और लम्बे बाल दो बेंधियों में बँधे थे। वह उत्तर की चिन्ता किए बिना ही भीतर चली आई और एक चिट्ठी दिखाकर बोली - 'इसे जरा पढ़िए।'

कान्त ने पढ़ा। अंग्रेजी में लिखा था - 'यह लड़की बंगाल के महानाश का शिकार है। इसके माँ-बाप मर गए। भाई बम से मारा गया। भूख से तड़प-तड़पकर यह यहाँ तक पहुँची है। सम्भ्रान्त कुल की है, भीख माँगना नहीं जानती। पढ़ने-वालों से प्रार्थना है कि इसकी मदद करें।'

पढ़कर उस युवती को देखा। बड़ा अजीब-सा लगा। कहा - 'तो आप...।' वह गिड़गिड़ाई - 'हम भूखे हैं। हमारा सब-कुछ नष्ट हो गया। दुखी-सन्तप्त हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी सहायता करें। हमारा बालक मर रहा है।'

कान्त ने कहा - 'देखो, यहाँ पर बंगालियों की कई सभाएँ हैं। मैं कुछ के पते बता देता हूँ। वहाँ चली जाओ। वे लोग तुम्हारा प्रबंध कर देंगे।'

वह बोली - 'हम जानते हैं। वहाँ भी हम गए थे, पर वे हमारी सहायता नहीं कर सकते।'

‘क्यों ?’

‘हम बहुत हैं ।’

‘कहाँ रहती हो ?’

उसने एक जगह का नाम बता दिया और फिर गिड़गिड़ाकर कहा — ‘कुछ दीजिए, बाबू !’

कान्त को कुछ अच्छा नहीं लगा । उसने देखा, उसकी आंखों में जो रक्त था, वह अक्सर उन औरतों में होता है, जो पेशा कमाती हैं । अतः उसने कहा — ‘मैं कुछ नहीं कर सकता ।’

‘लेकिन बाबू...!’

‘नहीं, इस वक्त मुझे भाग करो ।’

‘बाबू ! आप हिन्दू हैं, आपको जरूर हमारी मदद करना चाहिए ।’

लेकिन वह उसकी बात नहीं मान सका और अन्त में वह निराशा होकर चली गई । जाते जाते उसने कहा — ‘तुम हिन्दू नहीं हो । अगर सच्चे हिन्दू होते तो जरूर मदद करते ।’

वह क्या कहना चाहती थी, कान्त नहीं समझा; पर उसने इतना निश्चय किया कि इनका पता लगाना चाहिए ।

और वह उसी सन्ध्या को उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ का पता उसने बताया था । उसकी बात सच थी । वहाँ कई बंगालियों थीं । उसने देखा, उनके कपड़े फटे नहीं थे, उनके बाल भी सुलभे-सँवारे थे और दो-तीन को छोड़कर वे सब युवतियाँ थीं । उस समय वे एक स्त्री को घेरे बैठी थीं । वह स्त्री बहुत बुरी हालत में थी । उसकी साड़ी तार-तार हो रही थी, उसके बाल बिखरे थे, आँखें गड़ गई थीं और शरीर एकदम शिथिल था । उसने साहस करके एक स्त्री से पूछा — ‘इसे क्या हुआ है ?’

चौकन्तर उन गवने कान्त को देखा, और फिर एकने कहा— ‘बाबू, अकाल की मारी है । सब कुछ लुट गया बचारी का । अब यह भी मुक्त होने वाली है ।’

इसी समय वह स्त्री बोल उठी — ‘नहीं, नहीं, मैं लौट जाऊँगी । मुझ से

यह पाप नहीं होगा। मेरी लड़की, मेरी बच्ची... !' और मैंने देखा, उस मगडली में खलबली-सी मची, जैसे उन्हें यह बुरा लगा हो। एक प्रौढ़ा ने डपटने के स्वर में कहा — 'शोर न मचा। पेट में अन्न पड़ा है, तो पाप-पुण्य की बात सूभी है।' और फिर कान्त से कहा — 'बाबू, ज्वर तेज है। कोई दवा दिलवा सकोगे ?'

कान्तने पूछा — 'तुम क्या करती हो ? कहां से खाती हो ?'

वह गिड़गिड़ा कर बोली — 'आप-जैसे बाबुओं से मांगकर जो मिल जाता है, वही खाती हूँ।'

रोगिणी उठ बैठी। वह तमतमा रही थी। और उसकी आंखें निकली पड़ती थीं तेजीसे बोली — 'कहाँ से खाती है ? मांगे से कौन देता है ? सब पुवतियां हैं, और यौवन का मोल खाती है, बाबूजी !'

कान्त कांपा। दूसरी स्त्रियाँ क्रुद्ध नागिन की तरह उस पर भपट्यीं — 'जवानी का मोल खाती है, तो क्या हुआ ? अपनी जवानी तो है; पर तू तो दूसरों की ही जवानी का मोल खाती है। तूने अपनी बेटी बेर्या के दलाल को बेची है और अब हमें उपदेश देती है !'

कान्त का दिल धक्-धक् कर उठा। उसने रोगिणी की आंखों को देखा था। उनमें न जाने क्या था, जो उसके दिल को कचोट रहा था। उसे सहसा मीनू की याद आई और वह थरथरा उठा। पर वह कुछ कहे कि रोगिणी फिर बोली। इस बार वह शान्त थी। 'तुम ठीक कहती हो, मैंने अपनी लड़की बेची है। मुझे इसका दुःख है मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची को वापस लाऊँगी।' और सहसा मुड़कर देखा, फिर बोली — 'बाबू, बाबू, दिला सकोगे मेरी बच्ची को वापस ? मेरी वह भोली बालिका... !'

कान्त ने अपने को सँभाला और एक से पूछा — 'आखिर क्या बात है ? यह कौन है ?'

इस प्रश्न के उत्तर में जो कुछ बताया गया, उसका सारांश यह है; एक दिन वह सुखी परिवार की गृहिणी थी। पति था, पुत्र था, दो पुत्रियां थीं। अचानक

एक दिन लड़ाई छिड़ी, अकाल आया, लोग भूखों मरने लगे । इसका पति तब बर्मा में था; नहीं लौट सका । पुत्र भी लड़ाई में काम आया । भूखने इसे घर छोड़ने को विवश किया । जो तन बेचती हैं वे अब भी शासन करती हैं । यह भी कर सकती थी; पर इसका मन नहीं मरना ! लेकिन शहर में दोहरी मुसीबत थी । न भोजन मिला, न ठौर । आखिर एक दिन एक आदमी बड़ी लड़की को ले गया कि वह उसे पालेगा । उसने जाते-जाते पन्द्रह रुपए भी दिए । पर वे कब तक चलते ? फिर दूर-दूर भटकना पड़ा । एकदिन सरकार ने इसे पकड़कर शहर से बाहर भेज दिया और छोटी लड़की किसी अनाथालय में भेज दी गई ।

कान्त ने अनायास पूछ लिया — ‘अनाथालय में ?’

‘हाँ, कहते तो ऐसा ही है ।’

‘उसका नाम ?’

रोगिणी फिर चौकी । बोली — ‘किसका नाम ? मेरी बच्चियों का ? विनोद और मीनू ।’

‘मीनू !’ कान्त अपने को न रोक सका और उसने उसे ऐसे देखा, जैसे वह सब-कुछ जानता है ! बोली — ‘हाँ, मीनू । क्या आप मीनू को जानते हैं, क्या आपने मीनू को देखा है ?’

कान्त ने अपने को संभाला— ‘नहीं, मैं तुम्हारी मीनू को नहीं जानता । मेरी एक लड़की है, उसका नाम भी मीनू है ।’

यह सुनकर वह झुबने सी लगी । उसकी आंखें फैलीं । उसने थके स्वर में कहा — ‘बाबू, कहो तो मैं मीनू को जानता हूँ, मैंने विनोद को देखा है । इतना ही कहो, बाबू ! मुझे सुख मिलेगा मैं अभागिन...!’

कान्त के मन में रह-रह कर उठ रहा था कि फहूँ, तुम्हारी मीनू को मैंने देखा है, वह सुखी है; पर न जाने क्यों, वह रुक जाता था । न जाने क्यों, वह मीनू का सम्बन्ध इस भरपासच नारी से नहीं जोड़ना चाहता था । वह चाहता था कि मीनू सदा समझे उसकी माँ जीवित है, वह अपने घर पर सुखी और सन्तुष्ट है । इसी

समय रोगिणी ने चीख मारी कि सब स्त्रियाँ उस पर झुकीं । कान्त उन्हें परो हटाकर रोगिणी के पास जा बैठा और तेजी से कहा — ‘सुनो, मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारी मीनू को देखा है । वह सुखी है, खूब प्रसन्न है ।’

उसने आँखें खोल दीं ; पर उनकी ज्योति मानीं कुछ चली थी । अति धीमे स्वर में बोली — ‘सच, मीनू को तुमने देखा है ?’

‘हाँ ।’

‘वह सुखी है, खूब ?’

‘हाँ ।’

और फिर एक सर्द आह खींचकर रोगिणी ने आँखें मीची लीं । सन्तोष की गहरी रेखा उसके रक्तहीन चिह्नित चेहरे पर फैल गई और उसने कहा — ‘बाबू, विनोद काक्सबाजार में है । पता लगा सकोगे ? क्या उसे बचा सकोगे ?’

उसका स्वर गिर चुका था, केवल फुसफुसाहट शेष थी । कान्त उसके उपर झुका और जोर से बोला — ‘अवश्य पता लगाऊँगा ! तुम चिन्ता मत करो ।’

उसने शायद सुन लिया । अपना दाहिना हाथ उठाया — शायद आशीर्वाद देना चाहती थी, पर वह उठ नहीं सका और साथ ही उसकी गरदन भी एक ओर लुढ़क गई । कान्त ने चौंकर कहा — ‘अरे, यह तो मर गई !’

अचज़, वह क्या देखने आया था और क्या देख चला !

बह रास्ता



पिछले जाड़ा में जब जिला कांग्रेस हुई थी तो अमजद ने प्रान्तीय सरकार के भंत्रियों के विरुद्ध इतनी जबरदस्त स्पीच दी थी कि मुनकर जनता काँप काँप उठी थी। उसने देश के नवयुवकों और नवयुवतियों से जोरदार अपील की थी कि वे धर्म से अपना पिएड़ छुड़ा कर देश की आर्थिक और राजनीतिक आजादी के लिये जनता का आह्वान करें। उसने कहा था—“बिना जनता को साथ लिये आजादी नहीं ली जा सकती। बिना जनता में शक्ति आये हम अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। दो चार आराम कुर्सियों में लेटने वाले राजनीतिज्ञों ने क्या कभी देश को स्वतंत्र किया है? मानता हूँ उनमें बुद्धि होती है, वे योजना बना सकते हैं, वे रास्ता सुझा सकते हैं परन्तु जब तक उनकी बुद्धि, प्लान और सूझ के पीछे जनता की शक्ति नहीं होती तब तक वे सफल नहीं हो सकते……”।

“धर्म ने कभी रास्ता सुझाया होगा, कभी उसका सहारा लेकर जनता भयंकर से भयंकर खतरों को पार कर गई होगी पर आज वही धर्म उनकी बुद्धि पर जङ्ग लगा रहा है, उनके पैरों में बेड़ी बनकर पड़ा है जो उन्हें न आगे बढ़ने देता है न पीछे हटने देता है……”।

और आगे चल कर उसने एक मार्मिक बात कही थी। उसे मुनकर मुसलमान बोखला उठे थे, हिन्दुओं ने घृणा से मुँह फेर लिया था परन्तु यही बात सुन कर मोड़ में खड़े निशिकान्त का मन न जाने क्यों बाग बाग हो उठा था। अमजद ने कहा था—“आप मेरी बात सुन कर गुस्सा कर रहे होंगे यह ठीक ही है। धर्म आपके रक्त में घुल मिल गया है। उसे भूलने के लिये कहने वाला नफरत का ही मात्र हो सकता है, परन्तु मैं एक बात कहता हूँ—हिन्दू ईश्वर को मानते हैं, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अजर है, अमर है। मुसलमानों का खुदा लाशरीक है, ईसाइयों का गाड ओमनीपोजेट

और ओमनीपोटेण्ट है। मैं भी क्षण भर के लिये यह बात मान लेता हूँ परन्तु यह सब मान कर भी मेरे दिल में एक बात उठती है कि जब वह ईश्वर ऐसा है तो इन्सान क्यों उसके लिये लड़ने मरने को तैयार रहता है। वह क्या अपनी हिकाजत आप नहीं कर सकता ? क्यों लोगों के वाजू निन्दक का गला घोटने को फड़क उठते हैं ? क्यों वह उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के कामों में दखल देता है ? क्यों नहीं सब कुछ उसी पर छोड़ देता कि जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है ? क्यों वह अपने देश पर काबिल अंग्रेजों को गालियाँ देता है ? वह सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, वह सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है। ऐसा करके तो इन्सान उसके गुणों से इन्कार करता है, यहाँ तक कि उसकी सत्ता से भी इन्कार करता है। और कि, वह अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है बल्कि अपनी आसानी के लिये इन्सान ने ही उसका आविष्कार किया है, वह हमारा निर्माता नहीं बल्कि हम ही उसके निर्माता हैं। आप मुझे नास्तिक, काफिर कह सकते हैं परन्तु यह सब मेरी सूझ नहीं है यह तो आपकी मान्यताओं की तर्कपूर्ण परिणति है। लेकिन आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि हमें ईश्वर की चिन्ता छोड़ देनी चाहिये। जो इतने विशाल ब्रह्माण्ड का, रहस्यमय नक्षत्र लोक का और प्राणी मात्र का सृष्टा है वह क्या हमारे जैसे नगण्य प्राणियों की सहायता की अपेक्षा करता है ? सहायता भी वह जो उसके बनाये संसार में भयंकर और वीमत्स रक्तपात का कारण होती है.....।”

“मैं सच कहता हूँ अगर ईश्वर है तो वह हम लोगों से बेहद नाराज है और नभी उसने हमें इस गुलामी में जकड़ा है। इसीलिये मैं कहता हूँ हमें उसे छोड़ देना होगा। हमारे फल बहुत काम है। हम अपने को नहीं जानते, अपने पड़ोसी को नहीं पहिचानते। अपने और पड़ोसी में अन्तर समझते हैं। जो अन्तर को मानता है वह मानवसेवा कैसे करेगा ? आज तो सबसे बढ़कर राष्ट्र सेवा का सवाल है। राष्ट्र की आत्मा धाज तड़प रही है। राष्ट्र आज मृत से जगमग पड़ा है। विश्व की पीड़ा उसी के कारण बढ़ रही है। वह उसीके विशाल शरीर का ही तो एक अंग है। तब अचरज है वह हमारा सर्वज्ञ ईश्वर कैसे चैन में बैठा है.....।”

और इसी तरह बहुत-सी बातें निशिकान्त ने सुनीं। सुनकर सोचा आदमी समझदार है। ऐसा सोचने के कारण थे। उसके दिमाग में यह प्रश्न खर्य कई दिनों से जाग आया था। अभी अभी उसने आर्य समाज की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उसका विश्वास हो चला था कि धर्म और ईश्वर मनुष्य को अपनी सत्ता से इन्कार करने का सन्देश देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने से इन्कार करना आत्म-हत्या है, इसीलिये पाप है। इसीलिये अपने मस्तिष्क के इन विचारों को विस्तृत गूँज सुनकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। जी में उठा कि अभी चल कर अमजद को धन्यवाद दें लेकिन तभी उसने सोचा—मैं सरकारी नौकर और वह उम्र राजनीतिक कार्यकर्ता ! मेरा उसका मिलन कैसा ?

अचानक उसके तीन हफ्ते बाद एक दिन वह दफ्तर पहुँचा ही था कि बड़े बाबू ने पुकारा—निशिकान्त बाबू !

जी ।

यहाँ आइये ।

वह वहाँ पहुँचा तो अचरज से उसने देखा वहाँ अमजद बैठा था। मुस्कराया, बड़े अदब से आदाब अर्ज की। बड़े बाबू बोले—देखो निशिकान्त बाबू ! आज से ये तुम्हारे पास काम करेंगे ।

निशिकान्त की छाती में बड़े जोर से धक्का लगा, मुँह से अचरज भरे शब्द निकले—मेरे पास..... ?

हाँ— बड़े बाबू बोले— काम सीखने का सबसे अच्छा प्रबन्ध तुम्हारी ब्रांच ही में हो सकता है। नये आदमी हैं, बी० ए० तक पढ़े हैं ।

और फिर मुस्करा कर कहा—शायर भी हैं ।

फिर अमजद से बोले—जाइये मिस्टर । ये बाबू आपकी काम बता देंगे, मन लगा कर काम करिये । शुरू का प्रभाव चान्त तक घना रहता है । अच्छा काम करोगे तो नौकरी भिला जायेगी और तरकी के लिये भी रास्ता खुला रहेगा ।

अमजद विना बोले उठा और निशिकान्त के साथ चला आया । उसने अपनी

मेज के पास एक छुरसी सरका कर कहा—बैठिये ।

वह बैठ गये और कुछ खिसिया कर बोले—आपको कुछ ताज्जुब हुआ ?

जी ?

आप मुझे जानते हैं ?

जी, उस दिन आपका लेक्चर सुना था । आप साम्यवादी हैं न ?

जी—उनकी वाणी गिरी—मुझे बड़ी शर्म आ रही है, दिल बैठ जा रहा है

परन्तु क्या करूँ.....!

क्या बात हुई आखिर ?

क्या कहूँ, जी में यही उठ रहा है कि खुदकुशी कर लूँ पर बीबी, बच्चे हैं ।

खुदकुशी तो पाप है !

बेशक ।

और कोई वसीला नहीं है ?

नहीं ।

कोई तिजारत.....?

चे हूँसे—उसके लिये पैसा कहां से लाऊँ ?

ठीक कहते हैं आप !

आपकी क्या राय है ?

मेरी राय ?

जी ।

निश्चिन्त चण भर के लिये ठिठक, फिर बोला—मैं सरकारी नौकर हूँ । सरकार को थोखा देने की कल्पना भी मैंने कभी नहीं की । जिस दिन ऐसी बात मेरे मनमें उठेगी उस दिन मैं इस्तीफा देकर अलग हो जाऊँगा, परन्तु मैं मानता हूँ मैं बहुत कुछ आपके विचारों का आदमी हूँ । आपकी इज्जत मेरे दिल में है इसीलिये सोचता हूँ यह नौकरी क्या आपके लिये ठीक रहेगी ?

बिचकल नहीं—असजद ने कहा—यह मैं खूब जानता हूँ । मैंने मना भी

किया था परन्तु मि० करामत अली, एम० एल० ए० ने मुझे मजबूर किया। उनका भी दोष नहीं है, मेरी हालत ही ऐसी थी कि उन्हें कोई और रास्ता न सूझ पड़ा। मुझे अपनी फिकर इतनी नहीं सताती जितनी अपनी बेगुनाह बीबी की.....।

कोई प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं दूँ लेते ?

वे हैंसे—उन्हें आप क्या समझते हैं ! वे पूँजीपति हैं और पूँजीपति Love me and love my dog में विश्वास करते हैं। वे तनिकसा भी मतभेद नहीं स्वीकार करेंगे। वे मेरे विचार जानते हैं, पास भी नहीं फटकने देंगे।

सो तो ठीक है।

फिर.....?

फिर आप बेवस हैं। आते रहिये। काम मैं बता दूँगा। यह इण्डेक्स है, फाइलें हैं, डायरियाँ हैं। आप चाहें तो आज से ही काम शुरू कर दीजिये। डाक पड़ी है, लिफाफे बना लीजिये। अमजद ने चुपचाप डाक सँभाली और दूसरी मेज पर बैठकर लिफाफे बनाने लगा। उसका हाथ काँपने लगा था, पते ठीक ठीक नहीं लिखे जा रहे थे। वह बार बार निशिकान्त के पास आता और पृथ्थने लगता लेकिन फिर भी उसका मन नहीं जमा। उसको लेकर दफ्तर में इधर उधर चीमागोइयाँ होने लगीं। वह उठा, बोला—मैं कल आऊँगा। निशिकान्त मुस्कराया—ठीक है, आप कल सबेरे दस बजे आ जाइये। विश्वास रखिये मेरे होते आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी।

उसने कहा—आपकी मेहबानी है। और वह चला गया; परन्तु उसके बाद एक एक करके अनेक कल आये पर अजमद नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गये निशिकान्त उसके लिये चिन्तित होता गया। वह घर नहीं जानता था। वह किसी से उसकी चर्चा करना भी पसन्द नहीं करता था, इसीलिये वह चिन्ता अन्दर ही अन्दर उसे विकल बनाती रही कि एक दिन एक लड़का उसके पास आया। उसका सिर घुटा हुआ था। आँखों से अश्रुकरता टपक रही थी। बदन काला और नंगा था। उसने केवल एक मैला कुचैला तहमद लपेटा था। उसने आते ही कहा—निशिकान्त बाबू तुम हो। (निशिकान्त को उसने निशिकान्त कहा था) निशिकान्त ने जवाब दिया — हाँ

में ही हूँ ।

वह परचा अमजद मियाँ ने दिया है ।

उत्सुकता और अचरज के साथ निशिकान्त ने वह परचा ले लिया, पढ़ा—

जनाब बाबू निशिकान्त साहब, तस्लीम !

क्या आप मेहरबानी करके आज शाम को बन्दे के शरीबखाने पर तशरीफ ला सकेंगे ? एक निहायत जरूरी मसले पर आपकी राय का मुतलाशी हूँ । वज्रह अलालत आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकता । माफी का खास्तगार हूँ ।

नियाजमन्द,

अमजद

निशिकान्त मुस्कराया फिर उस लड़के से पूछा—घर कहाँ है ?

डोंगरों की मस्जिद के पीछे ।

कह देना, आऊँगा ।

और जब सन्ध्या को निशिकान्त डोंगरों के मोहल्ले में पहुँचा तो उसे नाक दबा लेनी पड़ी, माँस की बदबू वह सह न सका । छी, छी—उसने सोचा—कैसी गन्दी जगह है ? कैसे रहते हैं यहाँ ये लोग ?

कि तहमद वाला लड़का पास से गुजरा—उधर, उधर बाबू जी, वह रहा अमजद का घर । निशिकान्त उधर देखे कि अमजद आप ही टाट का परदा उठा कर बाहर आ गया—आइये आइये । बड़ी तकलीफ की आपने, आदाब अज ।

आदाब अज—निशिकान्त मुस्कराया—तकलीफ की क्या बात है ? आपकी तबियत कैसी है अब ? 'शुक्रिया, बुखार अब कुछ हल्का है ।'

और तब तक वे दोनों टाट का परदा उठा कर अन्दर आ गये थे । जैसा कि निशिकान्त ने देखा वह एक कच्ची दहलीज में खड़ा था, जिसकी दीवार सील और जालों से भरी हुई थी । जगह जगह से लेबड़े उतर रहे थे । यहाँ वहाँ से छत के बरगे भी खिसक गये थे और कड़ियाँ दोहरी होने के लिये बूढ़ों से होड़ ले रही थीं । परदा बेहद मोटा और काला था । सामान के नाम पर एक मोढ़ा और एक चारपाई वहाँ पड़ी थी

जिस पर यथाशक्ति साफ बिस्तर बिछा था। उसी पर अमजद लेटा हुआ था। उसी के एक कोने पर वह बैठने लगा कि अमजद ने कहा—आप सोढ़े पर आराम से बैठिये।

यहीं ठीक हूँ।

मानिये तो.....।

तकलुफ न कीजिये। आप कमजोर हैं, लेट जाइये।

जी बुखार में कमजोरी हो ही जाती है।

जी हाँ ! जान निकाल देता है बिल्कुल।

अमजद मुस्कराया—जान ही तो नहीं निकालता। सिसकता छोड़ देता है।

निशिकान्त भी मुस्कराया—ऐसा न कहिये, ठीक हो जाँयगे। मेरे लिये कोई खिदमत फरमाइये। अमजद ने कहा—बुलाया है तो अर्ज करूँगा ही। न जाने क्यों आपसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है। निशिकान्त हँस कर रह गया।

आपने जो कुछ उस दिन कहा था वह मेरे दिमाग में बराबर घूम रहा है। मैं सोचता हूँ मैं नौकरी नहीं कर सकता। करनी भी नहीं चाहिये, लेकिन.....?

लेकिन क्या.....।

क्या बताऊँ। जीमे के लिये पेट भरना जरूरी है और वह मैं कर नहीं पा रहा हूँ। घर की हालत जो कुछ भी है वह बता नहीं सकूँगा।

निशिकान्त ने सहाजभूति भरे स्वर में कहा—अताने की जरूरत भी नहीं है मैं देख रहा हूँ.....।

जी, यही बात है बरना निशिकान्त बाबू, मैंने तो अपनी जिन्दगी का यही उमूल बनाया था कि देश की आजादी के लिये जान लड़ा दूँगा। आजादी की पहली शर्त यह थी कि देश के सब हिन्दू मुसलमान एक हों और इन्सान बनें। उसके लिये मैंने एक ही रास्ता सोचा था।

क्या !

यही कि हम सब अपने को इन मजहब और खुदा के महत्तों से बरी करते वही भाई-भाई को लड़ते हैं।

तुम ठीक कहते हो । मुझे भी ऐसा ही लगता है ।

जरा सोचो तो सही, हम सब एक दूसरे से इसलिये लड़ते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और आप हिन्दू । लेकिन मुझे मुसलमान बनाया किसने ? मैंने जब से होश संभाला तब से अपने को मुसलमान पाया और यही सुना कि हिन्दू काफिर हैं, गुमराह हैं, उनको रास्ते पर लाना हमारा पहला फर्ज है । उस फर्ज को पूरा करने के लिए भूट, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, जो कुछ भी मैं करूं सब जायज़ है । यही हालत तुम्हारी है ।

कुछ ज्यादा ही है दोस्त ! हम लोग तुम्हारी छुई चीज को भी नापाक समझते हैं ।

हाँ ! देख लिये कुछ हद है हैवानियत की ?

बेशक । वह धर्म और तहजीब क्या जो हमें ऊँचा नहीं उठा सकती, जो हमें इन्सानियत के रास्ते पर नहीं ला सकती ।

कमी कमी तो मुझे अपने मुसलमान होने पर घृणा होने लगती है ।

निशिकान्त ने कहा — इसमें तुम्हारा क्या दोष ? यह तो परमेश्वर की बात है । उसी ने तुम्हें मुसलमान बनाया और मुझे हिन्दू । हम आप तो कुछ बने नहीं, तब क्यों इस बात के लिए नफरत या मोहब्बत करें । सोचने की बात केवल इतनी है कि क्या हम इन्सान बन सकते हैं ?

नहीं बन सकते ।

क्यों...?

क्योंकि जब तक खुदा और सजहब है तब तक इन्सान की अक्ल आजाद नहीं हो सकती । निशिकान्त भिन्नका — शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं सोचता हूँ ईश्वर और धर्म के विरुद्ध एकदम सीधे जेहाद बोलने से तो हम कुछ बना न सकेंगे । सारी दुनियां हमारी दुश्मन बन जावेगी ।

असजद क्षण भर के लिए ठिठका — यह तो आप ठीक कहते हैं । मेरी यही हालत है मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं । हिन्दू मेरा यकीन नहीं करते । कोई मुझे

पास नहीं फटकने देता । दुःख दर्द में मैं अकेला तड़पता रहता हूँ । गरीबी इतना तंग नहीं करती जितनी नफरत ।

आप ठीक कहते हैं, जहाँ सहायभूति है वहाँ गरीबी रह ही नहीं सकती ।

मन कहता है छोड़ इस भगड़े को । कौन पूछता है तुझे और तेरी ईमान-दारी का, पर दिमाग बोल उठता है जिस रास्ते को तू ठीक समझता है उसे केवल चंद दुनियावी मुश्किलों की वजह से छोड़ना बुजदिली है । उस दिन दफ्तर चला तो गया पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मारी पाप किया हो.....।

निशिकान्त सहायभूति से उमड़ा पड़ता था, बोला — एक बात कहता हूँ, तुम दिखीं चले जाओ ।

दिखीं ?

हाँ, वहाँ तुम्हारी पार्टी है, नेता है, संगठन है, तुम्हारी पूछ हो सकती है ।

कहते तो तुम ठीक हो । सोचूँगा ।

किसी को जानते ही ?

पार्टी के नेता मिस्टर ज्योतिप्रसाद को ।

तब ठीक है । सुना है वे तो पैसे वाले भी है ।

पैसे वाले होते खतरनाक हैं । हर चीज को पैसे के मापदण्ड से नापते हैं ।

पर भाई पैसे बिना क्या काम चल सकता है ? यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ।

अच्छा । अगर तुम्हारी यही राय है । तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी राय की...

हाँ, हाँ, जरूर जाओ — बिना सुने ही निशिकान्त ने कहा । और वह उठा-अच्छा चलूँ अब, देर हो रही है ।

असजद कृतज्ञता से हँसा — जायेंगे । आपको बड़ी तकलीफ हुई लेकिन रकिये पान लाता हूँ ।

नहीं, नहीं, मैं पान नहीं खाता ।

आखिर.....।

यकीन रखिये मुझे जरा भी परहेज नहीं है ।

और वह मुझा कि सहसा अन्दर वाले दरवाजे पर निगाह थटक गई । दो पैर एक कोने में जमे हुये थे । उसके उठते ही तेजी से अन्दर गायब हो गये । निशिकान्त ने साफ साफ देखा वे पैर किसी नवयुवती के थे, गोरे मुडौल और उठे हुये ।

वह आदाब अर्ज करके बाहर निकल आया । अमजद भी दरवाजे तक आया तब काफी गहरा अंधेरा ही आया था और बिजली की धीमी रोशनी रसोई घर की सफेदी की तरह चमक रही थी । दरवाजे पर रुक कर अमजद ने हिचकिचाते हुये कहा— निशिकान्त बाबू.....।

जी.....। वह मुझा ।

माफ़ करिये मैं एक बात.....।

हाँ, हाँ कहिये.....।

आपके पास अगर दो-चार रुपये हों तो मेहरवानी करके उधार दे दीजिये । मैं जल्द अज्ञ जल्द लौटा दूँगा । सच जानिये दवा.....।

निशिकान्त एक दम बोल उठा—मैं जानता हूँ । मेरे पास केवल पांच रुपये हैं, उन्हें लौटाने की कोई जल्दी नहीं है ।

अमजद ने हाथ बढ़ा कर रुपये ले लिये । निशिकान्त ने धुंधले प्रकाश में देखा कि हाथ कांप रहा है और चेहरा सफ़ेद होगया है । वह तब एक क्षण के लिये भी वहाँ नहीं रुका और शीघ्रता से आगे बढ़ गया ।

× × × ×

सकीना की आँखों में पीड़ा गहरी थी, उससे बोला नहीं जा रहा था । वह निटाल-सी खाट पर पड़ी थी । अमजद ने उसे देखा । पूछा—तबीयत ज्यादा खराब है ? सकीना कुछ बोली नहीं, शर्म में ताकती रही ।

सकीना !

जी.....।

पूछता हूँ तबियत ज्यादा खराब है ।

आलोक प्रकाशन

उसने मुस्कराने की चेष्टा की। मुख का पीलापन गहरा हो आया। बोली—
क्या कहा उन्होंने ?

उन्होंने.....।

जी।

सहसा चहरे का रंग पलटा पर किसी तरह अपने को कानू में करके उसने
कहा—समझलो कि मना कर दिया।

समझ लूँ। क्या माने.....। आँखें ऊपर उठाकर सकीना बोली।

हां सकीना ! हमें समझना ही पड़ेगा। उनका कहना है, मैं बहुत धवराता हूँ
मामूली बीमारी है, हकीम की दवा से ठीक हो सकती है। वे डाक्टर को बुलाकर कैसे
बिगाड़ना नहीं चाहते। मुल्क की सेवा के लिये उन्हें मेरी ज़रूरत है.....।

खर तेज होने लगा था कि सकीना मुस्कराई—ठीक तो कहा उन्होंने ?

सकीना.....।

मुल्क की खिदमत के सामने किसी की बीमारी कोई चीज़ नहीं है।

आवाज़ फिर गिरी—यह मैं मानता हूँ सकीना, पर यहाँ बात कुछ और ही
है। बीमारी साधारण नहीं है, उसकी वजह भी आरज़ी नहीं है। पेट में डालने को
जिसे पूरा पूरा खाना नहीं मिला। जिसकी कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं की गई, गरीबी
और मुफ़लिसी ने जिसके बच्चों को उठा लिया, जिसने अपनों की ठोकरें खाईं और जो
दूसरों की मोहब्बत से महरूम रहा उसकी बीमारी क्या बीमारी है ? वह तो धुन है जो
तन बदन की मिट्टी बना कर रहेगा।

अमजद की आँखों में नफरत फिर उमड़ने लगी ! सकीना ने अपना पतला
हाथ ऊपर उठाया, आँखों में आँखें डालीं। उनमें रोशनी नहीं थी पर एक निमन्त्रण
ज़रूर था जो किसी भी कठोर हृदय को पिघला सकता था लेकिन अमजद ने उसे नहीं
देखा। देखता भी कैसे, उसकी अपनी आँखों से चिनगारियां फूट रही थीं वह कहता
रहा—मुझे उनसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। मैं उनके पैसों पर चलने नहीं आया था
सिर्फ वे मुझे अपना समझते। मुझे उन्होंने सदा नैर यत्नभा। मेरा मुसलमान होना सदा

उनके हिन्दू पन को ठेस पहुँचाता रहा। एकबार भी वे या उनकी धीवी तुम्हारा हाथ पूछने नहीं आईं। उन्हें हमसे जरा भी हमदर्दी नहीं है। हमसे ज्यादा उन्हें मोटर प्यारी है। दूसरों के लिये केवल तीन लफ्ज वे जानते हैं त्याग, तपस्या और सेवा। लेकिन इसके लिये इन्सानियत की शर्त वे नहीं मानते। उसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं है। नहीं तो क्या वे एक दिन भी हमें अपने घर न बुलाते.....।

सकीना से रहा नहीं गया, बोली—क्या हो गया है तुम्हें। किसी की बुराई करना गुनाह है और फिर उसकी जो हमें पनाह दिये हुये हैं.....।

चुप रहो सकीना—वह चिल्ला उठा—मैं किसी की पनाहमें नहीं रहना चाहता। पनाह गुलामी है। उनके पास पैसा है इसीलिये वे पनाह दे सकते हैं। क्या यह इन्सानियत है? क्या यह खुदाई है? यह तो.....यह तो.....।

तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुप क्यों नहीं होते। मेरा दिल बौटा जा रहा है।—सकीना ने फिर मुश्किल से अपने को संभालते हुये कहा।

अमजद की आंखों में आंसू भर आये—मुझे अफसोस है मैं भी तुम्हारी बीमारी को भूल चला था। लेकिन मैं क्या करूँ, सकीना! मैं उनके पास गया, बताया कि तुम चुलती जा रही हो, इल्तजा की कि एक बार डाक्टर शर्मा या हमीद को दिखा दें तो वे चिल्ला उठे तुम्हारे दिसाग में मी अमीरी बुरस गई है, अमीरी गुनाह है, उसे भूल जाओ। जाओ उसी दवा से ठीक हो जायेगी।

वे शायद ठीक कहते थे।

ख़ाक ठीक कहते थे। वे ठोंगी हैं, उन्हें बोलने की भी तमीज नहीं है। हो भी कैसे? वे दूसरे को इन्सान समझते ही नहीं। मैं.....।

सकीना ने उठना चाहा पर उठ न सकी, अथबीच में ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी, बदन निहाल हो गया, आंखें मिच गईं! अमजद ने देखा तो चीख उठा—सकीना !!

वह बोल नहीं सकी, हाथ हल्की सी हरकत करके रह गया।

सकीना ! सकीना !! क्या हुआ तुम्हें.....?

अमजद गवरा उठा । जल्दी जल्दी मुंह पर पानी के छींटे दिये, हाथ पैर सहलाये, तब कहीं जाकर सकीना ने आंखें खोलीं । धीरे से धोली — धबरायो नहीं । ऐसी बात नहीं है । कमजोरी के कारण दिल में घड़कन बढ़ गई है । ठीक हो जायगी ।

मैं जानता हूँ सकीना ! यह कब और कैसे ठीक होगी ।

सकीना मुस्कराई — तुम न जानोगे तो और कौन जानेगा, मेरे सरताज ! फिर करवट लेकर सकीना ने अपने दोनों पीले हाथ अमजद की गोदी में रख दिये और आंखें भीच लीं, भान्दो उसे राहत मिल गई ।

+ + + +

उधर निशिकान्त को अमजद का कोई समाचार नहीं मिला तो हिम्मत करके एक दिन वह अमजद के मकान पर पहुँचा । उसके दरावजे पर टाट का फटा परदा उसी तरह पड़ा हुआ था । वह ठिठक गया, आवाज दी — अमजद साहब !

कोई नहीं बोला !

फिर पुकारा — अमजद साहब !

अन्दर से एक प्रौढ़ आदमी निकल आया । उसका चेहरा तना हुआ था, आंखें चमक रही थीं । बदन पर केवल एक चारखाने का तहमद था । आकर बोला — हाँ ! क्या है ?

‘यहाँ अमजद साहब रहते थे ?’

रहते थे ।

अब कहाँ है ?

दिखी ?

बच्चे भी ?

हाँ बच्चे भी । बीमार हो गई थी ।

निशिकान्त ने विनम्र होकर कहा — माफ़ करियेगा, क्या आप बता सकेंगे वे यहाँ आये थे ?

आदमी ने सिर से पैर तक निशिकान्त को देखा फिर पूछा— आप क्यों

पूछते हैं ? क्या मतलब है ?

मैं अमजद का दोस्त हूँ ।

उसने अजीब मुद्रा बना कर कहा — शायद स्कूल में साथ पढ़े होंगे नहीं तो हिन्दू की क्या दोस्ती ! बहुत दिन तक अमजद भी इसी भूल भुलैया में पड़ा रहा । न जाने क्या क्या कुफ्र की बात करता था । दिल्ली में कोई लाला है लीडर । उनके पास जूतियाँ चटखाता रहा, बीवी मरने की हॉ गई पर किसी ने पूछा भी नहीं । तब खुदा याद आया । याद आया तो दिन भी फिरे । अब यहाँ मुस्लिम नाईट स्कूल में हेड-मास्टर हो गया है । कल ही आयेगा ।

निशिकान्त ने सुन लिया । एक दफा तो थक से रह गया, फिर सँभल कर बोला — जी अब उनके घर में ठीक है न ?

अब तो खुदा का शुक्र ही शुक्र है ।

यही चाहिये ।

वह मुझा कि उस ग्रीढ़ व्यक्ति ने पूछा — तुम्हारा नाम.....?

कोई जरूरत नहीं । मैं आकर मिल लूँगा ।

और वह शीघ्रता से आगे बढ़ गया कि कोई पुकार न लै । वह उस वातावरण से दूर भाग जाना चाहता था । उसका दम घुट रहा था और दिमाग में एक अजीब उमस ली पैदा हो रही थी । वह कुछ भी स्पष्ट नहीं सोच पा रहा था और कदम इस तेजी से बढ़े चले जा रहे थे कि जैसे ही वह उस बस्ती से बाहर निकला तो एक व्यक्ति से टकरा गया । उसने चौककर पीछे हटते हटते कहा—माफ करना मैं जल्दी में था ।

वह व्यक्ति बोला — कोई बात नहीं... कि एक दम निशिकान्त को पहिचान कर उसने कहा — अरे आप निशिकान्त बाबू ! कहाँ गये थे ? निशिकान्त ने भी उन बन्धु को पहिचाना, बोला — जरा एक मित्र के यहाँ तक गया था ।

कौन ?

अमजद ।

वे चौंके—अमजद ! वह कब से तुम्हारा मित्र बना । धोखेबाज कहाँ का ?

साम्यवादी बनता था ! अब पाकिस्तान को अपना लक्ष्य बताता है ।

हाँ सुना तो है ।

उन बन्धु के साथ एक और साथी थे बोले — सुना नहीं मैंने आंखों से देखा है । जो अमजद धर्म के विरुद्ध बोलते नहीं थकता था वह आज खुदा की कुदरत, मुसलमान धर्म की वैज्ञानिकता तथा कुरान के फलसफे पर ऐसा बोलता है जैसे कोई पट्टेचा हुआ मौलवी । हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये जो प्राण तक देने को तैयार था वह अब पाकिस्तान पर कुरबान है ! बेशक — पहिले साथी ने कहा — बेशक इस बेईमान कौम का क्या भरोसा ! यह क्या कमी किसी की हुई है ?

न कमी हुई और न कमी होगी ।

निशिकान्त को झुंभलाहट हो रही थी । उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी पराजय स्वीकार करता आ रहा है । उसने कहा—मुझे ताज्जुब होता है.....!

ताज्जुब कैसा मैं तो उसे सदा से कमीना समझता रहा हूँ ।

अनायास निशिकान्त के मस्तिष्क में एक बात उभर आई वह तेजी से बोला—
अच्छा मान लिया वह कमीना है परन्तु इस कमीनेपन का कारण क्या है ? बिना कारण के तो कमी कुछ होता नहीं । उसे यदि हम खोजें तो घेरा विश्वास है उसके पैदा होने में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है । उसका कमीनापन हमारे कारण है कमीनि हथ है तब यह हमारे हाथ में है कि उस कारण को नष्ट कर दें जिसने उसे कमीना बनने को मजबूर किया है । और उसके कमीनेपन को दूर करने से पहले अपने कमीनेपन को दूर करने की कोशिश करें ।

इतना कहकर वह शीघ्रता से आगे बढ़ गया । साथी अचानक भँवर में पकड़े गये तैराक की भांति बेवस देखते ही रह गये ।

अमजद फिर वहीं लौट आया । अब वह स्कूल का हेडमास्टर था और स्थानीय लीग का सेक्रेटरी । उसकी इज्जत थी, पूछ थी । मुसलमान अर्थव ले शायद मुकते थे और मजलिसों में उसे जँचा पद मिलता था । निशिकान्त ने कई बार दूर से उसे देखा, चाहा, पुकार ले पर न जानि क्यों भिन्नक गया—देखना चाहिये वह सत्य आयेगा या

नहीं। लेकिन वह नहीं आया तब एक दिन निशिकान्त आप ही उसके घर पहुँचा। अब वह बाजार में एक पक्के मकान में रहता था जिसकी मरदानी बैठक में कुर्सियों का प्रबन्ध था। वह सन्ध्या से पहले गया था कि उससे अकेले बात चीत कर सके और वह तब अकेला ही था। निशिकान्त को देखा तो एक बार उसके चेहरे का रंग पलटा फिर बरबस मुस्करा पड़ा। निशिकान्त ने कहा—अमजद बाबू, क्या बात है दिखाई नहीं दिये। अमजद सहमा सहमा बोला—माफ़ करिये। काम की ज्यादाती की वजह से आपके नियोजन हासिल न कर सका। आपको बेरी चिट्ठी मिली होगी……।

जी, शुक्रिया, मनीआर्डर मिल गया था।

जी आप शभिन्दा करते हैं। मैंने सोचा था मैं जाऊँगा ही पर वे बोलीं न जाने कब जाना हो मनीआर्डर कर दीजिये। जो वक्त पर काम आया था उसे ऐसा मौका क्यों देते हो कि आप पर शक करे।

इस बात से निशिकान्त बड़ा प्रभावित हुआ—नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अमजद ने कहा—आपके लिये नहीं परन्तु आज दुनियाँ के लिये यह बात ठीक है।

होगी—निशिकान्त बोला—परन्तु मैंने सुना है अब आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गये हैं।

क्षण भर में उसके चेहरे का रंग कई बार पलटा, भिन्नका परन्तु अन्त में दृढ़ होकर उसने कहा—बेशक, आपने ठीक सुना है और मैं कहूँ मुझे उसका जरा भी दुख नहीं है।

निशिकान्त अचकचाया—मैं दुख की बात नहीं कहता परन्तु मैं तो यही जानना चाहता हूँ क्या आपके ख्यालात पहले जैसे ही हैं।

अमजद ने अपने को फिर सँभाला—ख्यालात की बात यह है कि मैं अब भी मुल्क की आजादी का हामी हूँ। अब भी मुझे मजहब और खुदा से कोई खास मोहब्बत नहीं है परन्तु मैं मानता हूँ मुझे कई बजूहात से इस बारे में समझौता करना पड़ा।

क्या वजह हैं वे, बता सकेंगे ?

यजह सबसे बड़ी एक है वह यह है कि हिन्दू-मुसलमान एक नहीं हो सकते । हिन्दू अमीर हैं, तंगदिल हैं, वे गरीब मुसलमानों को अपना नहीं समझ सकते ।

इसलिये आप पाकिस्तान के हामी हो गये हैं ।

वेशक में मानता हूँ पाकिस्तान के बिना इस मुल्क को आजादी नसीब नहीं हो सकती । आजादी के लिये जरूरी है कि मुसलमान अपने को महफूज और ताकतवर समझें । आजकल की हालत में वे सरमायादार हिन्दुओं की दया.....।

निशिकान्त ने देखा अमजद कुछ तेज होता जा रहा है । उसने एकदम बात टालनी चाही और पृच्छा—अच्छा छोड़िये इन बातों को । कहिये आपके घर में से तो ठीक है ।

जी हाँ—अमजद ने कहा—खुदा का लाख लाख शुक्र है । उसी की बीमारी ने मुझे रास्ता दिखाया है । मैं गरीब था अकेला था । मि० ज्योतिप्रसाद वड़े नेता हैं अपने को सरमायादारों का दुश्मन कहते हैं परन्तु वे हिन्दू हैं और सरमायादारी धर्म की शर्त है । उन्हें हमदर्दी तो ज़रा भी नहीं थी । उनके घर में हमारा सलूक अच्छा तो भी बदतर था । मेरी बीवी उनके घर में कहीं भी बैठकब्लुकी से नहीं बैठ सकती थी । लेकिन आप कह सकते हैं ये बातें इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकतीं, मैं भी मानता हूँ । पर इन्सानियत तो कोई चीज होती है, उस दिन जब मेरी बीवी की हालत नाजुक थी, मुसलमान मुझ से नाला थे, नफरत करते थे, मैं कुदरतन अपने हिन्दू दोस्त की तरफ मुझ पर सच मानना उसने मुझे बातों में उड़ा दिया । मुझे अपने पास भी नहीं फटकने दिया

कहते कहते अमजद का स्वर बहुत कड़वा हो उठा । उसने कहा—उसकी हालत गिरती ही गई तो मैं लाचार अपने एक पुराने मुसलमान दोस्त के पास गया । उसने मेरी मदद की, वह अमीर नहीं था परन्तु जो कुछ भी वह कर सकता था उसने किया । अपनी बीवी को लेकर रात रात मेरे घर रहा, उसने मेरी बीवी को बचा लिया । पैसा उठाने दिया, पर पैस में ज्यादा उसने मुझे बड़े चीज दी, जो इन्सान को इन्सान बनाती है, वह अत्यास है, वह हमदर्दी है । उस दिन मैंने जाना अपने कौन हैं... ।

भात्रों की उत्तेजना में वह खोने लगा था । उसकी रक्तमयी आँखों में जलकण चमक उठे थे । उसने कहा — निशिकान्त बाबू ! तुम्हारी याद उस दिन भी मुझे भूली नहीं थी ; आज भी खुदा और सज़हब का ख्याल मुझे कंपा देता है । अब भी मैं एक ऐसी कौम का ख़ाब देखा करता हूँ जिसके बाहर भीतर कहीं कोई भेद न हो ।

निशिकान्त मुस्करा उठा । उसने अमजद का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा — दुनियाँ का हर बड़ा काम शुरू में सपना ही मालूम होता है, अमजद बाबू ! तुम मुस्लिम लीग में शामिल हो गये हो तो फ़िक्र क्या है । पाकिस्तान होने पर भी हिन्दू मुस्लिमनों को यहीं और इसी तरह रहना होगा । उनके आपसी सम्बन्ध किस प्रकार सुधर सकते हैं, वह समस्या बनी ही रहेगी । उसको आप और मेरे जैसे व्यक्ति ही सुलझा सकते हैं । उसका रास्ता वही है जो एक दिन आपने मुझाया था ।

और फिर उठते उठते कहा — अब चलो ! देर हो रही है । एक दिन आपके स्कूल में आऊँगा । अब आप बड़े आदमी हैं किसी दिन शरीफ़ ख़ाने पर तशरीफ़ लाइये ।

अमजद न जाने कैसा हो चला । बोला — लेकिन आप मुझ से नफरत नहीं करते निशिकान्त बाबू ? हिन्दू तो.....।

निशिकान्त मुस्कराया — अमजद बाबू ! मैं नफरत क्यों करूँ ? मैं क्या केवल हिन्दू ही हूँ ?

आपही ने एक दिन बताया था कि यह धर्म हमारी कमाई नहीं है और फिर आपके दृष्टि कोण को समझने के लिये मुझे आपसे और भी दोस्ताना करना होगा । आप लीग में हैं इसी कारण नफरत करने की बात मुझे एकदम लचर मालूम होती है... और फिर मुड़कर उसने कहा — मुझे बड़ी प्यास लगी है पानी पिलाइये ।

अमजद एक दम बोला — हाँ, हाँ, ! अभी लाता हूँ । तशरीफ़ रखिये । वह उठा कि अन्दर जाये पर न जाने क्यों एक दम भिन्नक गया — लेकिन मेरे घर का पानी क्या आप पी सकेंगे ?

‘क्यों न पी सकूँगा । उसमें हुआ क्या ?

अमजद अन्दर चला गया । निशिकान्त ने देखा चिक के पीछे दो कदम एकदम पीछे हटे । उन्हें देखकर उसके मन में उठा—क्या है जो इतने भेद का कारण है । क्या मैं चाहूँ तो भी ये कारण रह सकेंगे कि अमजद ने आकर कहा — निशिकान्त वाबू ! माफ़ करिये.....।

निशिकान्त एक दम बोला — क्यों क्या घर में पानी नहीं है ?

पानी तो है ।

तो फिर...?

‘तो फिर यही कि बेगम किसी भी हालत में राजी नहीं होती । वे कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अपने घड़े का पानी पिला कर मैं उनका धर्म नहीं बिगाड़ना चाहती ।’

‘लेकिन मैं तो ...।

‘मैं मजतूर हूँ और मुझे अकसोस है आप मेरे घर से प्यासे जा रहे हैं । इसके लिये कमायत के दिन मुझे खुदा को जवाब देना होगा ।’

बग़ भर के लिये निशिकान्त स्तम्भित चकित शून्य में ताकता रहा, फिर बोला घड़ा कराया तमाचा मारा है आपकी बेगम ने । कोई डर नहीं ! यह हमारी कमाई है पर आप मेरी ओर से उनसे कह दीजिये कि आज न सही फिर किसी दिन उन्हें मुझे अपने हाथ से अपने घड़े का पानी पीलाना ही होगा और केवल पानी ही नहीं और कुछ भी । इसके बिना न उनका भला होगा, न मेरा ।

इतना कहकर निशिकान्त बड़ी शीघ्रता से बाहर चला गया । अमजद अचरज से ठगा बग़ भर उसे देखता ही रह गया फिर एक दम जोर से बोला —सकीना ! वह प्यासा ही चला गया, यह ठीक नहीं हुआ ।

सकीना तब तक पास आ गई थी, सुस्कराकर बोली — उनका प्यासा जाना फिजूल नहीं है मेरे सरताज ! अगर मैं उन्हें ठीक ठीक जान सकी हूँ तो वह प्यास मोहब्बत के रंग को गहरा ही करेगी, इतना गहरा कि तब उसे कोई धो न सकेगा ।

लेकिन अमजद का दिसाया अब भी चकराया ही रहा !

क्रान्तिकारी



रामनाथ ने आज निश्चय कर लिया था, वह अब नहीं रुकेगा। वह अवश्य चला जायेगा। लेकिन रजनी...? नाम याद आते ही उसका निश्चय डगमगाने लगा वह क्रुद्ध हो उठा — यह कैसी मोहजडता है? जो जीवन भर मौत से जूझता रहा है, जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जीवन की धाह लेना चाहता है, वह एक नारी के कारण अपना तत्व को खोता जा रहा है। छिः, यह तो निरी कायरता है! मानता हूँ रजनी का कोई स्वार्थ नहीं है। वह सहज सहानुभूति के कारण मेरे प्रति करुण है। परन्तु करुणा और सहानुभूति क्या जीवन के गुण हैं? ये तो जीवन के भार हैं.....

उसी समय दरवाजे पर खड़ा-खड़ाहट हुई। उसने सहज स्वर में कहा—कौन ?
मैं...।

रजनी... ?

वह चौंक कर उठा, देखा — बड़ई की असावधानी के कारण किवाड़ों में जो छिद्र रह गये हैं उन्हीं में से होकर धवल प्रकाश की किरणें जाने कवकी चुपचाप अन्दर आ गई हैं। बाहर शान्ति को भंग करता हुआ धीमा कोलाहल फूट पड़ा है। नीचे सैर के शौकीन वायुओं की पदचाप बार-बार पास आकर दूर चली जाती है। उसने किवाड़ खोल दिये। वदन में हलकी-सी सिहरन दौड़ गई। रजनी ने आकर चाय का गिलास और नाश्ते की प्लेट मेज पर रख दी और लौट चली। रामनाथ ने एक बार प्लेट को देखा, फिर रजनी को। बोला — बेटी सुनो...।

जी।

मैं आज जाऊँगा।

जी, और.....।

मैं अब नहीं रुक सकता।

आलोक प्रकाशन

आप रोज ही ऐसा करते हैं ।

रामनाथ सहसा कुण्ठित हो उठे, बोले — परन्तु आज रोज की बात नहीं है । आज मैं जाना चाहता हूँ ।

रजनी मुड़ी — जाना चाहेंगे तो मैं रोऊँगी नहीं । कौन किसको रोक सका है ? फिर भी.....।

फिर भी क्या.....?

यहो कि यहाँ आपको क्या कष्ट है जिसको सहन करने में असमर्थ आप भाग जाने को आतुर हैं ?

अन्यमनस्क रामनाथ फिर भ्रिभ्रके, लेकिन दूसरे ही क्षण एक विचार उनके मस्तिष्क में उमड़ आया । वे बोले— जिन्हें तुम कष्ट कहती हो उन्हीं के बीच पल कर मैं इतना बड़ा हो गया हूँ । उन्हीं का अभाव मुझे यहाँ खटकता है । लगता है, जो कुछ यहाँ है वह एक षडयंत्र है, इतना गहरा जितना मकड़ी का जाला, परन्तु मैं मक्खी नहीं घनना चाहता ।

रजनी ने सुन लिया । सोचने लगी, इनकी बात पर हँसूँ या गुरसा करूँ ? दुनियाँ दुख से दूर भागती है, यह दुखों की गोद में जाने के लिए आतुर है । कैसा आदमी है यह....!

और वह बिना कहे नीचे लौट गई ।

रामनाथ कुर्सी पर बैठ कर यंत्र-चालित की भाँति चाय पीने लगे । पीते-पीते सोचने भी लगे । मनुष्य बहुधा जानबूझ कर नहीं सोचता । विचार आप-ही-आप आकाश के बादलों की भाँति मस्तिष्क में उमड़ आते हैं । बादल सभी सजल होते हैं । जल के बिना बादल-बादल नहीं होता । फिर भी एक धरती की छाती टंडी करता है; दूसरा व्यर्थ ही सूरज की धूप और चाँद की चाँदनी को रोकता रहता है । इसी प्रकार विचार हैं । कुछ के कारण मनुष्य स्वयं आगे बढ़ता है और संसार भी । पर कुछ अडियल ढोड़े की तरह गाड़ी को पीछे धकेलते रहते हैं । रामनाथ के मन में जो विचार अब उठ रहे थे वे अडियल ढोड़े के समान थे । वह कभी का निरचय कर चुके थे ।

विष्णु

उन्हें जाना है । परन्तु कब, यह वह नहीं जान पाते थे । जाने का प्रति क्षण आने पर देखते — किसी ने सामने आकर रास्ता रोक लिया है । रोकने वाले में शक्ति है, यह बात नहीं है । और शक्ति हो भी तो क्या वह ब्रिटिश सरकार से अधिक हो सकती है ? पूरे तीस वर्ष से इस शक्तिशाली सरकार से लोहा ले रहे हैं । जीवन का कोई भी मोह, कोई भी कष्ट उन्हें बरत नहीं कर सका । वह सदा नदी के प्रवाह के समान आगे बहे हैं । जिसने प्रवाह को रोका वह खुद ही तहस-नहस हो गया...

लेकिन तभी न जाने किसने आकर उनके कान में फुसफुसाया — तुम जाना नहीं चाहते, नहीं तो जाने वाले को किसने रोका है ?

वह चिन्ता उठे—यह गलत है । मैं जाना चाहता हूँ.....।

ठीक उसी समय निश्कान्त बाहर से लौट आए देख कर बोले — दादा, चाय नहीं पी अबतक ?

रामनाथ चौंके—पी रहा हूँ, निश्कान्त ।

पी रहे हो खूब, दादा । अभी से आँखें धोखा देंगी, ऐसी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता । देखता हूँ, प्लेट में काजू और बादाम उसी तरह पड़े हैं । चाय ठण्डी होकर काली पड़ गई है ।

अचरज ? रामनाथ का चेहरा कुछ खिच चला । बोले—जो कुछ तुम देख रहे हो वह ठीक है । मुझे मेवा खाने की आदत नहीं है ।

तब.....?

मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ।

निश्कान्त मुस्कराया—कहाँ जायेंगे आप ?

इतना बड़ा संसार क्या नष्ट हो गया है ? इसी में पलकर इतना बड़ा हुआ हूँ । संसार में सभी पलते हैं दादा, परन्तु सभी को तो पुलिस आवारागर्दी में गिरफ्तार नहीं करती ।

अपने विरोधियों को सभी लाञ्छित करना चाहते हैं; फिर यदि सरकार मेरे विद्रोह को गुण्डागिरी बताती है तो अचरज क्या है । परन्तु उनके कहने से क्या मैं

आवारा हो सकता हूँ ?

नहीं हो सकते ।

तो फिर.....?

फिर यही दावा, इन वर्षों में दुनियां ने कितनी प्रगति कर ली है, यह आप भूल जाते हैं ।

विद्रूप से रामनाथ मुस्कराए—प्रगति ? जिसने लोहार के घन बजाए हैं, वह झुनार की खट-खट को प्रगति कैसे मान सकता है ? मुझे राजनीतिक पार्टिआजियों में विश्वास नहीं है । राजनीति का आरम्भ आजादी के बाद होता है । मुलामों की एक ही पार्टी है 'विद्रोही' । एक ही धर्म है 'बग़ावत' । मैं क्रान्ति चाहता हूँ, और क्रान्ति रक्त माँगती है, सिद्धान्त वहीं.....।—कहते-कहते रामनाथ तीव्र होने लगे । उनकी आँखें आरक्त हो गईं । नसों में रक्त का संचार हो आया । उन्होंने तीव्रता से कहा—निशिकान्त, मैं आज अवश्य जाऊँगा ।

निशिकान्त ने धारे से कहा—आज ही जाइएगा ।

हाँ, आज ही ।

कहाँ का टिकट लाऊँ ?

टिकट ? मैं टिकट नहीं ले सकता । मेरे पास पैसा नहीं है । मैं पैदल जाऊँगा ।

निशिकान्त ने गम्भीर होकर कहा—दादा । आप तूफ़ान की तरह सोचते हैं, परन्तु तूफ़ान नाश का प्रतीक है, निर्माण का नहीं ।

ठीक है । मैं नाश चाहता हूँ । निर्माण नाश के बाद होता है, पहले नहीं ।

निशिकान्त ने फिर कुछ नहीं कहा । कहे भी क्या ? जहाँ विचारों में विषमता है वहाँ तर्क है, और तर्क का कोई अन्त नहीं होता । और फिर न जाने क्यों इस व्यक्ति से तर्क करते उन्हें दुख होता है ।

रजनी की हालत और भी विचित्र है और उसका कारण है ।

सात दिन पहले की बात है ।

रात गहरी होती आ रही थी और रजनी निशिकान्त की बाट देखती रसोईघर

में बैठी थी । तभी पैरों की चाप उसने सुनी । सोचा, वह लौट आए हैं । पर यह क्या ? वह थकेले नहीं जान पड़ते । सोचने लगी, इतनी रात को कौन आया ? तभी निशिकान्त ने आकर कहा— रजनी ! खाना रखा है क्या ?

नहीं तो, क्यों ?

मेरे साथ एक आदमी है ।

बना दूँ.....?

हाँ, हाँ, बना दो ! बेचारे भूखे हैं !

अभी बनाती हूँ, जी ।

और खाना खिलाते समय उस आदमी को देख कर रजनी चौंक उठी— ऐसे खाता है जैसे कभी इन्सानों में नहीं रहा । कपड़े फटे हुए हैं । आँखों से वृहशीपन टपकता है । शोचता है तो मानो लड़ता हो ।

कौन है यह ?—रजनी ने एकान्त पाकर निशिकान्त से पूछा ।

एक क्रान्तिकारी ।

कांग्रेसी ?

नहीं, रजनी ! कांग्रेसी नहीं है । बहुत पुराना विद्रोही है । तीस वर्ष से लगभग जेल में ही रह रहा है ।

रजनी काँप उठी—तीस वर्ष, जेल में !

हां रजनी ! सरकार छोड़ना नहीं चाहती । एक बार माग कर विदेश वृम आया है । फिर पकड़ा गया । कांग्रेस-राज्य के समय छूट गया था, परन्तु उसके समाप्त होते ही फिर जेल में बुला लिया गया ।

रजनी करुणा से भर उठी—बेचारे के घरवाले क्या कहते होंगे ।

निशिकान्त मुस्कराया—यही अच्छा है, उसके घरवाले नहीं हैं ।

नहीं हैं— क्या कहते हो ? आखिर माँ, बाप, स्त्री.....?

ना रजनी, कोई भी नहीं है । पहली बार जब उसने बगावत की तो केवल बीस वर्ष का था । पिता एक सरकारी दफ्तर में हेडक्लर्क थे । मुना तो बेटे को त्याग दिया ।

ध्राजकल के से दिन नहीं थे । बग़ावत का नाम मीत था । हाँ, मा बहुत रोई-चिल्लाई । समझाया । एक बार पकड़ कर घर भी ले गई । पर यह मौका पाकर फिर निकल भागे । सुना, उसके बाद मा-बाप से कहा-सुनी हो गई । माँ ने अनशन करके प्राण त्याग दिये ।

हाय.....!

और मा के प्राण-त्याग की बात सुनकर ये अत्यन्त प्रसन्न हुए; इन्हें मुक्ति मिली ।

रजनी नारी थी । छाती में दरार पैदा हो गई । उसी से होकर कर्षणा और सहासुभूति का अजस्र प्रवाह बहने लगा । रात को सोने के लिए उसने नया बिछौना, नई चादर, नया तकिया निकाला । ऐसे बिछाने लगी जैसे अपने प्यारे बच्चे को सुलाना चाहती हो । अभी उसकी गोद भरी नहीं थी, पर अनजाने में अज्ञात शिशु उसकी छाती को घेर पड़ा था । उसी में आकर अनायास ही इस वृद्धे बालक ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया तो उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ । उसने वह एक अज्ञात गौरव से भर उठी । उसने अपने पति से कहा— देश के लिए इन्होंने सब-कुछ त्याग दिया । ऐसे ही तपस्वियों के बल पर भारत आजाद होगा ।

निशिकान्त बोले—सो तो है ही ।

पर ये अब जायंगे कहां ?

कुछ पता नहीं ।

आपको कैसे मिले ?

शायद कहीं मेरा नाम सुना होगा । पूछते-पूछते चले आये ।

और कोई नहीं जानते इन्हें ?

निशिकान्त फिर मुस्कराये—दुनियाँ सदा ऊँचा सुनती है; रजनी ! जो शोर नहीं मचा सकते, उनकी बात वह नहीं सुने पाती । और तुम जानती हो, शोर मचाना भी एक कला है, जो इनको नहीं आती ।

ठीक है जी । जो छपचाप काम करते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता ।

पर रजनी, इनके साथ एक बात और है। सदा जेल में रहे हैं। जनता से कभी वास्ता नहीं पड़ा। इस बीच संसार कहीं-से-कहीं पहुँच गया। इनके विचार, साधन सभी पुराने हो गये हैं। दुनियाँ उन्हें भूल गई है। इसलिए भी इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता.....।

रजनी का नींद आ रही थी। सुनते-सुनते वह सो गई। परन्तु अचानक ही जिस व्यक्ति ने उसके वात्सल्य को जगा दिया था वह स्वप्न में भी उसका पीछा न छोड़ सका। देर तक उसी को लेकर उसका मन खिलवाड़ करता रहा। इसी बीच में अचानक उसकी आँख खुल गई देखा, चारों ओर अन्धकार है— सबाटा है। केवल निशिकान्त कमी-कमी कुनमुन-कुनमुन कर उठता है। कमी-कमी दूर कुत्ते भूँक उठते हैं, परन्तु यह कैसा शब्द है ? कोई धीरे-धीरे रह-रह कर सुन्नक उठता है। वह भय से कांपने लगी— कौन रोता है ऐसे...पर शब्द दूर नहीं था। शान्त होकर सुना, बराबर के कमरे में... बराबर के कमरे में तो वे सोये हैं। तो क्या...? वह उठी, शीघ्रता से निशिकान्त को भकभोरा—सुनिये, सुनिये जी।

निशिकान्त नींद में गुरीये—क्या है ?

अजी, सुनिये तो...

चौक कर उठा। आँधरे में आँखें फाड़कर बोला—कौन ?

मैं.....।

रजनी ? क्यों ?

अजी वह रो रहे हैं।

रो रहे हैं ? कौन ?

वह...

रामनाथ बाबू ?

जी।

निशिकान्त की नींद दूर हो गई। लालटेन जलाकर उसने पूछा—क्या बात है ?

रजनी बोली—कुछ पता नहीं। सायद बीमार हों।

तो, देखूँ जाकर ?

हाँ, देखना तो चाहिए ?

निशिकान्त उठा, किवाड़ खोले । रोने का स्वर अब भी आ रहा था । तण-तण में कोई सुबक उठता था । अचरज से भरकर निशिकान्त कुछ देर उसी तरह खड़ा रहा, फिर उसने साहस करके किवाड़ थपथपाये.....।

अन्दर एकदम शान्ति छा गई ।

रामनाथ बाबू.....?

कोई नहीं बोला ।

रामनाथ बाबू.....?

अब वह बोले—जी ! स्वर संयत था । किवाड़ खोलकर पूछा—क्या बात है ? निशिकान्त भिन्नाका । फिर बोला—सोते-सोते वह चौंक पड़ी । ऐसा मालूम हुआ, कोई रोता है ।

रोता है ? कौन ?

यही तो देखना है ।

अंधेरे में क्या भाव चेहरे पर आये, कुछ पता नहीं लगा । लेकिन कहा उन्होंने यही—शायद कोई पास के मकान में रो रहा हो !

शायद, पर उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे आप.....।

वह जोर से हँस पड़े—मैं ? मैं क्यों रोऊँगा निशिकान्त बाबू ? मैं तो गहरी नींद में सो रहा था । आपकी पत्नी को भ्रम हुआ है ।

शायद,—वह हतबुद्धि से लौटने लगे,—समा करिये, आपको व्यर्थ जगाया ।

वह उसी तरह बोले—कोई बात नहीं है । केवल गलतफहमी के कारण ही ऐसा हुआ है ।

और बात वहीं समाप्त हो गई । निशिकान्त ने सोचा— अपने को छिपाने की कला में आदमी कितना अभ्यस्त हो गया है ।

रजनी ने सोचा—ये लोग भी कितना झूठ बोलते हैं । छल और झूठ । हाय

रे भाग्य ! आदमी इनसे कहीं भी नहीं बच सका । स्वर्ग में उनका अभाव नहीं है । 'मेरी पीड़ा प्रकट न हो'—यह यत्न करने में छल और झूठ अनायास ही पुण्यात्मा के अस्त्र बन जाते हैं । कैसी घोर विडम्बना है, पर रजनी अब भी सोचती है— यह रोये क्यों ?

परन्तु इससे भी बढ़ कर अचरज रजनी को उस दिन हुआ । जब रामनाथ बाबू ने स्वयं स्वीकार किया वह रोये थे । तबतक उनका अजनबीपन दूर ही चुका था और इस दम्पति के अपनत्व के सामने वह झुकते जा रहे थे । वह तब धूप में बैठे रजनी को अपने बीते जीवन के संस्मरण सुनाने में लगे थे । अवस्था की दृष्टि से रजनी को बेटी कहते थे । मा की बात सुनाते-सुनाते अचानक बीच में बोल उठे— उस रात बेटी, मैं सचमुच रोया था ।

रजनी बोली— मैं जानती हूँ ।

सोचा होगा, कैसे पागल हैं ?

पागल नहीं, झूठा ।*

रामनाथ खुल कर हँसे—सचमुच मैंने झूठ बोला था ।

क्यों ?

क्योंकि मैं अपनी कायरता स्वीकार नहीं करना चाहता था ।

कायरता.....?

हाँ, रोनेवाले कायर होते हैं ।

पर आप रोये क्यों थे ?

मा की याद आ गई थी, बेटी । बचपन में वह इसी तरह मेरे लिये साफ बिस्तर बिछाया करती थी । चादर पर एक भी दाग लग जाता था तो मैं उसे फेंक देता था । याद नहीं पड़ता कभी तकिये का एक गिलाफ दूसरी रात मेरे तकिये पर रहा ही । तीस वर्ष पहले के वे दिन उस रात मेरे सामने आ खड़े हुए । ऐसा लगा मानों मा ने बिस्तर बिछा कर पुकारा हो—रामू ! सोयेगा नहीं रे ? सवेरे कालेज जाना होगा..... । उस जमाने की बात । कालेज जाना श्रीवृद्धि और ऐश्वर्य का मुक्त द्वार था । यही आशा

लगा कर मेरे मा-बाप ने मुझे कालेज भेजा था। इसी आशा पर उनका प्यार दुलार मुक्त हो कर बह रहा था। पर हाय रे भाग्य ! एक दिन छुपके से आकर बेमाता ने मेरे मा-बाप का खून मंग कर दिया। उनका बेटा इण्डियन-सिविल-सरविस में न जाकर भारत-मा की सेवा में जा पहुँचा। शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं था। भेद था केवल अर्थ की प्राप्ति में। इस प्राप्ति के प्रश्न को लेकर मेरे जीवन की दिशा पलट गई। पिता ने देखा, क्रुद्ध हो उठे। बोले— तूने मेरी नाक काटी है, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता।

मैंने कहा—पिताजी, आपको नाक जहाँ है वहीं रहेगी, पर अपना मुंह दिखाने में आपके घर नहीं आऊँगा।

मा कांप उठी—क्या कहता है तू ? पिता की प्रतिष्ठा धूल में मिलाना ही क्या आज कल की सन्तान का पेशा है ?

मैंने कहा—मा ! पिता की प्रतिष्ठा धूल में मिलाकर भी मैं देश की प्रतिष्ठा बचा सका तो सौदा सस्ता ही होगा।

मा नहीं समझी, रो पड़ी। न जाने हिन्दुस्तानी मा के ये आँसू कब रुकेंगे ? जिस दिन रुकेंगे उसी दिन भारत आजाद होगा, उससे पहले नहीं। उस रात मैंने वे आँसू फिर देखे। लक्ष्मण की रेखा के समान इन्हीं आँसुओं की लाम देकर माँ मुझे बाँधना चाहती थी, पर बाँध न सकी। रावण का नाश जो होना था ! पर वेटी, उस दिन और आज के दिन में एक अन्तर है। तब मेरी धमनियों का रक्त, जितना गरम था आज उतना नहीं है ! उत्साह होकर भी उसका आधार-स्तम्भ ढीला पड़ गया है। न जाने क्यों अपने को निर्बल महसूस करता हूँ ? जेल लाँच कर मैंने देश छाना है। वर्षों अधिकारियों के लिए भूत बन कर उनकी नाँद हराम की है। पर आज.....?

सहसा रामनाथ उद्विग्न हो उठे। आँखें आरक्त हो आईं। मुख तमतमा गया— नहीं। मैं अब भी सशक्त हूँ। मेरा ध्येय मुझे भूला नहीं है। मैं मोह-जाल में फँसकर कायर नहीं बन सकता.....।

रजनी चौकी, कुछ दुःखी भी हुई। बोली — आपको दुःख हुआ, जमा कर

दीजिए। आप देश के गौरव हैं, मले ही आपका नाम कोई न जानता हो। आपको रोक रखने को हम लोगों की कतई इच्छा नहीं है।

रामनाथ को अपनी गलती महसूस हुई, लखित हो उठे। कहा— नहीं बेटा ! गलती मेरी है। सड़क का मिखारी ऐश्वर्य को गोद में रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। आशा से अधिक जिस मिल जाता है वह मस्तिष्क का संतुलन खी बैठता है। जो स्नेह स्वप्न बन गया था वही जब साकार होकर सामने आ गया तो मैं कायर बन चला। पर बेटा, मैं अब जाना चाहता हूँ।

रजनी बोली—विश्वास रखिये, हम आपको बांधना नहीं चाहते। परन्तु इस प्रकार भी क्या जीवन बिताया जा सकता है ? अराजकता के दिन अब नहीं हैं। कुछ दिन हम लोगों के पास रहिए। देश आपका है। आप किसी पर भार बनने की बात क्यों सोचते हैं ?

रामनाथ द्रवित होने लगे, कहा—रजनी बेटा। तुम्हें देखकर मा की याद आ जाती है। ऐसा लगता है, तुम्हारे रूप में मा जन्म लेकर फिर से मेरी देख-भाल करने आ गई है। ऐसा नहीं होता तो कैसे उस रात मैं निशिकान्त को ढूँढ पाता ? उनके लेख पड़े थे। लगा, आदमी विस्तृत है, इसलिए चला आया। देखता हूँ, उस विस्तृत आकाश के अतिरिक्त यहाँ विशाल धरती भी है। इसी आकाश और धरती की मिलन-छाया के नीचे जीवन-सन्ध्या के कुछ दिन बिता सकने का लोभ मुझे बार-बार हो आता है।

रजनी मुस्कराई—तो उस लोभ को त्यागिये नहीं। कुछ दिन यहाँ जरूर रहिए।

रामनाथ फिर असमंजस में पड़ गये। कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले— देखता हूँ, यह लोभ त्याग नहीं जा सकेगा। मैं भाग नहीं सकूँगा.....।

रजनी गद्गद् हो उठी, जैसे मनचाहा वर मिला। निशिकान्त के लौटते ही उसने कहा—

मुनिये, ये अब यहीं रहेंगे।

सच ?

हाँ । आज उन्होंने पहली बार स्वीकार किया है वह रहना चाहते हैं ।

निशिकान्त प्रसन्न हुआ, बोला—यह शुभ है रजनी ! कुछ दिन यहाँ टिक कर रहेंगे तो जीवन पर विचार करने का अवसर मिलेगा ।

जी । पर आप उनके लिए कपड़ों का प्रबन्ध कर दीजिये । इनके पास कुछ नहीं है । और भी जरूरी चीजें.....।

जरूर करूँगा । आते समय भंडार से कपड़ा लेता आऊँगा ।

और देखिये, यह पढ़े-लिखे आदमी है, चाहें तो व्यूशन कर सकते हैं ।

खाभिमानी आदमी दूसरे का अन्न खाना ठीक नहीं समझते । इनको ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहिये कि यह हम लोगों पर निर्भर हैं ।

निशिकान्त प्रभावित होकर बोले—रजनी, बात तुमने पते की कही है । मैं अवश्य इसका भी प्रबन्ध करूँगा ।

और सचमुच अगले दिन निशिकान्त जब दफ्तर में लौटे तो बहुत-सा कपड़ा और कुछ अन्य जरूरी सामान चगल में दावे हुए थे । आकर बोले—लो भाई, दादा का सामान ले आया हूँ । कहाँ हैं वह ? दरजा भी आ गया है ।

रजनी देखकर हँसी—ले आये, बड़ा अच्छा किया ! दादा ऊपर बैठे होंगे । आज तमाम दिन बड़े प्रसन्न रहे । कहते थे... ।

निशिकान्त ऊपर चले गये । रजनी सामान संभालने लगी । लेकिन उसी क्षण ऊपर से निशिकान्त ने पुकारा — अरे भाई वह यहाँ नहीं हैं ।

रजनी चौंकी—नहीं हैं ? वहाँ तो थे ।

बाजार तो नहीं गये ?

मुझसे तो नहीं कहा । मैं जन्न आई थी तो पढ़ रहे थे । और कहती कहती वह भी ऊपर चली गई । देखा — कमरा सूना पड़ा है । किताब उलटी रखी है । सब सामान यथास्थान है, केवल उनके पहनने की धोती अरगनी पर नहीं है ।

मन कैसा चोर है ? क्षण भर में सब-कुछ देख डाला । बोली—कहाँ गये ?

बिना कहे तो वह हिलते भी नहीं ।

तुमने मुना न हो ।

शायद ! तो अभी आ जायेंगे, आप दरजी से कह दीजिये कि...। तभी उसकी दृष्टि पलंग पर पड़ी । तकिये के नीचे एक कागज रखा था । भ्रमट कर उसे उठा लिया । रामनाथ ने उसमें लिखा था —

तुम लोगों ने मुझ पर जो अपने निष्पाप हृदय का स्नेह ऊँडेला है उसका बदला सहस्र जन्म लेने पर भी चुकाना असम्भव है । सोचा था जीवन के अन्तिम दिन तुम लोगों के स्नेह-वट की छाया में बिता दूं, पर मृत्यु का सोचना क्या खतत्र है ? वन्दिनी मा की मुक्ति के लिए जन्मदात्री का वध मैं कर चुका हूँ । सोचता हूँ, किसी दिन तुम लोगों के प्रति भी मुझे कृतघ्न न बनना पड़े । इसीलिए आज जा रहा हूँ । विश्वास रखिये, मैं जीवन में विश्वास रखता हूँ । मरते दम तक जीऊंगा । हाँ, एक बात तुमसे कहता हूँ । प्रेम का जो स्फटिक सोता तुम लोगों के हृदय में बहता है उसे कभी न सूखने देना । सारा संसार उसी का प्यासा है । मैं साम्यशास्त्री था जो उस सोते का पानी पी सका । अकेला ही सारा पी जाऊँ— इतना स्वार्थी मैं नहीं होना चाहता ।

तुम लोगों का

रामनाथ

पढ़ लिया तो कागज हाथ से झूट कर गिर पड़ा — बस

यह क्रम



उस दिन जब निशिकान्त दफ्तर से लौटा तो बहुत प्रसन्न था। रास्ते में एक पुराने मित्र मिल गये थे। देखते ही बोले — हलो निशिकान्त !

निशिकान्त मुस्कराया—अहा, रमेश ! बहुत दिनों में देखा। प्रसन्न हो न ?
'बहुत प्रसन्न ! भई ! इस मास के 'नव-भारत' में तुम्हारी कहानी देखी !'

निशिकान्त उत्सुक हुआ। पूछा — कैसी लगी ?

'एकदम शानदार, बहुत शानदार !'

गदगद होकर उसने कहा — शुक्रिया !

रमेश बोला — भई खूब पकड़ है तुम्हारी। जो तुमने लिखा है वे सब बातें हम दिन-रात देखा करते हैं परन्तु उनका वह रूप जो तुमने प्रस्तुत किया है कभी हमारे सामने नहीं आता। बहुत गहरी पकड़ है तुम्हारी ! निशिकान्त का मन फूल उठा लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचा तो उसकी प्रसन्नता भुंभलाहट में पलट गई। जीने पर चढ़ते-चढ़ते उसने घुना, घर में एक गहरा शोर व्यापा है। उस शोर में खीज, क्रोध भुंभलाहट भरी पड़ी है। अनायास ही उसके मुँह से निकला — कैसे कम्बख्त लोग हैं ? हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। घर न हुआ कंज रखाना ही गया और तुरी यह है कि सब पढ़े-लिखे लोग हैं.....! वह ऊपर आगया। उसने देखा— सब घर वालों ने उसकी छोटी लड़की को घेर रक्खा है। वे सब उसे ताड़ रहे हैं। सब एक साथ बोलते हैं। बालिका मयातुर आँखों में आसू भरे, मुँह फुलाये बुत की तरह अडिग खड़ी है।

उसने कहा — क्या शोर मचाया है ?

उसे देख कर सब सहसा सहम उठे। मा ने दण भर रुक कर धीरे से कहा— इसने चोरी की है ?

विष्णु

‘किसकी चोरी ?’

‘किसकी क्या बेटे ! कल मैंने एक रुपया भुनाया था । चार आने का दूध, तीन आने का दही, दो आने

वह खीज उठा । बीच में टोंक कर बोला — मतलब की बात कहो, मा !

‘हाँ ! वही कहती हूँ । कुल तीन आने बचे थे । वे मैंने बहू को दे दिये । मैं होती तो सब मेरे सिर हो जाते — कहीं और रख दिये होंगे । वह तो बहू थी; उसने मेरे सामने.....’

निशिकान्त की खीज क्रोध में पलट गई । झुंझा कर बोला—मा ! तुम सदा दास्तान सुनानी शुरू कर देती हो । बात क्या है ? आखिर उसने कितने पैसे चुराये ।

‘एक आना !’

‘तुमने देखा !’

‘हाँ, सरिता ने देखा ।’

‘कहाँ है सरिता ?’

सरिता दबी दबी एक कोने में खड़ी थी । नाम सुन कर आगे आ गई । निशिकान्त ने स्वर को यथाशक्ति कोमल बना कर कहा — क्यों सरिता, तुमने देखा ?

सरिता ने सहमे-सहमे गरदन हिलाकर स्वीकृति दी - बालिका ने तब आँखें उठा कर एक बार सरिता को देखा और फिर पिता को । उसी क्षण निशिकान्त के नयन आरक्त हो आये, चहरे पर क्रोध गहरा हो गया । उसने बालिका का हाथ जोर से पकड़ कर खींचा, इतने जोर से कि बालिका चीख उठी । मा ने अब बालिका का पकड़ लिया, अरे नहीं बेदा ! मारने से क्या होता है ?

‘तुम यहाँ से जाओ मा ! तुम सब.....’

वे सब दूसरे कमरे में चले गये । निशिकान्त ने बालिका को दोनों हाथों से पकड़ कर अपने सामने खड़ा किया और तीव्र स्वर में पूछा—तुमने पैसे उठाये हैं ?

बालिका चुप ।

‘बोलो ।’

बालिका उसी तरह स्थिर ।

‘नहीं बोलती ! मार डालूँगा जान से ।’

बालिका पूर्ववत् मौन ।

निशिकान्त ने जोर से उसे हिलाया फिर तट्टक से गाल पर एक चपत दे मारा । बालिका तिलमिला उठी । उसके गालों पर रक्त चमकने लगा । कई लम्बे तक उसकी साँस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, रुकी रही । और फिर वह बेतहाशा रोने लगी । स्वयं निशिकान्त का अन्तर व्याकुल हो उठा लेकिन बाहिर उसी तरह दृढ़, कठोर । उसने चिह्ना कर कहा—लखरदार जो रोई ।

लेकिन बालिका का चीत्कार कम न हुआ । चपत फिर उठा । बालिका सहमी, मुँह बन्द करके उसने खर को रोका लेकिन सुनकियाँ कोशिश करने पर भी नहीं रुकीं ।

वह फिर चिल्लाया—चुप ! एकदम चुप !

बालिका ने फिर कोशिश की.....

‘तुमने चोरी की थी ?’

बालिका अब भी नहीं बोली । उसने गाल पर हाथ रखा हुआ था । वह सुबक रही थी, उसकी आँखों से भय बिखरा पड़ता था ।

निशिकान्त ने तीव्र होकर कहा—नहीं सुनती तू । ऊपर देख । बालिका सहमी, उसने ऊपर देखा, आँखों से आँखें मिलीं मानो बिजली कौंधी, मानो भूचाल का गहरा धक्का पृथ्वी को कँपता हुआ सर से निकल गया । निशिकान्त चौंक उठा—यह क्या...?

उसने फिर देखा, फिर-फिर देखा—वही आरक्त चेहरा, वही सजल भयपूरित आँखें, वही अनवृभ दृष्टि, वही कम्पित गात.....उसके दिमाग पर किसी ने दे मारा । वह भिमिया कर रह गया ।.....उसके सामने उसका अपना मुख था । पच्चीस वर्ष पहिले वह ऐसा ही लगता था, विस्कुल ऐसा । एक दिन इसी की तरह वह भी काँप रहा था, उसकी भी आँखें आँसुओं से भरी थी, उसका भी चेहरा तमतसा रहा था—। उसने भी चोरी की थी ।

निशिकान्त फुसफुसाया—मैंने भी चोरी की थी। उसका हाथ ढीला पड़ा उसने फिर अपनी बेटी को देखा और दूसरे क्षण दौड़ते बोड़े की तरह, शोर मचाती घटनास्थलों की रेल उसके दिमाग के शौलों से टकराती-उलभती निकल गई। वह तब ६ वर्ष का था। उसने अपनी दादी की डिविया से रुपये निकाल कर बहुत सी चीजें खरीद ली थीं—मसलन, किताबें, सलेट, कलम, पेंसिल, खेलने के लिए ताश, सीटी; खाने के लिए कलाकन्द पेड़े। और वह अकेला नहीं था, उसके कई सहपाठी उसके साथ थे और वह चौका..... उस डाँके में उसके मास्टर का भी हिस्सा था। वास्तव में मास्टर को मेंट करने के लिए उसने चोरी की थी। यह बात दूसरी थी कि उन्हें एक रुपया देकर उसके पास चार और बच रहे थे। आखिर वह चोरी पकड़ गई चोरी कमी नहीं छिपती। और जब पकड़ गई तो उस पर बेतहाशा मार पड़ी। मा ने चिनचिना कर कहा—जी करता है मरे की छाती पर चढ़कर खून पी जाऊँ। मरे ने मेरे दूध को लजाया है।

कुल लजावा कहीं का। इतना है तो यह हाल है.....। बाप ने आँखें तरेर कर दाँत मीच कर मुका उठाया और चाचा ने मारे तमाचे के मुँह लाल कर दिया—तूने चोरी की है.....? क्यों की है.....? फिर करेगा चोरी.....? किसी के भुलावे में मत रहना..... हड्डी-पसली तोड़ डालूँगा.....। लेकिन एक वृद्धी पड़ोसिन ने मुँह बिचकाकर कहा—क्यों मारे डालते हो लौंडे को, आखिर इसके बाप ने भी तो चोरी की थी।

और चाचा ने भी.....।

बिजली फिर कौंधी। उसे याद आया उसी सन्ध्या को जब वह खूब पिटा हुआ था। उसका चाचा हँसा और बोला—मैं जब छोटा था तो लाला की दूकान से दो पैसे उड़ा लाया था।

मा भी हँसी—दो पैसे क्या! न जाने कितने कुएं खोदे थे तूने? निशिकान्त ने जोर से गरदन को भटक दिया। उसके चेहरे पर कालख पुतने लगी—मेरे बाप चाचा ने चोरी की थी, मैंने चोरी की थी और आज मेरी बेटी ने की है। मेरा बाप पिटा था, मैं पिटा था, और मेरी बेटी पिटती है.....।

छी, छी—वह कौंपा—कैसा दूषित क्रम है ! यह मेरी बेटी है, मैं अपने बाप का बेटा था और मेरा बाप अपने बाप का यह अटूट और अनन्त परम्परा है—चोरी की परम्परा । बेटी ने मुझसे चोरी सीखी, मैंने अपने बाप से, बाप ने अपने बाप से और इसी तरह हर किसी ने अपने पहले हर किसी से यह गुण प्राप्त किया । लेकिन दण्ड...

निशिकान्त ने अब अपनी बेटी को निष्कुल मुक्त कर दिया । उसे फिर एक पढ़ी हुई बात याद आ गई ।

एक पिता अपने नवजात पुत्र को लेकर एक महापुरुष के पास पहुँचे । परम श्रद्धा से शिशु को उन्होंने उनके चरणों में लिटा दिया । बोले—परमपूज्य ! बालक को आशीर्वाद दीजिये यह मनुष्य बने !

महापुरुष मुस्कराये, बोले— अपने को मनुष्य बनाओ, बालक स्वयं मनुष्य बनेगा ।

और यही बातें सोचकर निशिकान्त का मन न्तानि से भर उठा । वह फुस-फुसाया—मेरी बेटी ने चोरी की है यह मेरा अपराध है । दण्ड मुझे मिलना चाहिये, इसे नहीं ।

अब उसके मन में जो क्रोध था वह दूर हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा—ऐसा स्नेह जो चमा से पूरित था । उसने बेटी को छाती से चिपका लिया । कई क्षण चिपकाये रहा । मन जब बहुत भीग चुका तो जेब से बटुआ निकाला । उसमें जो भी पैसे थे उन्हें पलंग पर उलट कर बोला—बोलो बेटे ! क्या चाहिये ?

बालिका ने गरदन उठा कर कौतूहलभरे नयनों से अपने पिता को देखा, देखती रही । निशिकान्त ने उसी स्नेह से कहा—बोलो बेटे.....।

बालिका का भय बरबस दूर होने लगा । यद्यपि आशंका अभी भी बनी हुई थी । तो भी वह मुस्कराई । निशिकान्त हँसा—अब ठीक है मेरी बेटी ! यह पैसे तुम्हारे हैं । उठा लो ।

बालिका हँस पड़ी और जल्दी से जल्दी पैसों को बटोरने लगी । बीच में रुक कर एक दो बार सहमी दृष्टि फिर पिता को देखा । कहीं..... ।

लेकिन निशिकान्त का स्नेह और भी गाढ़ा और गहरा हो रहा था। उसके नेत्र सजला हो उठे थे ! उसके मुख पर मायुर्य भालकने लगा था। उसने कहा—मेरी बेटी ! जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कहो— मैं तुम्हें पैसे दूँगा।

आखिर अब बालिका की बानी खुली। उसने मुस्करा कर कहा—अच्छा पिता जी !

अरुणोदय



जैसा कि सदा होता था, निशिकान्त के तीव्र स्वर का उन पर तनिक भी असर नहीं हुआ । उन्होंने बड़ी शान्ति से फाइल उलटते हुए कहा—‘बाबू निशिकान्त, आप युवक हैं, आपके लहंगे में गरमी है, किसी दिन मैं भी युवक था, मेरे लहंगे में भी गरमी थी । सच कहता हूँ, गोरे अफसर का अत्याचार देखकर मैं कांप उठता था । जी में आता था कि उसके हाथ से कोड़ा छीन कर उसे ही पीटना शुरू कर दूँ । वह सलाह का भूखा था सड़क पर चलते समय जो भी उसे सलाह न करता उसी पर वह बेरहमी से कोड़े बरसाने लगता । यही देख और सुनकर मैं क्रोध से भर उठता था । मैं चाहता तो उसे पीट सकता था, मुझ में शक्ति थी, परन्तु... परन्तु बाबू निशिकान्त ! मैं ऐसा करता, तो क्या तुमसे बातें करता होता ? मुझे जेल होती, सम्भवतः मार दिया जाता, और मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, मेरा सारा परिवार दर-दर का भिखारी होता.....।’

निशिकान्त ने दौँत पीस लिये, कहा कुछ नहीं । वे ही कहते रहे । वे लगभग पचास वर्ष के थे, परन्तु बाल अभी तक काले थे, आँखें चमकती थीं । इसी दफ्तर में अपनी नौकरी के पच्चीस वर्ष पूरे कर चुके थे । उनका नाम था बाबू हरिचन्द । हँसमुख, प्रेमी और भिलानसार । कभी क्रोध नहीं आता था और जिन्हें क्रोध आता था उनको वे ऐसी करुण दृष्टि से देखते कि क्रोधी पानी-पानी हो उठता था । समय की उन्हें विशेष चिन्ता नहीं थी । सबसे पहिले आते और लौटते तो रात पढ़ जाती । सदा यही कहते, गुलामी पाप है, पीस देती है परन्तु क्या करें, भगवान की यही इच्छा है । वह चाहेगा तभी कुछ होगा । अब भी उन्होंने कहा, ‘धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जावेगा । समय सब कुछ करा लेता है । आज तुम कष्टना भी नहीं कर सकते कि कोई गोरा किसी हिन्दुस्तानी को शाली दे सकता है । कोड़े मारना तो दूर की बात है ।’

निशिकान्त का सन्न जवाब दे रहा था, उसने तीव्रता से कहा — ‘समय कुछ

नहीं करता, उससे कराया जाता है ।’

‘हाँ; हाँ’ — बाबू हरिचन्द ने कहा — ‘ठीक है, कराया जाता है । भगवान् सब कुछ करा लेते हैं ।’

‘आह ! भगवान् नहीं, आदमी कहिये, आदमी, बाबू साहब ।’

‘आदमी ? आदमी ही कह लीजिये ! भगवान् उसी के द्वारा सब कुछ करा लेते हैं । वह भगवान् के हाथ का यन्त्र है.....।’

‘यन्त्र ... !’ निश्चिन्त का मन घुटने लगा, घुट्टा जैसे छाती से उठकर मस्तिष्क में भर चला हो, परन्तु वह क्या कहे और किससे कहे । इसीलिये मन मार कर वह भी फ्राइलों में उलझ चला, लेकिन कहते हैं ‘शक्कर खीरे को शक्कर और मूँजी को टक्कर’ सब जगह भिल जाती है । उसने फाइल उठायी और बाबू हरिचन्द के पास आकर बोला — ‘आप समय की बात कह रहे थे, मुझे बताइये मैं क्या करूँ ?’

परम शान्त मुद्रा में वे मुस्कराये — ‘क्या बात है ?’

‘क्या बात होती, वहीं मँगला चपरासी की ग्रेजुइटीका कॅस है । तीन वर्ष से बड़े दफ्तर में पड़ा हुआ है । और अब वे कहते हैं कि इसे समाप्त कर दीजिये ।’

‘यह कैसे समाप्त हो चुका है !’

‘क्यों ?’

‘क्योंकि बड़े दफ्तर के बाबुओं की ऐसी ही इच्छा थी ।’

निश्चिन्त को फिर तेश आने लगा । उसने कहा — ‘मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी इच्छा का इतना मूल्य क्यों है ?’

बाबू हरिचन्द फिर मुस्कराये और बोले — ‘बाबू निश्चिन्त, बड़े दफ्तर के बाबू बड़े हैं । वे हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भाग्य के निर्णायक हैं, उनकी कलम चया भर में हमारी उन्नति को अन्नति में पलट सकती है । तुम कारण की बात कहोगे परन्तु भैया ! कारण बूढ़ निकालना कोई कठिन काम नहीं । [सहसा धीमा स्वर कर लेते हैं ।] और निश्चिन्त, अब तुम्हारा मामला है । वे चाहें तो तुम्हें सीनियर बना दें, चाहे तो उस्मान को । सीनियर होते ही नया ग्रेड मिलता है, वेतन बढ़ता है ।

ऐसी अवस्था में कौन मूर्ख होगा जो उनका विरोध करके अपने उज्वल भविष्य का नाश करेगा ।’

निशिकान्त ने लापरवाही से कहा—‘मुझे अपने भविष्य की चिन्ता नहीं है । उसके लिये मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, दूसरे पर नहीं ।’

‘तब तुम मूर्ख हो,’ जवाब मिला ।

‘हो सकता है’—निशिकान्त ने कहा—‘परन्तु इस केस को समाप्त करने से एक गरीब परिवार की आशाओं पर तुषारपात होता है । जब आप भविष्य को बिगाड़ने और सुधारने की बात कहते हैं तो क्या यह नहीं सोचते गरीब की आह में बड़ी शक्ति होती है, वह भविष्य की उज्वल रेखा को तनिक सी देर में काली कर सकती है ?’

बाबू हरीचन्द ने उसी शान्ति से कहा—‘लेकिन बाबू निशिकान्त, आप क्यों डरते हैं ? अगर किसी के भविष्य को उज्वल रेखा काली होगी तो वह बड़े दफ्तर के बड़े बाबुओं की होगी, हमारी नहीं । सच मानो, हमें उन लोगों के भविष्य की ज़रा भी चिन्ता नहीं है ।’

यह कहकर उन्होंने निशिकान्त की और अद्भुत मुद्रा से देखा । उनके मुख पर हँसी भलक आयी थी । वह हँसी जो मात्सर्य, व्यंग्य और विजय से पूर्ण थी, मानो कहते थे—निशिकान्त ! सच मानो, बड़े दफ्तर के बड़े बाबुओं से हमें बड़ी नफरत है । उनके पतन से हमें बड़ी प्रसन्नता होती है । इसीलिये ऐसे कार्यों को रोकने की हम ज़रा भी चेष्टा नहीं करते ।

निशिकान्त ने सब कुछ देखा और समझा । उसका मस्तिष्क चकराने लगा । उसे नौकरी करते हुए पन्द्रह साल बीत चुके थे परन्तु न जाने क्यों इधर वह चिन्तित और व्यग्र होता आ रहा था । ऐसी सब बातों से उसे धृणा होने लगी थी और वह इस दम धोटने वाले वातावरण से दूर, बहुत दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन.....

बस यही ‘लेकिन’ उसके रास्ते का रोड़ा बनकर अटक पड़ा था । इस ‘लेकिन’ में आदर्श के लिये जीविका छोड़ने का प्रश्न था । उस भविष्य का प्रश्न था जहाँ सर-कार की पेशान पाकर बुढ़ापे में आराम और आसाइशका जीवन बिताया जाता है, परन्तु

यह भविष्य केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक खतन्त्रताका हनन करके प्राप्त किया जाता है। भावो मनुष्य मनुष्य नहीं है। न उसमें चेतना है, न बुद्धि है। न उसकी आशाएँ हैं, न आकांक्षाएँ, बस वह केवल यन्त्र मात्र है.....

सहसा उसे याद आ गया, उसके साथी ने अभी-अभी कहा था— मनुष्य भगवान के हाथ का यन्त्र है, और भगवान जो कुछ भी चाहते हैं मनुष्य को करना पड़ता है। उसके मन ने तर्क किया— लेकिन भगवान क्या चाहते हैं इसका निर्णय कौन करता है ?

उत्तर भी स्वयं ही मस्तिष्क में आ गया। जो कुछ होता है वही भगवान चाहते हैं। यह उत्तर सोचकर उसे बड़ी भयानक हँसी आ गयी। उसने फाइलों को परे सरका दिया। कुर्सी पीछे हटायी और पैर मेजपर रखकर लुढ़क गया। हाँ, तो, जो कुछ होता है वही भगवान चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं वही होता है। मनुष्य तो उसके हाथ का यन्त्र है, जिधर चाहा जैसे चाहा, तुमा दिया.....।

तभी छोटे बाबूने आकर कुछ कागज उसके सासने फेंक दिये, बोले, 'देखो !'

'क्या है ?'

'तुम्हारा केस है, और बड़े बाबूने जो कुछ लिखा है वह तुम्हारे विरोध में जाता है !'

'जाने दो, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है !'

'लेकिन यह उसकी नीचता है। वह इस प्रकार मुसलमानों का मंला बनना चाहता है !' पर यह उसकी भूल है। वे लोग इसे निकालकर दम लेंगे।

निश्चिन्त सब कुछ समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, 'मैं समझता हूँ उनका यह विश्वास है कि उस्मान मुझसे सीनियर है !'

'नहीं, यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कौन सीनियर है। बात केवल बड़े दफ्तर के रूस्लिंग (निर्णय) की है। ऐसी अवस्था में उसका कर्तव्य है कि वह तुम्हारा पक्ष ले !'

'क्यों ?'

‘ क्योंकि तुम हिन्दू हो और क्योंकि मुसलमानों ने हम लोगों पर अत्याचार करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है । प्रान्तीय स्वशासन के बाद तो उन्होंने नौकरियों पर एक प्रकार से धावा बोल दिया है ।’

निशिकान्त सहसा बोलते-बोलते रुक गया । वह हिन्दू है और उसके हिन्दूपन की लेकर ही ये सब बातें उससे सहायुभूति प्रकट करने आये हैं । इसलिये कोई ऐसी बात कहना जिससे उनका मन दुखी हो ठीक न होगा ।

—कि छोटे बाबू फिर बोल उठे : ‘तुम लाहौर क्यों नहीं जाते ?’

‘लाहौर.....?’

‘हाँ’

निशिकान्त अब चुप नहीं रह सका ! उसने दृढ़ता से कहा— ‘नहीं । मैं कहीं नहीं जाऊँगा । अगर मेरा पक्ष प्रबल है तो मुझे किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है और अगर उस्मान का पक्ष ठीक है तो उसे सीनियर बनाना ही चाहिये । मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं होगा ।’

छोटे बाबू कच्ची गोली नहीं खेले थे । बोले—‘तुम्हें दुख नहीं होगा लेकिन हमें तो होगा । आज की दुनिया में न्याय चुपचाप बैठने से नहीं मिलता । जानते नहीं वह कितनी कोशिश कर रहा है, कितने अफसरों से मिल चुका है ?’

‘सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि उसने अपना आदमी लाहौर भेजा है ।’

‘तो फिर.....?’

‘तो फिर यही कि शायद उसे अपने पक्ष की निर्बलता का विश्वास है ।’

‘बेशक उसका पक्ष निर्बल है, लेकिन कोशिश करके वह उसे प्रबल बना लेगा । तुम न्यायकी बात देखते रहना । परन्तु हम यह नहीं होने देंगे । बात केवल निशिकान्त की नहीं है, हिन्दू-मुसलमान की है ।’

और इतना कह कर वे चले गये । निशिकान्त ने फिर चिट्ठियों को संभाला । सामने डाक का ढेर लगा था । उसे सब पर टिप्पणियाँ लिखनी थीं । उसने कलम उठायी और लिखना आरम्भ कर दिया, लेकिन मस्तिष्क.....वह तो काम से दूर, बहुत दूर,

उसके भविष्य की चिन्ता में लगा था। निशिकान्त किसी भी तरह उसे शान्त न कर सका। उसने सोचा, यदि मैं सीनियर हूँ तो वे रोकते क्यों हैं? क्या मनुष्य सचमुच इतना गिर गया है कि वह स्वार्थ के लिये न्याय का गला बोट दे? नहीं, नहीं, परमेश्वर यदि है तो ऐसा नहीं होगा। वह कभी अन्याय नहीं होने देंगे.....कि सहसा धका लगा—परमेश्वर ! कैसी मूर्खता की बातें हैं? ईश्वर-परमेश्वर कहीं कुछ नहीं है। मनुष्य जब निर्बल था, तब ईश्वर का जन्म हुआ था। वह मनुष्य की निर्बलता की खीकरोक्ति मात्र है। पर आज तो मानव शक्तिशाली है। उसने प्रकृति को जीता है। उसे अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है.....।

कि तभी एक दूसरे भिन्न आये और धीरे से बोले—‘कुछ सुना तुमने?’

‘क्या?’

‘रात मस्जिद में मीटिंग हुई थी’

‘किनकी?’

‘उन्होंने लोगों की। डिप्टी, थोवरसियर, स्टोरकीपर सभी थे। तुम्हारे हमबतनी भी थे। डिप्टी साहब ने साफ़ कह दिया अगर निशिकान्त को स्टोरकीपर बनाकर भेजा तो मैं एक महीने में नालायक करके निकलवा दूंगा। इसपर स्टोरकीपर ने कहा—‘जी, निशिकान्त आसानी से नालायक होने वाला नहीं है। जूनियर होकर भी उलभके हुए कंसों पर वही टिप्पणी करता है।’

डिप्टी साहब तब मुस्कराये, बोले— ‘चोरी के इलजाम में डिसमिस करा देना तो मामूली बात है।’

‘सच’ ऐसा कहा उन्होंने?’ निशिकान्त ने अचरज से पूछा।

‘हाँ!’ — मित्र विजय-गर्व से भरकर बोले।

‘बड़े दुष्ट हैं!’

‘देख लो। तुम इनकी प्रशंसा करते नहीं थकते और वे हैं कि तुम्हारी जड़ काटने के लिये कटिबद्ध हैं।’

निशिकान्त मुस्कराया। ‘जड़ कौन किसकी काट सका है? जो ऐसा सोचते हैं, मूर्ख हैं, परन्तु.....।’

साथी बीच ही में बोल उठे : 'भूर्ख तुम हो, निशिकान्त । तुम्हें समय रहते धिन्ना करनी चाहिये । मेरा काम तुम्हें चैतावनी देना था । और मुझसे तुम्हारी कोई सहायता हो सकती हो तो मैं तैयार हूँ ।'

'आपकी कृपा है, मुझे आप पर भरोसा है ।'

साथी मुस्कराकर चले गये और मस्तिष्क के ब्रंंडर को रोकने में असमर्थ निशिकान्त फिर चिट्टियों पर झुका । बीच में कई बार बड़े बानूने बुलाया, साहब ने सलाम भेजा, साथी केंस पूछने आये और गये । दफ्तर का काम तेजी से होता रहा और उसकी विचारधारा भी तेजी से बढ़ती रही कि सन्ध्या होते-होते उस्मान अजीब अदा से मुस्कराता हुआ आया । बोला — 'अरे भई निशिकान्त' सुना वह केंस फिर आ गया है ।'

निशिकान्त भी मुस्कराया । 'कौनसा केंस ?'

'वही मेरा और आपवाला ।'

'तब ।'

'क्या लिखा है ?'

'सरबिस-बुके माँगो है ।'

'यार, तुम्हारी जीत है ।'

'कैसे ?'

'पर्सनल असिस्टेंट सिख है ।'

सहसा निशिकान्त उठ खड़ा हुआ और पूर्ण विश्वास के साथ उसने उस्मान को देखते हुए कहा — 'मैं मानता हूँ, तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे । इसमें तुम्हारा दोष नहीं है । परिस्थिति ही ऐसी है, परन्तु मैं दिल की बात करता हूँ । मैं न्याय से ऊँचे पद का हकदार हूँ तो ठीक है अन्यथा मैं सपने में भी तुम्हें गिराने की बात नहीं सोच सकता । तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं । मैंने आज तक साहब से इस बात का जिक्र तक नहीं किया, जब कि तुम जानते हो उन लोगों से मेरे सम्बन्ध कितने गहरे और भीठे हैं । मैं अपने खिये किंदी के आगे हाथ फैलाने से भूखा मर जाना कहीं अच्छा

समझता हूँ । इन्सान इन्सान के आगे हाथ फैलाये, इससे गन्दी बात और हो ही क्या सकती है ?'

निशिकान्त का स्वर इतना स्पष्ट और बेलाग था कि कोई भी निष्पक्ष आदमी उसकी ईमानदारी से इनकार नहीं कर सकता था । उस्मान मुस्कराया, उसकी आँखें धमक उठीं । क्षण भर के लिये विश्वास ने मानों अविश्वास को पराजित कर दिया हो । उसने कहा — 'सच, निशिकान्त ! मैं भी यही चाहता हूँ ।'

और फिर सहसा बात को आगे बढ़ाये बिना वह चला गया । निशिकान्त का मन भर आया था । क्षण भर उसने जाते हुए उस्मान को देखा, फिर जल्दी-जल्दी चिट्ठियाँ छाँटने लगा । ६ बजने वाले थे और उसका मन काम करने को नहीं कर रहा था । उसने दफ्तरी को पुकारा — 'मैं जा रहा हूँ । कमरा बन्द कर दो ।'

और वह लौट चला । चलते-चलते त्रिचरों का एक तुमुल प्रवाह मस्तिष्क में भर आया । कुछ पुरानी बातें नयी होकर सामने आ गयीं । उस दिन वह पत्नी के साथ नहर के किनारे घूम रहा था । वातावरण में मस्ती थी; उसके मन में, उनकी बातों में मस्ती थी । प्रेम और मोहब्बत की बातें करते-करते वे भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे थे, कि सहसा निशिकान्त का मन विषाद से भर उठा । उसने दर्द भरे स्वर में कहा — 'रजनी, कैसी अचरज की बात है ! मुझे नौकरी करते हुए वारह वर्ष बीत गये, परन्तु मैंने एक क्षण के लिए भी इसे पसन्द नहीं किया । मैं इसे अपने जीवन का श्राप समझता हूँ ! प्रतिक्षण यहाँ मनुष्य मनुष्य का गला घोटता रहता है । प्रति क्षण दासता की कड़ियाँ कसती रहती हैं । प्रतिक्षण हिन्दू-मुस्लमान, ऊँच-नीच, जाट-बनियाँ, सिख-असिख पंजाबी-नॉनपंजाबी, ब्राह्मण-बनिया के रूप में मनुष्य की नोचता, तृष्णा और घृणा फूलती-फलती रहती है ।'

रजनी ने पति की श्लानिको अतुभव किया, बोली, 'ऐसी बात है तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते ।'

निशिकान्त मुस्कराया । 'मैं भी यही पूछा करता हूँ, मैं नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता । परन्तु, रजनी, पैस की पुकार रास्ते का रोड़ा बन जाती है । जो हितैषी है वे

पूछ बैठते हैं — करोगे क्या ? देखती आंखों आज की दुनिया में भरी-पूरी रोजी को खात मारना मूर्खता की सीमा है ।’

‘लेकिन,’ रजनी बोली, ‘आपको भी पेट की चिन्ता है ! आप तो लिखते हैं !’

‘लिखता हूँ, पर लिखने से पेट नहीं भरता । पूँजीपतियों के देश में लेखक की दरश मजदूर से भी बदतर है ।’

‘अपना कुछ काम कर लो ।’

‘उसके लिये पूँजी की आवश्यकता है ।’

रजनी ने क्षण भर सोचा, बोली, ‘मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेच दो । युद्ध के कारण सोना तेज है । जब कभी सस्ता होगा, वन जायेंगे । और न भी बने तो क्या उनके बिना जिया नहीं जाता !’

तर्क इसी तरह आगे बढ़ता गया और जैसा कि तर्क का गुण है, बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, और निश्चिन्त को फिर अम्मा की बातें याद आ गयीं । वह सदा हवा में बोलती है — छोड़ दे नौकरी । अपने घर चल । भूखा कौन मरता है । भगवान सबको देते हैं ।

निश्चिन्त तर्क करता — नहीं अम्मा ! भगवान उन्हीं को देते हैं जो मेहनत करते हैं ।

—तो तू क्या लुंजा है या लंगड़ा ? इतना पढ़ा है । यहाँ नहीं मन लगता तो स्कूल में नौकरी कर ले ।

निश्चिन्त हँस कर रह जाता । और यही अम्मा दूसरे दिन कहती — ना, बेटा । नौकरी नहीं छोड़ा करते । दुनिया भूखी भर रही है । लोग नौकरी के लिये तरसते फिरते हैं और तू लगी-लगायी छोड़ना चाहता है ! इस नौकरी के कारण ही तेरी और तेरे कुटुम्ब की इज्जत है । दुनिया कहती है—लायक बेटा है, कुटुम्ब को संभाल रखा है, नहीं तो... नहीं तो...

अम्मा को पुरानी बातें याद आ जाती हैं । आँखों से टप-टप आँसू टपकने लगते हैं । निश्चिन्त न मुस्कराता है न रोता, केवल शून्य में खोया-खोया दिग्गम लगता

है। मायुक्तता उसमें भी है। माँ की बात चुभती है। पर वह जानता है कि जो कुछ उसके हृदय में है वह न माँ समझती है न पत्नी। उसका हृदय देश की परतन्त्रता पर कलकता है। वह सोचता है — येरा देश, करोड़ों नर-नारियों का देश, पराजित क्यों है ? क्या हम विदेशी पदचान्त करने वालों का साथ छोड़ दें तो उनकी भर्शान ठप न हो जावेगी ? क्या वे सदा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं ? और क्या दो-चार हजार के मर जाने से कोई देश मर सकता है ? क्या जन-शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति है ?.....प्रश्न तीखे हैं। उसके अपने हृदय को छेद देते हैं। वह बहुत सोचता है। आखिर क्यों.....? उत्तर मिलता है — क्योंकि जनता ने अभी अपने आपको समझा नहीं। वह आजादी और गुलामी का भेद नहीं जानती। जिस दिन जान जायगी उस दिन देखेगी, हमने अपने हाथों में आप ही हथकड़ी डाल रखी है और कि हम स्वयं ही उन्हें उतार कर फेंक सकते हैं। यही बात उसने एक दिन बड़े मनोयोग से रजनी को समझाया। रजनी ! जिस दिन तुम समझोगी कि तुम गुलाम हो, उसी दिन तुम्हें मेरे मन के द्वन्द्व का पता लग जावेगा। उस दिन तुम स्वयं बन्धन खोलने को आतुर हो उठोगी। बात केवल समझने की है। देश गुलाम है लेकिन हम आपस में लड़ते हैं पद के लिये, लिप्सा के लिये। सोचते नहीं, आजादी के सामने राव नौण है।

रजनी बोली, 'आप ठीक कहते हैं, परन्तु आजादी के लिये जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनसे जनता डरती है। मूख की तो कल्पना भी कैसा देती है।'

निश्चिन्त हँसा — 'मूख ! रजनी, संसार में भोजन की कमी कमी थी न कभी होगी। बात केवल इतनी है कि वह कुछ थोड़े से हाथों में चला गया है। उसे छीन लेना हमारा काम है।'

'लेकिन कैसे ?'

'उसके लिये जो समझदार हैं उन्हें रास्ता दिखाना पड़ेगा।'

और यही सोचकर निश्चिन्त सहसा हर्ष से मर उठा। ठीक तो है, मैं इतना समझता हूँ, मुझे रास्ता दिखाना चाहिये। मेरा और उस्मान का भगड़ा है। मैं आगे

बढ़ गया तो क्या होगा ? बेतन बढ़ जायेगा, परन्तु साथ ही गुलामी की जंजीरें भी टूट होगी । मैं गुलामी से घृणा करता हूँ । मुझे कह देना चाहिये मैं उस्मान को सीनियर स्वीकार करता हूँ.....परन्तु मैं कौन ? ... रास्ते में सरकार है, मेरे साथी हैं.....। साथी कहेंगे — कायर ! कृतघ्न ! हिन्दू जाति के माथे पर कलंक का टीका लगाना चाहता है । शेर जाल में फँसा है, उसे मुक्त करना चाहता है । शेर, शेर है । मुक्त होने पर तुम्हें न भी खाये, पर हम तो हैं ...। तो ...? उसका मस्तिष्क चकराने लगा । उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था । उसका कोई मित्र नहीं था । जो थे वे हिन्दू थे, सम्बन्धी थे, या विरोधी थे । सभी जाति-द्वेष, वर्ग-द्वेष और मानवता के प्रति घृणा से भरे हुए थे, वे सब कायर और कमीने थे.....

धीरे-धीरे निशिकान्त पर भी यही कायरता छाने लगी । मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा क्या मूल्य है ? मैं क्या कर सकता हूँ ? मेरे पास न शक्ति है, न सम्पन्नता, न सौन्दर्य, न परिवारिक महानता । मुझ में प्रतिभा भी नहीं है जो महान् लेखक ही बन सकूँ । तो मैं किस योग्य हूँ ?.....

किस्तीने पुकारा — ‘बाबू निशिकान्त ।’

चौककर देखा, पोस्टमैन था— ‘बाबू निशिकान्त, आपकी चिट्ठी है ।’

‘लाइये ।’

‘दो अखबार और एक लिफाफा ।’

लिफाफा रजनी का था । वह चिर-परिचित अक्षर ! खोलकर पढ़ने लगा । सदा की भाँति उसने लिखा था—

प्रियतम प्राणेश्वर !

आपका प्रेम-पत्र आया । पढ़कर न जाने क्यों मन भर आया । आप इतने दुखी क्यों रहते हैं ! आप जैसे योग्य आदमी भी तड़फते रहे तो कैसे होगा ? बुद्धि आपको मिली है, आप लेखनी के स्वामी हैं । क्या कोई भी गुणग्राहक नहीं है ? और फिर न भी हो । आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है । नौकरी में मन नहीं लगता तो सच कहती हूँ छोड़ दीजिये । आप भूखे

नहीं रह सकते, फिर मैं भी तो हूँ। पेट भरने जितना तो मैं भी कमा सकती हूँ। और सबसे अच्छा तो यह है कि हम दोनों अपना एक स्कूल चलायें। अदर-ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों को आत्मज्ञान भी आप दे सकेंगे। क्यों ठीक रहेगा न ?

पर कुछ भी हो दुखी न रहिये। उससे क्या समस्या हल होगी ? मुनिया प्रसन्न है। सदा बागीचे में फूल तोड़ती रहती है। आपको नमस्ते लिखाती है।.....

आपकी ही

रजनी

निशिकान्त ने पत्र पढ़ लिया। मानो पूर्व में प्रकाश की किरणें फूट पड़ी हों। क्षण भर में मस्तिष्क की अशान्ति दूर हो गयी। शब्द सीधे थे, पर उनके पीछे एक मार्ग था, मानो कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी थी—भविष्य उन्हीं का है जो निःशक हैं; मानो रजनी ने निशिकान्त को बताया था : दुविधा मौत है। भविष्य का निर्माण हमारे हाथ में है। भविष्य हमारा निर्माण नहीं करता।

हाँ, निशिकान्त ने कहा, ठीक है : मैं भविष्य का निर्माता हूँ। भाग्य मेरे हाथ में है। मैं अब इस चक्की में नहीं पिसेगा। मैं त्याग पत्र दूंगा ... त्यागपत्र...! हाँ, मैं त्यागपत्र दूंगा। मुझे सुक्ति मिलेगी। मैं खुलकर उन कारणों से लड़ सकूँगा जिनके कारण ये प्राणघातक परिस्थितियाँ पैदा हो गयी हैं। मैं जड़पर प्रहार करूँगा और जड़ है गुलामी चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या सांस्कृतिक। गुलामी गुलामी है। मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा।

और सचमुच अगले दिन सबेरे जाते ही उसने त्यागपत्र दे दिया। दफ्तर में जैसे विस्फोट हुआ हो। स्तीफा ! आज की दुनिया में स्तीफा ! सरकारी नौकरी से स्तीफा ! पन्द्रह वर्ष की नौकरी से स्तीफा !

टाइपिस्ट ने नेत्र विस्फारित कर कहा—‘बाबू निशिकान्त ने स्तीफा दे दिया ! एकाउन्टेन्ट चौका — ‘स्तीफा !’

सीनियर बाबूने पहले तो अचरज से देखा, फिर गम्भीरता से कहा — ‘तुमने शलत सुना है। कोई और बात होगी।’

‘नहीं, नहीं’ — टाइपिस्ट ने कहा — ‘मैंने स्वयं देखा है, वड़े बाबू उन्हें समझा रहे थे ।’

‘तब क्या कहा उसने ?’

‘यही कि मैंने स्तीका दिया है, मैं उसे वापिस नहीं लूँगा ।’

‘नहीं लूँगा ?’ — एकाउन्टेन्ट ने व्यंग से कहा — ‘ रात बड़े बाबू ने लड़ा था, वही जोश है । साहब के सामने जाते ही दूर हो जाएगा ।’

‘जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, । माना, वड़े बाबू वृत्तमीत्र हैं, पर इसका क्या यह मतलब कि नौकरी छोड़ दी जावे ? यह तो बुजदिली है ।’

‘एकदम बुजदिली ।’

‘अजी साहब ! मैंने भी स्तीका दिया था । स्टन्ट है, केवल स्टन्ट । देख लेना शाम तक वापिस ले लेंगे ।’

कि तभी आगये बाबू हरिचन्द्र । अचरज से सब को देखा, बोले — ‘क्या बात है ?’

‘आपने नहीं सुना !’

‘नहीं !’

‘आपके साथी बाबू निशिकान्त ने स्तीका दे दिया ।’

‘स्तीका दे दिया...?’

‘जी, दे दिया ।’

‘तो स्तीका दे दिया उसने.....?’

.....

मैं जानता था वह स्तीका देगा । सच तो यह है, उसे स्तीका देना ही चाहिये था ।

‘क्यों ?’ — कई बाबू एक साथ अचरज से बोले !

‘क्योंकि वह शेर है ।.....’

फिर सहसा सब धीरे-धीरे छड़ी को घुमाकर बोले — ‘एक दिन मैं भी शेर बनने

चला था, परन्तु मेरा भाग्य ! सेड़ बन कर रह गया । हम सभी भेड़ हैं । हम जानते हैं कि हम गुलाम है परन्तु रोज कुत्तों की तरह लड़ते हैं और मालिक के अत्याचारों को न्यायोचित ठहराते हैं ! हम अपने घर में धिराने हैं । हम अपनी भाषा नहीं बोल सकते, हम अपने वस्त्र नहीं पहन सकते, हम अपनी बात नहीं कह सकते । कहां भी कैसे ? ऊँटने सारा तम्बू घेर लिया है । उससे लड़ेगे तो तम्बू फट जायगा ।’

भावुकता हँसी में पलट गयी : कहते रहे, ‘तम्बू फट जायगा ? भले ही हमारा देश हमसे डिन जावे, परन्तु हम हमारी बीवियाँ, हमारे बच्चे जीते रहें ! ठीक है, भेड़ की दृष्टि आँखों से आगे नहीं बढ़ती । जिसकी गढ़ जाती है वह शेर है । इसलिये निशिकान्त शेर है ।’

और फिर बाबू हरिचन्द शीघ्रता से निशिकान्त के पास पहुँचे और बोले : ‘तो तुमने ब्यूह तोड़ डाला । शात्रु, तुमने दिखा दिया कि भेड़े भी शेर बन सकती हैं । मुझे बड़ी खुशी है । तुम अकेले ही पर रास्ता दिखा देनेवाला सदा एक होता है और फिर हम लोगों के शरीर भले तुम्हारे साथ न हों, वन से हम सब तुम्हारी बगमयाबी के लिये दुआ करेंगे ।’

निशिकान्त इस प्रशंसा के लिये तैयार नहीं था । वह सहसा विचलित हो उठा, न सींच सका, न बोल सका, केवल अपलक सजल नेत्रों से बाबू हरिचन्द को इस प्रकार देखने लगा मानो उनके मुख पर उसके भविष्य में होने वाला अरुणोदय स्पष्ट भस्मिल उठा हो ।

